

*Sources of Indo-Aryan Lexicography*

6

ŚĀRADĪYĀKHYA-NĀMAMĀLĀ

OF

HARṢAKĪRTI

CRITICALLY EDITED BY

M. M. PATKAR

DECCAN COLLEGE  
Postgraduate and Research Institute  
POONA

ŚĀRADĪYĀKHYA-NĀMAMĀLĀ  
OF  
HARṢAKĪRTI

CRITICALLY EDITED BY  
**MADHUKAR MANGESH PATKAR, B.A., PH.D.**  
Department of the Dictionary of Sanskrit,  
Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona.

स्वर्ग  
॥ १ ॥



POONA  
1951

*CODE No. : L. 23*

First Edition, 1000 Copies, June 1951

*Price Rs. 5*

*All Rights Reserved*

pp 1-47—Printed at the Poona University Press, Ganeshkhind, Poona  
Preface Introduction and Glossary printed at the Samarth Bharat Press, P  
*Published by—Dr S. M. Katre for the Deccan College  
Postgraduate and Research Institute, Yeravda, Poona 6.*

## PREFACE

It gives me great pleasure to present to the world of scholars the present edition of the *Sārādīyākhyaṅgamālā* of Pāṇini shortly after my edition of the *Anekārthasūtra* of Māhīśa published in the same Series in 1947. The work of preparing a critical edition of the *Sārādīyākhyanāmālā* was entrusted to me in the year 1950 by Dr. S. M. KATRE, Director of the Deccan College Research Institute, Poona, for being included in the Institute's Series called the 'Contributory Studies towards A Dictionary of Sanskrit on Historical Principles' in general and the 'Sources of Indo-Aryan Lexicography' in particular. I started my work on the critical edition of the *SN* soon after it was entrusted to me by procuring five manuscripts of the work—four from the Government Manuscripts Library at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona and one from the Manuscripts Library of the Deccan College Research Institute and having worked at it at different intervals, submitted to the Institute my press-copy early in January 1951. I am glad that the work is now available in print without any delay.

Before concluding the preface it is my pleasant duty to acknowledge with gratitude the help I received from several persons in bringing out this volume. In this connection my thanks are due to Dr. S. M. KATRE, for giving me an opportunity to edit for the second time a lexicographical work in the 'Sources of Indo-Aryan Lexicography' Series undertaken by the Institute. I am also thankful to Prof. P. K. GODE, M.A., Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, for the loan of the four manuscripts of the *SN* from the Government Manuscripts Library, and to Dr. R. G. HARSHE, D.LITT. (Paris), Registrar, Deccan College Research Institute, for allowing me the use of one manuscript of the work from the Institute's collection of manuscripts. I must also thank Miss Suman N. DHAYALE, G.A., but for whose help in the irksome task of preparing the glossary appended to the text, it would not have been possible for me to complete my press-copy so early. Lastly, I have to put on record my sincere thanks to Pt. K. V. K. SHARMA, Vyākaraṇavidvān, my colleague in the Sanskrit Dictionary Department,

for helping me in correcting the proofs with valuable suggestions at times and to Mr. S. R. PARANJPE, the enthusiastic Manager of the Poona University Press for the prompt and efficient printing of this work. The Samartha Bharat Press, Poona, also deserves my thanks for the printing of the preliminary portion and the glossary.

D. C. P. and R. Institute, }  
POONA, 6 }  
7th April 1951 }

M. M. PATKAR

## INTRODUCTION

The *Sāradyākhyanāmamālā* or *Sāradyābhīdhānamālā*, as it is sometimes called, is a glossary of synonymous words and is divided into three kāndas, each of which is again sub divided into different vargas. Thus the first kānda is divided into 1 *devavarga*, 2 *vyomavarga* and 3 *dharavarga* the second is divided into 1 *aṅgavarga*, 2 *samyogādivarga*, 3 *saṃgītavarga* and 4 *paṇḍitavarga*. The last kānda is divided into 1 *brahmapavarga*, 2 *rājavarga*, 3 *vaiśyavarga*, 4 *śūdravarga*, and 5 *saṃkīrṇavarga*. The whole work consists of about 465 stanzas.

### *The Author*

The author of the work belonged to a Jain sect, his name being Harsakīrti. He was a High Priest belonging to the *Nāgapurīyatapā-gaccha* branch of the Jain priests,<sup>1</sup> and was the pupil of Candrakīrti, who was highly honoured by emperor Jehangīr of Delhi, who ruled from A D 1545 to 1553. In his praśasti to the *Dhātupāthatarāṅgī*, Harsakīrti gives the following list of persons in his line who were honoured by royal personages —

- 1 Jayaśekhara, honoured by Hammīra (1301-1365 A D)
- 2 Vajrasena, honoured by Allāvadi<sup>2</sup> (1295-1316 A D)
- 3 Ratnaśekhara, honoured by Perojshah (1351-1388 A D)
- 4 Hamsakīrti, honoured by Sikandara Shah, probably Sikandar Shah Lodi<sup>3</sup> (1488-1518)
- 5 Anandarāya, obtained the title Rāya from Humayun (1530-1540)
- 6 Candrakīrti, teacher of Harsakīrti, who wrote the present work. Candrakīrti was honoured by Shah Salem or Jehangīr (1545-1553)
7. Padmasundaragani, honoured by Akbar (1556-1605)
- 8 Pacca, honoured by a Hindu king named Māladeva, who was the ruler of Jodhpura i e modern Jodhpur. R G BHANDARKAR states that Māladeva was a prince of the Rāthod family which ruled at Jodhpur from A D 1532 to 1583.<sup>4</sup>

### *Harṣakīrti's Works and Date*

Harsakīrti was a versatile writer and wrote on different subjects such as grammar, medicine, astrology and so on. Most of his writing

1 Cf the colophon to the author's *Dhātupāthatarāṅgī* which reads as follows —

इति श्रीमन्नागपुरीयसप्तमच्छात्रिण मद्यरक्त-धीहर्षकीर्तिसूत्रि-  
विरचितं श्लोपसंघातुवाठवियरणी सम्पूर्णम् । etc.

2 R. G BHANDARKAR is inclined to identify Allāvadi with Allaudīn Khiljī. See *Reports for 1882-83* p. 43.

3. *Ibid.*

4 *Ibid.*, p. 44.

exists in the form of commentaries although the composition of original treatises is also ascribed to him. The following are some of the works attributed to Harsakīrti :—

1 *Bṛhacchāntistotratīkā*; (composed in saṃvat 1655)<sup>6</sup>; 2 *Kalyāna mandīrastotratīkā*; (Ms. of saṃvat 1635)<sup>7</sup>; 3 *Sindūraprakāranatīkā* 4 *Sārasvatādīpikā*; 5 *Seṣanītkārikāvivarana* (composed in saṃvat 1669) 6 *Dhātupāṭhatarāṅgiṇī*; 7 *Dhātupāṭhavicarana*; 8 *Sāradyākhyānamamālā*; 9 *Śrutabodhatīkā*; 10 *Yogacintāmaṇi*; 11 *Vaidyakaśāroddhāra*; 12 *Jyotiḥśāra*<sup>8</sup>; and 13 *Jyotiḥśāroddhāra*<sup>9</sup>.

Another work on lexicography viz. *Saśāḍānekārtha* is also attributed to Harsakīrti<sup>10</sup>. In verse 3† on folio 85<sup>b</sup> of the India Office manuscript of this work it is stated that the glossary was composed by Harsakīrti in saṃvat 1665 which corresponds to A.D. 1607. This verse reads as under:

राजतन्त्रसंग्रहौ तु १६६५ वर्षे त्वयि मासि च ।

राजायं हर्षकीर्त्याद्भूरिश्वके सतां मते ॥

Scholars differ in their opinion concerning the date of Harsakīrti. According to WEBER<sup>11</sup> Harsakīrti, the author of the *Sāradyākhyānamamālā*, lived towards 'the end of the sixteenth century'. BELVALKAR<sup>12</sup> assigns the date 'circa 1550 A.D.' to Harsakīrti, probably relying on the fact that Harsakīrti was a pupil of Candrakīrti who was honoured by Salimshah alias Jehangir who ruled from A.D. 1545 to 1553. Judging, however, from the works ascribed to Harsakīrti in the above list we are inclined to assign Harsakīrti a period 'between A.D. 1575 to 1625' for his literary activity. From the list of works ascribed to Harsakīrti we come to know that he composed the *Bṛhacchāntistotratīkā* in saṃvat 1655 i.e. A.D. 1597, and the *Seṣanītkārikāvivarana* in saṃvat 1669 or A.D. 1613.

5. M. D. DESAI in his 'Jain Gurjar Kanō' (vol. 1, p 470) records the following information about Harsakīrti, the pupil of Candrakīrti and his works —

“पार्श्वचन्द्रगुडना राजवन्द्युरि ( जन्म सं. १६०६; वाचाय सं. १६२६; स्व. १६६९ ) ना राजराजोत्र राजसल्लभुरित्थिप चन्द्रकोटिद्वारे हत्वा. तेना निष्प आ हर्षकोटिसुरिए पोताना शुक्ला नामनी सास्त्रतन्त्राकरगनो टीका, नवहत्तरगनो टीका, सिन्दुरप्रकरटीका, चारदानाखनवाममाळा-चोत, धातुवरदिशी, योगचिन्तामणि, वैयक्यारोदार, विद्यारण्यरमप्रद, धृतकोपश्रुति, तिज्यपहुत अलि बुद्ध्याग्निपर श्रुतिप्रो तेमन न. १६१३ मां अविष्कारिकाविवरण अने सं. १६६८ मां कव्यागमनिरस्तरद्विष्टि आदि अनेक प्रथी सरहनुमां रच्या छे. ”

6. R. MITRA: *Notices*, No 3053.

7. BBRAS. *Des. Cat.* No. 1801.

8. *Cat. Cat.* I. 763<sup>b</sup>.

9. *Ibid*

10. *Vide I. O. Cat.* No. 5175.

11. T. ZACHARIAS: *Indischen Wörterbücher*, 37

12. *Systems of Sanskrit Grammar*, 103.

It is also stated that a manuscript of *Nyāyatāra* was copied for him in samvat 1635 i e A D 1579

It will be seen from the foregoing remarks that Harsakīrti must have already commenced his literary studies in A D 1579 when he got a manuscript of *Nyāyatāra* copied for his use. It is also evident that his literary activity continued at least up to A D 1613 when he wrote his commentary on the *Seṣanīkārikā*. I am, therefore, inclined to assign a period of about fifty years roughly from A D 1575 to A D 1625 to the literary activity of Harsakīrti.

#### *Manuscript material*

The present edition of the *Śāradyakhyānāmā* is based on five manuscripts, four from the Government Manuscripts Library at the Bhandarkar Oriental Research Institute, designated as B<sub>1</sub> (= No 1409 of 1887-91), B<sub>2</sub> (= No 281 of 1873-74), B<sub>3</sub> (= No 1382 of 1884-87) and B<sub>4</sub> (No 780 of 1875-76). The fifth manuscript designated as D<sub>1</sub> belongs to the Deccan College Mss Library. This manuscript being very corrupt had to be rejected after the 75th stanza of the second Kānda. All the manuscripts are written in Devanāgarī characters and with the exception of B<sub>4</sub> are dated as follows —

B<sub>1</sub>—samvat 1760, B<sub>2</sub>—samvat 1792 and D<sub>1</sub>—samvat 1723. Unfortunately none of the five manuscripts utilized for this edition is complete and in some cases the readings had to be fixed with the help of the readings found in other lexicons.



हर्षकीर्तिविरचिता

## शारदीयाख्यनाममाला

ॐ नमः ॥

- प्रणम्य परमात्मानं सच्चिदानन्दमीश्वरम् ।  
प्रप्नान्म्यहं नाममाला मालामिव मनोरमाम् ॥ १ ॥
- वाग्देवी शारदा ब्राह्मी भारती गीः सरस्वती ।  
हसयाना ब्रह्मपुत्री सा सदा वरदास्तु नः ॥ २ ॥
- विनायकः पशुपाणिर्विघ्नराजो गजाननः । 5  
द्वैमातुर एरुदन्तो लम्बोदरगणाधिपौ ॥ ३ ॥
- गौरीसुतश्च हेरेश्वस्तथा मूपक्याहनः ।  
कार्यरम्भेषु सर्वेषु सिद्धिबुद्धिप्रदोऽस्तु सः ॥ ४ ॥
- परमात्मा परब्रह्म परं ज्योतिरगोचरः ।  
निरञ्जनश्चिरानन्दः परम परमेश्वरः ॥ ५ ॥ 10
- देवाधिदेवः सर्वज्ञो वीतरागो जिनेश्वरः ।  
तीर्थंकरो जगन्नाथो जिनोऽर्हन्भगवान्प्रभुः ॥ ६ ॥
- सुगतः श्रीधरो बुद्धो बोधिसत्त्वस्तथागतः ।  
द्वयशरी दशबलो जिनः सौ[शी]द्धोदनिर्मुनिः ॥ ७ ॥

☞ The references in the critical apparatus are to the stanza-numbers

- 1 B1.2 missing B3 ॐनिदिशो - d) D1 missing मालामिव.
- 2 B1.2 missing - d) B4 adds (in marg sec m) सारिषी शारदा
- 3 B1.2 missing - b) B4 (marg sec m) गणारि for गजानन - c)  
D1 शिवातुर - d) B4 (marg sec m) गजानन for गणारि .
- 4 B1.2 missing - d) B4 न for म .
- 5 B1.2 missing
- 6 B1.2 missing - d) D1 missing अर्हन्
- 7 B1.2 missing - a) D1 श्रीधरो बुधो

- 15 महा प्रजापतिः सदा विविंधाः पितामहः ।  
 द्विष्यगर्भो दुद्धिणः परमेष्ठी चतुर्मुखाः ॥ ८ ॥  
 धाता विधाता लोकेशो त्रिर्द्विर्भ्रसृद्धुः ।  
 सुरज्येष्ठः कमलभूः स्वयंभूर्नामिभूरजः ॥ ९ ॥
- 20 पद्मनाभादियोनिः क आत्मभूः कमलासनः ।  
 तःपुनो नारदो वीणायुतो हसश्च बाह्वनः ॥ १० ॥  
 श्रीपतिः केशनः कृष्णो गोविन्दो माधवोऽप्युतः ।  
 दामोदरो दैत्यरिपुर्विष्णुर्नारायणो हरिः ॥ ११ ॥  
 चनार्दनश्चक्रपाणिर्गोसुदेवश्चतुर्भुजः ।  
 उपेन्द्रः पुण्डरीकाक्षो मुरारिः पुरपोत्तमः ॥ १२ ॥
- 25 पीताम्बरः पद्मनाभो मुकुन्दो मधुसूदनः ।  
 विश्वम्भरो विश्वरूपो विश्व[ध्व]क्तेनो वृषाक्षपिः ॥ १३ ॥  
 यदुनायो हृषीकेशः शौरिः श्रीनःसलाञ्छनः ।  
 वैकुण्ठ इन्द्राक्षो वनमाली त्रिविक्रम ॥ १४ ॥  
 अधिशायी शेषशायी श्रीधरो गरुडध्वजः ।
- 30 जलशायी यज्ञमूर्त्य [वि.] पुराणपुरुषः स्वभूः ॥ १५ ॥  
 अधोभुजः वैद्यमजिद्वलिभिद्विष्टश्चरा ।  
 देवकीनन्दनः शार्ङ्गो वसतिर्निरःकान्तकृत् ॥ १६ ॥

8 B1 2 missing

9 B1.2 missing

10 B1 2 missing - c) D1 तानीयुताः for वीणायुतो - d) B3 बाह्व for बाह्वन .

11 B1 2 missing

12 B1 2 missing

13 D1 missing विश्वरूपो

14 B2 missing

15 B2 missing

16 B2 missing - d) D1 वलिभिद्वि (?) for वलिभिद्वि

गदाधरध्वक्रधरो गोवर्धनधरो विधुः ।	
गोपीप्रियो गिरिधरः श्यामो गरुडवाहनः ॥ १७ ॥	
यशोदातनयो राधावल्लभो नन्दनन्दनः ।	35
विहृलो मोहनः कुञ्जविहारी द्वारकेश्वरः ॥ १८ ॥	
महेश्वरो महादेवः श्रीरुण्ठः शंकरः शिवः ।	
उग्रः शूली मृडः शंभुस्त्र्यम्बरुश्वन्द्रशेखरः ॥ १९ ॥	
रुद्रखिलोचनः शर्वः स्थाणुर्गङ्गाधरो हरः ।	
ईशान ईशो गिरिशो गिरीशः प्रमथाधिपः ॥ २० ॥	40
मृत्युञ्जयः पशुपतिः कृत्तिसासाः कपालभृत् ।	
वामदेवो भरो भर्गः पिनाकी वृषभध्वजः ॥ २१ ॥	
व्योमकेशः क्रतुधंसी भूतनाथ उमापतिः ।	
अष्टमूर्तिर्नीलरुण्ठः पुरभिन्नीललोहितः ॥ २२ ॥	
पण्डः कपर्दी सर्वज्ञो धूर्जटिस्त्रिपुरान्तकः ।	45
कृशानुरेता दिग्वासा अन्धकारिविपान्तकृत् ॥ २३ ॥	
प[ल]ण्डपर्शुर्विरूपाक्षो वरदो भाललोचनः ।	
इन्दुमौलिः स्मरारिश्च मीनो वृषभवाहनः ॥ २४ ॥	
लक्ष्मी श्रीः कमला पद्मा मा रमा कमलालया ।	
इन्दिरा हरिपत्नी सा लोरुमाताम्बिनन्दिनी ॥ २५ ॥	50

17 B2 missing.

18 B2 missing.

19 B2 missing.

20 B2 missing - a) B1 रीद

21 B2 missing

22 B2 missing

23 B2 missing - a) B1D1 पत्न for पत्नः.

24 B2 missing.

25 B2 missing - b) D1 कनकासा

ईश्वरी पार्वती गौरी भवानी हिमवत्सुता ।

उमा शिषाम्बिका दुर्गा काली कात्यायनीश्वरा ॥ २६ ॥

रुद्राणी चण्डिका चण्डी मृडानी मैनाकस्वसा ।

अर्णोर्या सती देवी गिरिजा सर्वमङ्गला ॥ २७ ॥

56

दाक्षायणी च शर्वाणी गद्यामाया महेश्वरी ।

भैरवी भूतनाथा च शंकरा सिंहवाहना ॥ २८ ॥

अनङ्गो मदनः कागो मारः पञ्चशरः स्मरः ।

मनोमनो रतिपतिर्नमयो मन्तरप्यजः ॥ २९ ॥

पुष्पधन्वा मनसिजः कन्दर्पो विषमायुध ।

60

सम्भरारिः सूर्यकारिर्दर्पको भीमकेतनः ॥ ३० ॥

अनन्यजो मधुसूतः प्रयुक्त कुसुमायुधः ।

शृङ्गारयोनिः पुष्पेयुः संकल्पात्मा रमासुतः ॥ ३१ ॥

दृष्टयः कमनः कन्तुर्जराभीरुश्च तच्छरा ।

मोहनोन्मादनी शोषणश्च तापनमारणौ ॥ ३२ ॥

68

कार्तिकेयो गुहः स्कन्दः सेनानीः पार्वतीसुतः ।

पाण्मातुरो महासेनः यण्मुखः शिखिवाहनः ॥ ३३ ॥

शरजन्माग्निभूः स्वामी विशाखः कौशभेदनः ।

तारकारिः शक्तिधरः कुमारो बहुलात्मजः ॥ ३४ ॥

26 B2 missing.

27 B2 missing

28 B2 missing. D1 missing महेश्वरी भैरवी भूतनाथा -d) B3 4 शंकरा  
for शंकरा

29 B2 missing -b) B1 स्थान for स्मर

30 B2 missing D1 missing मन्तरारि सूर्यकारि

31 B2 missing

32 B2 missing -d) B4 (also marg sec m.) D1 तापन for तापन

33 B2 missing -c) D1 पाण्मातुर .

34 B2 missing -b) B3 4 कौशभेदन., D1 missing कौशभेदन.

- विद्युधा देवता देवास्त्रिदशा निर्जराः सुरा ।  
 आदित्या मरुतो लेखा निलिम्पा नाकिनोऽभरा ॥ ३५ ॥ 70
- घृन्दारका सुमनस सुपर्वाण सुधाभुज ।  
 त्रिदिवेशा आदितेया अमर्या दानारय ॥ ३६ ॥
- दिवौऋसो दिविपदो गीर्वाणा अमृताधस ।  
 अस्वप्ता ऋभनो बर्हिर्मुखाः ऋतुभुजोऽरुज ॥ ३७ ॥
- स्य स्वर्गं त्रिदिव नाक सुरलोऋस्त्रिविष्टपम् । 75  
 सुरालयश्चोर्ध्वलोको घौर्गास्तविपताविषौ ॥ ३८ ॥
- इन्द्र पुरटर शक्तो वासव पाकशासन ।  
 सक्रदन सवस्त्राक्ष सुत्रामा मघना वृषा ॥ ३९ ॥
- आखण्डल सुनासीर पुरुहूत शतक्रतु ।  
 दिवस्पतिर्दुश्च[स्व्य]वनो जम्भाराति शचीपति ॥ ४० ॥ 80
- जिष्णुर्वृद्धश्रम वप्त्री विद्वीजा नाकनायकः ।  
 बलाराति सुरपतिर्मरुत्वान्मेघवाहन ॥ ४१ ॥
- प्राचीनवर्हिर्मघवाश्रतमन्यु सुरर्षभ ।  
 ऋभुक्षा नमुचिद्विद् च वृत्रहा कौशिको हरि ॥ ४२ ॥
- वास्तोष्पतिस्तुरापाद् च पुलोनारिर्मरुसख । 85  
 गोत्रमेदी हरिहयो देवराजोऽस्य तु प्रिया ॥ ४३ ॥

35 B2 missing

36 B2 missing

37 B2 missing -d) B1.3 D1 बहिर्मुखा

38 B2 missing -d) D1 त्रिदिवो for त्रिदिवो

39 B2 missing -ab) D1 missing दक्रो वासव

40 B2 missing -a) B1 सुनासीर -d) B1 जम्भाराति D1 missing  
 जम्भाराति-

41 -a) D1 जिष्णु -b) B3 नायक प्रभु for नाकनायक -b) D1  
 missing विद्वीजा नाक

42 -a) B1.3 बहि for बहि -c) D1 om च

43 -b) B1 सुकोमा -c) D1 हयो

- पुलोमजा शनीन्द्राणी पीयूषममृतं सुधा ।  
 द्वाहा हूहृथ गन्धर्वो विश्वकर्मा तु शिल्पिकृत् ॥ ४४ ॥
- 90 सुतो जयन्तः प्रासादो वैजयन्तोऽमरावती ।  
 पुरी सभा सुधर्मा च मातलिः सारधिर्दरेः ॥ ४५ ॥  
 ऐरावतो गजो वज्रमायुधं नन्दनं वनम् ।  
 उच्चैःश्रवा हयो यानं विमानं व्योमगामि च ॥ ४६ ॥  
 द्वारपालो देवनन्दी बृहस्पतिः पुरोहितः ।  
 स्वर्धेयावधिनीपुत्री नारदाद्याः सूर्यपः ॥ ४७ ॥
- 95 घृताची मेनका रम्भा मञ्जुघोषा तिलोत्तमा ।  
 उर्वशी च मुकेशी चैलाया अम्सरसः स्मृताः ॥ ४८ ॥  
 संतानः पारिजातश्च कल्पश्च हरिचन्दनः ।  
 मन्दाश्चेति देवानां वृक्षाः पञ्च बुधैः स्मृताः ॥ ४९ ॥  
 विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिनराः ।
- 100 पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽनी देवयोनयः ॥ ५० ॥  
 कुत्रेरो धनदः श्रीदो यक्षराजो धनाधिपः ।  
 किन्नरेशो राजराजः पौलस्त्यो गुह्यकेश्वरः ॥ ५१ ॥  
 ऐलविलः शंभुसखः कुहः पुण्यजनेश्वरः ।  
 एकपिङ्गो वैश्रवणो निधीशो नरवाहनः ॥ ५२ ॥

44 -c) B1.2.4 गंधर्वो.-d) B2 शिल्पि-; D1 शव्य (corrupt).

45 -a) B1 सुनी.

46 -d) D1 missing विमानं व्योमगामि.

47 -a) B5 missing द्वारपालो देवनदी. -c) B5 missing अधिनीपुत्री.

48 D1 missing उर्वशी ..... चैलाया

49 -c) B2 कल्पद् for कल्पधः; D1 missing कल्पध.

50 -a) D1 missing विद्याधराप्सरो. -d) D1 missing योनय .

51 -a) B2 श्रुतो (?) for श्रीदो.-b) B2 यक्ष for यक्ष.-d) D1 पौलस्त्यो.

52 -b) B2 'जिने' for 'जने'.

मनुष्यधर्मा कैलासनाथः किंपुरुषाधिपः ।	105
उत्तराशापतिः शक्रमोशाव्यक्षोऽन्धकापतिः ॥ ५३ ॥	
वरुणः पाशभृच्चैव प्रचेता अग्निमन्दिरः ।	
यादःपतिर्जलपतिः पाशी पश्चिमदिक्पतिः ॥ ५४ ॥	
यमः कृतान्तः शमनो धर्मराजः परेतराट् ।	
समवर्ती श्राद्धदेवः कालः सूर्यसुतोऽन्तरुः ॥ ५५ ॥	110
यमराजः पितृपतिर्मृत्युर्दक्षिणदिक्पतिः ।	
कीनाशो यमुनाभ्राता दण्डभृन्माहिषध्वजः ॥ ५६ ॥	
असुरा दानवा दैत्याः शुक्रशिष्याः सुरद्विपः ।	
पूर्वदेवा दिनिमुता दैत्येन्द्रा दनुजा अपि ॥ ५७ ॥	
असुरा राक्षसा जातुवाना रक्षासि नैर्धृताः ।	115
रात्रिचराः पुण्यजनाः पलादाश्रपरक्तवाः ॥ ५८ ॥	
॥ इति देववर्गः समाप्तः ॥	
आकाशमभ्रं गगनं व्योम विष्णुपदं नभः ।	
अम्बरं पुष्करं ख द्यौरन्तरिक्षं महत्पथः ॥ ५९ ॥	
वियद्विहायोऽनन्तं च सुखर्त्म घनाश्रयः ।	
आदित्यः सविता सूर्यो रविर्भानुर्दिनेश्वरः ॥ ६० ॥	120
अरुः सूरः खगः पूषा पतंगो भारुजो भगः ।	
तपनस्तरणिर्भिन्नश्चित्रभानुल्लयीतनु ॥ ६१ ॥	

54 -c) B2 D1 वरु\* for वार \*

55 B1 missing परेतराट् नक .

56 B1 missing -a) D1 यमराज

57 B1 missing -d) B4 दिनिवा (दनुजा in marg sec. m.)

58 B1 missing -c) B2 4 र दि

Colophon B3 4 om the colophon.

59 B1 missing -c) D1 वो for वौ .

60 B1 missing

61 B1 missing

- सप्तम्योऽहस्करो भास्यान्द्वादशात्मा विरोचनः ।  
 प्रभान्नः सहस्रांशुर्मर्तिण्डो मिहिरोऽर्षमा ॥ ६२ ॥
- 125 प्रयोतनो जगच्चक्षुः कर्मसाक्षी दिवाकरः ।  
 हरिदम्बो हरिर्हेलिर्भ्रमो हंसो विकर्तनः ॥ ६३ ॥  
 उष्णरश्मिर्ग्रहपनिर्गभस्तिभ्रकवान्धरः ।  
 इर्नोऽशुमाली सीष्णाशुः सप्तसप्तित्तिभाकरः ॥ ६४ ॥  
 नभोमणिर्धामपतिर्धुमणिः पद्मिनीपनिः ।
- 130 पद्मब्रन्धुर्विवस्वाश्च ध्रान्तात्तानिरहर्पनिः ॥ ६५ ॥  
 तिमिरारिर्दिनकरो यमुनाजनकोऽरणः ।  
 चन्द्रः सोमो मृगाङ्को ग्लौर्हिमाशुक्षन्दमाः शशी ॥ ६६ ॥  
 विधुः शशाङ्कः शीताशुर्दिजराजः सुधाकरः ।  
 जैनालृकः शशधरो नक्षत्रेशो निशाकरः ॥ ६७ ॥
- 135 ओपधीशो निशानाथ इन्दुः कुमुदिनीपतिः ।  
 अञ्जो राजा चोडुपतिः कलानाथो हिमपुतिः ॥ ६८ ॥  
 रोहिणीरमणः सिन्धुस्रुतः कुमुदवान्धरः ।  
 चन्द्रोद्योतः स्पृता ज्योत्स्ना चन्द्रिका कौमुदीन्दुरुक् ॥ ६९ ॥  
 नक्षत्रमृक्षं भं धिष्यं तारा ज्योतिरुडुर्ग्रहः ।
- 140 मयूखः किरणो भानुर्भरीचिर्दीपितिः करः ॥ ७० ॥

62 B1 missing -ab) D1 सप्तम्यो विरोचन (in marg sec m.),  
 -d) B3 D1 मिहृ

63 B1 missing -d) B4 D1 \*ज्ञो

64 B1 missing

65 B1 missing

66 B1 missing

67 B1 missing -a) D1 शीताशु -c) D1 शशीधरो -d) B2 नशाकर

68 B1 missing -a) B4 औपधीशो -b) B3 \*मिव (in marg sec. m.)  
 for \*पति

69 B1 missing

70 B1 missing -b) B2 4 उडुग्रह



- पादो गभस्तिरुद्धो गौर्ग्योतिर्धामांशुरसमयः ।  
 अर्चिः पृष्णिर्धृणिस्तेजो भाः प्रभा त्विट् छविर्धृतिः ॥ ७१ ॥
- शोचिर्दीप्तिर्महो वचो रोचिर्भा रुचिर्वसुः ।  
 शिशिः शीतलः शीतस्तुपारश्च हिमो जडः ॥ ७२ ॥
- उष्णं तिग्मं खरं तीक्ष्णं चण्डं तीव्रं तथा पटुः । 145  
 गङ्गलोऽङ्गारको भौम आरो वक्रः कुजः स्मृतः ॥ ७३ ॥
- बुधस्तु सौम्यो ज्ञश्चान्द्रिर्गुरुर्जीवो बृहस्पतिः ।  
 वाचस्पतिः सुराचार्यो गीष्पतिर्धिपणोऽङ्गिराः ॥ ७४ ॥
- शुक्रो दैत्यगुरुः काम्य उशना भार्गवः कविः ।  
 शनिः शनैश्चरः शौरिर्मन्दश्चायासुतोऽसितः ॥ ७५ ॥ 150
- राहुस्तमः सैहिकेयः स्वर्माणु[नु]स्तु विधुतुदः ।  
 केतुः शिखी चाहिकः स्वाद्भुवस्तुत्तानपादजः ॥ ७६ ॥
- सप्तर्षयोऽत्रिप्रमुखा अगस्तिः कुम्भजोऽम्बिषः ।  
 अश्विन्यादीनि नक्षत्राण्यष्टाविंशतिसंख्यया ॥ ७७ ॥
- लग्नानि राशयश्चैव मेपाद्या द्वादश स्मृताः । 155  
 अर्द्धदिन दिन घट्ट दिवसो वासरो दिवा ॥ ७८ ॥
- प्रातः प्रभातं प्रन्यूयो उपः कल्प्यमहर्मुखम् ।  
 रजनी यामिनी रात्रिखियामा शर्वरी निशा ॥ ७९ ॥
- निशीथिनी क्षपा दोषा क्षणदा च त्रिमावरी ।  
 अन्धकारं च तिमिरं स्वान्तं संमसं तमः ॥ ८० ॥ 160

71 B1 missing -a) B2D1 गौ for गौ

72 B1 missing.-d) B2 हिमो for हिमो

73 B1 missing

74 B1 missing -a) B2 बुद्ध for बुध -b) B2 जीवो for जीवो .

75 B1 missing

76 B1 missing राहुस्तम . केतु

77 -b) B4 अम्बिषः ; D1 अम्बिष

80 -a) B3 4 क्षिया for क्षया

- तमित्तमन्धतमसं मृत्त्राया तामसं रजः ।  
 क्षणः पलं घटी यापदिनमासर्तुतोऽपनम् ॥ ८१ ॥  
 नवस्तरो युगः कल्पं कालस्येत्यादयो मिदाः ।  
 मसन्तग्रीष्मवर्षाश्च शरद्रेमन्त एव च ॥ ८२ ॥
- 165 शिशिरश्चेति विज्ञेया ऋतवः षट् द्विमासि माः ।  
 अय्यः संवस्तरो वर्षं वस्तरो ह्यायनः शरत् ॥ ८३ ॥  
 कल्पो युगान्तः संहारः कल्पान्तः प्रलयः क्षयः ।  
 दिशा आशा दिशः काष्ठा हरितः ककुभश्च ताः ॥ ८४ ॥  
 चतस्रोऽष्टौ च दश वा स्युरिन्द्राद्यास्तदीश्वराः ।  
 170 पूर्वमेयी दक्षिणा च नैर्ऋती पश्चिमा तथा ॥ ८५ ॥  
 वायवी चोत्तरेशानी ब्राह्मी नागीति ता दश ।  
 वारिवाहो घनो मेघः स्तनविर्गुर्वनाघनः ॥ ८६ ॥  
 अभ्रं तडित्यान्मुदिरो जलमुग्नलदोऽम्बुमृत् ।  
 धाराधरो जलधरो धूमयोनिर्जलाहकः ॥ ८७ ॥
- 175 जीमूतो वारिदो नभ्राद् पर्जन्योऽम्बोधरोऽम्बुदः ।  
 विष्टुत्सैदामिनी शम्पा चञ्चला चपला तडित् ॥ ८८ ॥  
 ऐरावती क्षणरुचिर्द्वादिनी च शतहृदा ।  
 गर्जिने स्तमितं गर्जा रसितं मेघनिस्वनः ॥ ८९ ॥  
 वप्पीह (!) श्वातकंसारङ्गस्तोकको नभोऽम्बुपः ।  
 180 नीलकण्ठः शिखी केकी मयूरो जलमुत्सहृत् ॥ ९० ॥

81 —a) B1 2 4 D1 तिमिध\* for तमित्त\*. —c) D1 एवयं.

83 —a) B1 शिशिरं. —ab) D1 in marg. sec. m. —D1 om. 83 bc.

84 —c) B2 दिशा for दिशः. —d) B1 ककुभा .

87 —b) B1 अलदं\* for जलदोऽम्बु\*.

89 —a) B2 क्षणे\* for क्षण. —d) B All mss. लिस्ने.

शिखण्डी बर्हिणो बर्ही कलापी च भुजंगमुक् ।  
परपुटा परभृता ताम्राक्षी कोकिळा पिकी ॥ ९१ ॥

मधुगालापिनी श्यामा कलकण्ठी धनप्रिया ।  
रथाङ्गाहक्षक्रवाकः कोको द्वंद्वचरश्च सः ॥ ९२ ॥

यामिनीविहक्षक्रो रामशापनिशावियुक् । 185  
जीवंजीवश्चलचञ्चुश्चोरो विपमूचकः ॥ ९३ ॥

ताम्रचूडः कुक्कुटश्च कुरुवाकुः शिलण्डिकः ।  
प्रभातज्ञो निशावेदी वृक्षाक्षधणायुधः ॥ ९४ ॥

अनुवादी रक्ततण्डः शुक्रः कीरः फल्गुदनः ।  
खड्गनः खड्गरीटश्च नीलक्षापः क्रिकीदिविः ॥ ९५ ॥ 190

हंसो मरालक्षक्राङ्गो मानसीकाः शितच्छदः ।  
हंसमेदा राजहंसाः फादम्या धार्तराष्ट्रकाः ॥ ९६ ॥

तार्क्ष्यः सुपर्णो गरुडो वैनतेयोऽरुणानुजः ।  
गरुमान्पक्षिराजश्च सर्पारिः कश्यपात्मजः ॥ ९७ ॥

खगो विहंगमः पक्षी विहंगो विहगो द्विजः । 195  
पक्षो पतत्री शकुनिः शकुन्तः शकुनः पतत् ॥ ९८ ॥

विहायो विः पत्रयो विक्रिः पतगोऽण्डजः ।  
नगौरा नीडनिलयः खचरो विक्रियो वयः ॥ ९९ ॥

पक्ष\*टदो गरुत्पत्रं पतत्रं च तनूरुहम् ।

बाजोऽस्य पक्षतिर्मूलं चञ्चुखोटिः स्रगाटिका ॥ १०० ॥ 200

94 —a) B4 कुहुर.

95 —a) D1 रक्ततुदी. —b) D1 पत्रादन. —c) D1 संयमं.

96 —d) B1 2 D1 पत्र for पत्र

98 —c) B2 शकुनी.

99 —a) B1 पत्र(पी).

100 —d) B2 पत्र for पत्र.

उडुपं तु प्लवः कोलस्तारण्डो मेळ इत्यपि ।

निर्यामरुः कर्णधारो नाविरुः पोत्राहकः ॥ १२१ ॥

पृथुरोमा संघचारी मन्स्यो भीनो तपोऽण्डनः ।

वैसारिणो विसारी च शम्बरोऽनिमिपस्तिमिः ॥ १२२ ॥

245

पाठीनः शफरी शल्की रोहितश्च तिमिगिलः ।

मेरुमण्डकवर्षाभूशाब्दरुद्रदुःराः ॥ १२३ ॥

कण्ठपः कमठः कूर्मो दील्यः कमठी दुलिः ।

यादासि जलजीराः स्युस्ते नक्रमकरादयः ॥ १२४ ॥

उदपानं प्रदिः कूपश्चान्धुर्वापी तु दीर्घिका ।

250

पुष्करिणी खातकं च निपानं तु जलाश्रयः ॥ १२५ ॥

सरस्तडागः कासारः सरसी च सरोवरः ।

पष्पाकरः स एव स्यादसन्तः पत्रलं लघु ॥ १२६ ॥

कमलं पुष्करं पष्पमविन्दं कुशेशयम् ।

अम्भोरुहं तामरसं राजीवं च महोत्पलम् ॥ १२७ ॥

255

वि[वि]सप्रसूनं नलिनं शतपत्रं सरोरुहम् ।

सहस्रपत्रं जलजं सरोजं सरसीरुहम् ॥ १२८ ॥

पङ्केरुहं सरसिजमब्जं वारिजमभ्युजम् ।

नालीकं पङ्कनाम्भोजे कजं चाङ्घ्रि विकासभाक् ॥ १२९ ॥

रक्तोत्पलं कोकनदं पुण्डरीकं सिताभ्युजम् ।

160

पद्मिनी च कमलिनी नलिनी विस[सि]नीत्यपि ॥ १३० ॥

122 —d) B1 शम्बरो for शम्बरो

125 —a) B2 प्रतिकृप.

128 —d) B1,3,4D1 सरतिरुह.

129 B1 missing अङ्घ्रिविकासभाक्.

130 B1 missing.—d) B2 om. नलिनी.

अम्भोजिनी नीरजिनी पङ्कजिन्यञ्जिनी स्मृता ।	
अघोपल कुवलय कुमुद बैरव सिनम् ॥ १३१ ॥	
इन्दीवर च तन्त्रीलोत्पल रात्रिक्रासभाक् ।	
कुमुद्वती कुमुदिनी कैरविणी शक्तिप्रिया ॥ १३२ ॥	
दण्डो नाल मृणाल च विसनन्तुक्ष तन्तुलम् ।	265
द्विरेफो भ्रमरो भृङ्गो रोलम्बोऽलि शिलीमुख ॥ १३३ ॥	
इन्दिरक्ष्णरीरु पटपदध मधुव्रत ।	
मधुपोऽली[लि ] मधुरो मधुलिद् पुष्पलिद् स्मृत ॥ १३४ ॥	
यल्ली प्रतानिनी वीरुद्धतनिर्वल्ली स्ता ।	
पुष्प प्रसून बुसुम सूत सुमनस सुमम् ॥ १३५ ॥	270
मकरन्द पुष्परस पराग पुष्पज रज ।	
पद्म पर्ण दल बह्वं पलाश छदन छद ॥ १३६ ॥	
नम तस्याभिसत्रय प्रगाल पल्लवो नम ।	
फुल्ल विक्रसित स्मेर प्रबुद्ध पिरुच स्मृतम् ॥ १३७ ॥	
उज्जृम्भित चोन्मिपित हसित च निजृम्भितम् ।	275
स्फुट प्रफुल्लमुफुल्ल त्रिनिद्र दलित तथा ॥ १३८ ॥	
संकुचित मीलित च निद्राण मुदित स्मृतम् ।	
पण्ड आराम उद्यान त्रिपिन कानन वनम् ॥ १३९ ॥	
याटिकोपवन दाव कक्ष कान्तारनि सुटी ।	
अटव्यरण्य गहन सा दे बुञ्जो निजुञ्जरत् ॥ १४० ॥	280

131 B1 missing

132 B1 missing d) B2 बैरव for बैरविणी

133 B1 missing

134 B1 missing

135 B1 missing - a) B2 व्रि for वही

136 B1 missing - a) D1 मकर-

137 B1 missing - d) D1 भित for स्मृतम्

138 B1 missing

139 B1 missing

1 Q B1 missing

- वृक्षो वृमस्तरुः शाखी पादपश्च महीरुहः ।  
 अनोनहोऽद्विप. सालः पलाशी विटपी कुटः ॥ १४१ ॥  
 अगो नगोऽगमो दुध फलराध वनस्त्रनिः ।  
 केतसः केतकी जाती चम्पको मल्लिका जपा ॥ १४२ ॥  
 285 वन्धुको मूषिका कुन्द इत्याद्याः पुष्पजातयः ।  
 धात्रो रसालो गामन्दः सदकारश्चूतनूतनत् (?) ॥ १४३ ॥  
 रम्भा तु कदली मोचा रामो करकदाडिमौ ।  
 गन्धसारो मलयजः श्रीखण्डश्चन्दनद्रुमः ॥ १४४ ॥  
 तैलपर्णिक्रमेवेदं गोशीर्षं हरिचन्दनम् ।  
 290 सर्पो भुजंगो भुजगः पन्नगोऽद्विर्भुजंगमः ॥ १४५ ॥  
 उरगो जिह्मगो भोगी दन्दशूकः सरीसृपः ।  
 दर्शकतो विपथरो द्विजिह्वः पवनाशनः ॥ १४६ ॥  
 कान्तोदरो दीर्घपृष्ठः पृदाकुः सुण्डली फणी ।  
 आशीविपो गुप्तपादो व्यालो नागो क्लिशय. ॥ १४७ ॥  
 295 चक्षुःश्रवाः वाद्भवेयः सर्पराजस्तु वासुकिः ।  
 शेषो नागाधिपोऽनन्त. सहस्रवदनश्च सः ॥ १४८ ॥  
 विपस्तु गरलं श्वेडो रसस्तीक्ष्णश्च तद्विदः ।  
 ह्यालाहल. कालकूटो यस्नागः प्रदीपन. ॥ १४९ ॥  
 सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रः कामोले दरदोऽपि च ।  
 300 मृग. कुरङ्गो हरिण एणः सारङ्ग एव च ॥ १५० ॥

141 B1 missing

142 B1 missing

143 B1 missing

144 B1 missing, -d) D1 समो for ममो

145 B1 missing

146 B1 missing

147 B1 missing

148 B1 missing

149 B1 missing

150 B1 missing

- वातायुः कृष्णसारश्च रुरुमुख्यास्तु तद्भिदः ।  
 सिंहो मृगेन्द्रः पारीन्द्रो हर्षक्षः केसरी हरिः ॥ १५१ ॥
- कण्ठीरवो महानादो मृगारिर्नखरायुधः ।  
 पञ्चाननो गजारातिः पुण्डरीरुस्तु चित्ररुः ॥ १५२ ॥
- द्वीपी व्याघ्रश्चित्रनायः शार्दूलः शरभोऽष्टपाद् । 305  
 गजो मतङ्गजो हस्ती मातङ्गः कुञ्जरः करी ॥ १५३ ॥
- इभः स्तम्भेरमः कुम्भी दन्ती दन्तावलो द्विपः ।  
 द्विरदः सिन्धुरो नागः सामयोनिर्महामृगः ॥ १५४ ॥
- अनेकपक्ष करटी करेणुः पीलुनारणौ ।  
 घोटकस्तुरगो बाजी तुरंगोऽश्वस्तुरंगमः ॥ १५५ ॥ 310
- अर्वा बाहो ह्यः सप्तिर्गन्धर्वो वीतिरेव च ।  
 काम्बोजाः सैन्धवा देस्या अ[आ]जानेया वनायुजाः ॥ १५६ ॥
- अम्बा वामी च बडवा किरोरो बालघोटरुः ।  
 अनक्ष शक्रतो गन्त्री शताङ्गः स्यन्दनो रथः ॥ १५७ ॥
- शिविका याप्ययान च दोला प्रेक्षा सुखासनम् । 316  
 बाहनं धोरण यानं पत्रं युग्यं गतिर्व्यजः ॥ १५८ ॥
- ध्वजश्च केतनं केतुः पतारुश्चिह्नमेव च ।  
 मार्गोऽश्वा निगमः पन्था पदवी वर्म पद्धतिः ॥ १५९ ॥
- अयन सरणिः पथ्या रथ्या वीथी च संचरः ।  
 उक्षा गौर्धृपभोऽनड्वान्भद्रः तार्करशर्करौ ॥ १६० ॥ 320

151 B1 missing

152 B1 missing

153 B1 missing -c) B2 मानगजो for मतङ्गजो.-d) B2 कुञ्जरी for कुञ्जरः,

154 B1 missing -d) B2 इवानवोनिः for सामयोनिः.

155 B1 missing -c) B1 तुरंगं for तुरग .

156 B1 missing

157 B1 missing.

158 B1 missing

159 B1 missing

160 B1 missing. -b) B 2 मचर for मचरः.

- बलीवर्दः सौरमेयः ककुभाञ्जशाकरो वृषः ।  
 सुरभिर्गौरनडाही सौरमेयी च रोहिणी ॥ १६१ ॥  
 तम्बा तम्बार्जुनी धेनुर्माहेयी च निलिम्बिका ।  
 क्रमेल्लोष्ट्ररुमा दासेरः कण्टकाशनः ॥ १६२ ॥
- 325 वराहः शूकरः कोलो गर्दभो रासभः खरः ।  
 कुङ्कुरः सारमेयः आ भयणः आनमण्डलः ॥ १६३ ॥  
 शाव्याशृगो मर्कटश्च बनौका वानरः कपिः ।  
 शृगालो जम्बुरु क्रोष्टा फेरुगोमायुक्तेरवा ॥ १६४ ॥  
 उरभो मेण्डको मेघ प्लञ्जोऽविद्धोरेणा ।
- 330 धजस्तु ज्वालन्टागश्च्यो बस्त. स्तभः पशु. ॥ १६५ ॥  
 अग्निर्वह्निर्वृह द्धानुर्दहनो ज्वलनोऽनलः ।  
 वैश्वानर. कृष्णर मी चित्रभानुर्धनजयः ॥ १६६ ॥  
 आशुसुश्रणिष्पित्त जातवेदा हुताशनः ।  
 हव्यनाहो हुतबहो बर्हिः शुष्मा विश्वरसुः ॥ १६७ ॥
- 335 आशपाशो वायुमन्वः पानको हुतभुविशखी ।  
 श्यामपिर्वातिहोत्र. कशानुन्टागसाहनः ॥ १६८ ॥  
 हिरण्यरेताः सप्तार्चिः शोचिष्वेसास्तनूनपात् ।  
 कृपीटयोनिर्दमुना रोहिताश्च उपसुध ॥ १६९ ॥  
 स्वाहापतिः शुचिः शुक्रो बर्हिज्योतिर्विशोचनः ।
- 340 ज्वालाजिह्व सप्त मन्त्रः शुष्मा धूमस्वजोऽपि च ॥ १७० ॥

161 B1 missing -d) B2D1 नीरमेया for सौरमेय

162 B1 missing

163 B1 missing

164 B1 missing -c) D1 कोटी for कोष्ट

165 B1 missing

166 B1 missing -b) B2 वरुण for वरुण

167 B1 missing -d) D1 बर्हि for बर्हि

168 B1 missing

169 B1 missing

170 B1 missing



- वडवानल और्वश्च वाडवो वडवामुलः ।  
 संवर्तकः समुद्राग्निर्दिवो दावो वनानलः ॥ १७१ ॥  
 सुवर्णं कनकं स्वर्णं हिरण्यं हेम काञ्चनम् । -  
 चामीकरं शातशौभ्रं गाङ्गेयं भर्म हाटकम् ॥ १७२ ॥  
 कार्तस्वर जातरूप कल्पधौत च कर्चुरम् । 345  
 तपनीयं च कल्याण रुक्म जाम्बूनद वसु ॥ १७३ ॥  
 अष्टापदं भूरिचन्द्रो महारजतभूत्तमे ।  
 दुर्वर्णं रजत रूप्यं तारं खर्जूरमिलपि ॥ १७४ ॥  
 रत्नं वसु मणिस्तस्य मेदा मरकतादयः ।  
 वैडूर्यवज्रमाणिक्यनीलमौक्तिकविद्रुमा ॥ १७५ ॥ 350  
 द्रव्यं स्वं द्रविण वित्तं युन्न रा विभवो धनम् ।  
 अर्थो लक्ष्मीः स्वापतेयं रिक्थमृक्थ तथा वसु ॥ १७६ ॥  
 भूतिर्विभूतिरैश्वर्यमणिमादिकमष्टधा ।  
 अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा ।  
 प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्व वशित्व चाष्ट सिद्धयः ॥ १७७ ॥ 355  
 महापद्मस्तथा पद्मः शङ्खो मकरकच्छपौ ।  
 मुकुन्दकुन्दौ नीलश्च खर्वश्च निधयो नव ॥ १७८ ॥  
 अस्या श्रीहिममालाया हर्षनीर्तिरुवे कृतौ ।  
 देवव्योमधरावर्गे काण्डोऽयं प्रथमोऽजनि ॥ १७९ ॥

इति धीदपंकीर्त्युपाध्यायविरचितायां शारदीयाभिधायां  
 लघुनाममालायां प्रथमः काण्डः ॥ १ ॥

- 171 B1 missing -a) B2 वाडवानल for वडवानल. D1 ऊवं for और्वं.  
 -b) B2 वडवानल for वडवामुल -c) D1 सुवर्णका for सुवर्तक.  
 172 B1 missing -b) B3 हाटक for काञ्चन -d) B2 वानन for हाटकम्  
 173 B1 missing -d) B4 D1 जक् for जम्बु.  
 174 B1 missing -c) B2 रूप for रूप.  
 175 B1 missing -c) B2 माणिक्य for माणिक्य--B2 मुक्तिक for मौक्तिक-  
 176 B1 missing  
 177 B1 missing -a) B2 किति for विभूति  
 178 B1 missing -d) All mss read लर्वश्च (corrupt) for खर्वश्च.  
 Colophon: B1 missing, B3 हर्षकीर्तिरिविर'.

- 360 मनुष्यो मानवो मर्त्यो मनुजो मानुषो नरः । ;  
 ना विट् पञ्चजनो भूस्पृक् पुरुषः पूरुषः पुमान् ॥ १ ॥  
 स्त्री नारी वनिता योषा ललना महिलाबला ।  
 कामिनी भामिनी रामा रमणी च नितम्बिनी ॥ २ ॥  
 अङ्गना मानिनी योषिद्वर्णिनी वामलोचना ।
- 365 बाला सीमन्तिनी भीरुः सुन्दरी युवती वशा ॥ ३ ॥  
 मृगाक्षी प्रमदा भामा मुग्धा वामा विलासिनी ।  
 कृशोदरी पुरन्ध्री च तन्वी लीलावती वधूः ॥ ४ ॥  
 उपयामः परिणयो त्रिवाहः पाणिपीडनम् ।  
 पाणिग्रहणमुद्राहो दारकर्म त्रिवाहनम् ॥ ५ ॥
- 370 भर्ता विवोद्वा रमणो भोक्ता नाथः पतिर्धवः ।  
 बरो वरयिता कान्तो वल्लभो दयितः प्रियः ॥ ६ ॥  
 प्राणेशः प्रणयी प्रेयान्प्रेष्ठः प्राणसमोऽधिकरुः ।  
 प्रीतः प्रियतमः सेक्ता आर्यपुत्रश्च नायकः ॥ ७ ॥  
 भार्या सहचरी पत्नी वल्लभा प्रेयसी प्रिया ।
- 375 कान्ता जाया जनी जानिर्गृहं दाराः परिग्रहः ॥ ८ ॥  
 ऊटा पाणिगृहीता च कलत्रं गृहिणी वधूः ।  
 दयिता च प्रियतमा द्वितीया च सभार्मिणी ॥ ९ ॥  
 पिता तु जनकस्तातो वता जनयितापि च ।  
 अम्बा माता सवित्री च जनयित्री जनन्यपि ॥ १० ॥
- 380 नन्दनस्तनयः पुत्रो दारकः सुनुरुदहः ।  
 सुतोऽङ्गज आत्मजश्च पुत्री तु दुहिता सुता ॥ ११ ॥

1 B1 missing.-b) B2 मानवो for मानुषो.

2 B1 missing.

3 B1 missing.

4 —a) B2 repeats दरो.-b) B2 प्ररदरी for पुत्रो.

- बाल. स्तनधयः पोत पासो डिम्बोऽर्भकः शिशुः ।  
 कुमार. पृथुः. शान. क्षीरकण्ठः किशोर. ॥ १२ ॥  
 कुमारी जन्यता कन्या बालिका दिक्की कनी ।  
 तोलापत्ये प्रसूतिस्तुक् सतान सततिः प्रजा. ॥ १३ ॥ 385  
 भ्राता सहोदरो बन्धु. सहजो बान्धवोऽपि च ।  
 भगिनी तु स्वसा जामिर्दंपती दयितापती ॥ १४ ॥  
 वशोऽन्वयः कुल गोत्र जननाभिजने अपि ।  
 सती पतिव्रता सार्धं दासी चेटी च चेटिका ॥ १५ ॥  
 दूती सचारिका चुन्दी कुट्टिनी सम्भली सगाः । 390  
 पण्यस्त्री गणिना वेश्या रूपाजीना पणाङ्गना ॥ १६ ॥  
 असती पाशुलाशीला स्वैरिणी कुलदेवरी ।  
 पुश्वली बन्धुकी घृष्टा चर्पणी न्यभिचारिणी ॥ १७ ॥  
 मित्र सखा सहचरौ वयस्यः सखा. मुद्दत् ।  
 आली सखी वयस्या च सप्रीवी सहचारिणी ॥ १८ ॥ 395  
 शरीर विप्रहो देहो गात्र क्षेत्र तनुस्तन. ।  
 अङ्ग कायो वपुर्मेर्म मूर्तिर्देर कलेसरम् ॥ १९ ॥  
 महान घनो बन्ध. पुर. पिण्डं च पुद्गलम् ।  
 द्वीपमञ्ज कारण ग्रहणं च खगिन्द्रियम् ॥ २० ॥  
 आत्मा जीवोऽशुमाञ्जन्तुर्देही प्राणी च चेतनः । 400  
 जन्युः शरीरी पुरुषो हसः सत्त्वं पुनर्भवा (?) ॥ २१ ॥  
 स्वान्त चित्त मनश्चेनो मानमं हृदय च तत् ।  
 अन्त.करणमप्यस्य संस्कारश्च मनोरयः ॥ २२ ॥

18 —b) B4 सख

19 D1 missing

20 D1 missing - a) B3 क.पु for क.प. - d) B2 चङ्गिन्द्रियम् for  
च खगिन्द्रियम्

21 D1 missing.

22 D1 missing

- शीर्षकं मस्तकं मुण्डं मौलिर्मस्तं च मस्तिकम् ।  
 405 उत्तमाङ्गं शिरो मूर्धा करणप्राणमेव च ॥ २३ ॥  
 केशा बालाश्च चिकुरा अलकाः कुन्तलाः कचाः ।  
 शिरोरुहास्तीर्थयाका मूर्धजास्तत्समुच्चये ॥ २४ ॥  
 केशात्कलापरचनापाशभारचया अपि ।  
 कवरी वेणिका वेणी धम्मिल्ला गुम्फिताः कचाः ॥ २५ ॥  
 410 केशेषु धर्म सीमन्तः कुरलो भ्रमरालकः ।  
 शिखा शिखण्डिका चूडा बाज्रनां काकपक्षकः ॥ २६ ॥  
 मुखकेशाः श्मश्रु कूर्चो लोम रोम तनूरुहम् ।  
 रोमावली रोमलता रोमराजी हृद्दरे ॥ २७ ॥  
 मुख तु वदनं वक्त्रं तुण्डमास्यं तपाननम् ।  
 415 ललाटमलिकं भालं गोध्यलीके ललाटिका ॥ २८ ॥  
 कर्णः श्रोत्रं श्रवणं च शब्दमाहः श्रुतिः श्रवः ।  
 नकं तु नासिका नासा प्राणं घोणा च शिङ्गिनी ॥ २९ ॥  
 नयन लोचन नेत्रमीक्षण चक्षुरम्बकम् ।  
 अक्षि दृग्दृष्टिरयान्तस्तारका च कर्नीनिका ॥ ३० ॥  
 420 अर्धदृग्वीक्षणं काक्षः कटाक्षोऽपाङ्गदर्शनम् ।  
 क्रोधाद्भवो विकारो यो भ्रुकुटिर्भ्रुकुटिश्च सा ॥ ३१ ॥  
 पक्ष्म स्यान्नेत्ररोमाणि भ्रूरूर्ध्वं रोमपद्धतिः ।  
 गण्डो गण्डः कपोलश्च चिबुकं दन्धरादधः ॥ ३२ ॥

23 D1 missing. -d) B1 करण प्राणं for कणप्राणं.

24 D1 missing

25 D1 missing

26 D1 missing -d) B3 4 \*वधुव

27 D1 missing. -a) B4 कूर्च -b) F1 in marg see m.

28 D1 missing -c) B1 ललाट

29 D1 missing

30 D1 missing

31 D1 missing -b) B2 अननं for अयाङ्ग. -c) B1 क्रोधाद्भवो.

32 D1 missing.

- ओष्ठोऽधरो दन्तवर्खं तथा च रदनच्छदम् ।  
 रदना दशना दन्ता द्विजा दंशा रदा अपि ॥ ३३ ॥ 425
- जिह्वा रसज्ञा रसना कण्ठो निगरणो गलः ।  
 वंशः स्कन्धो भुजशिरो बाहुर्बाहा च दोर्भुजः ॥ ३४ ॥
- हस्तः करः शयः पाणिः पञ्चशाखश्च स स्मृतः ।  
 अङ्गुल्यः करशाखाः स्युस्तथाङ्गुल्लङ्गुलौ समौ ॥ ३५ ॥
- कामाङ्गुशो महाराजः करजो नखरो नखः । 430  
 करशूकः कररुहो भुजाऋण्टः पुनर्भ्रवः ॥ ३६ ॥
- शिरोधिः कंधरा मीवा धमनिश्च शिरोधरा ।  
 उरो हृद्दयं वक्षः स्तनान्तरमुजान्तरे ॥ ३७ ॥
- स्तनौ कुचावुरोजौ च वक्षोजौ च पयोधरौ ।  
 उदरं जठरं तुन्दं पिचण्डः कुक्षिरेव च ॥ ३८ ॥ 435
- त्रिऋत्स्त्रदरे रेखा नाभिः स्यात्तुन्दकूपिका ।  
 अङ्गस्तु ऋण्ड उत्सङ्गः पृष्ठं वंशखिकं तथा ॥ ३९ ॥
- मध्योऽवलङ्गं विलङ्गं मध्यमोऽलङ्क एव च ।  
 काञ्चीनदं कटिः श्रोणिः कटीरं च ककुभती ॥ ४० ॥
- अधो नितम्ब आरोहः स्त्रीरुत्वा जघनं पुरः । - 440  
 उपस्थं च भगो योनिः स्त्रीचिह्नं स्मरमन्दिरम् ॥ ४१ ॥
- पुंश्चिह्नं मेहनं मेढ्रं शिशं शेफ इति स्मृतम् ।  
 अपानं तु गुदं पायुर्गुरु सत्रिय समे उमे ॥ ४२ ॥

33 D1 missing.

31 D1 missing

35 D1 missing

36 D1 missing.

37 D1 missing.

38 D1 missing. - c) B2 तुंर

39 D1 missing.

41 -b) B1. 2 पुं.

42 -d) B1 ए\* (in marg.)

- जानूरुपर्व चाष्टीरप्रतिजज्ञा तु पिण्डिका ।  
 445 पादः पदोऽद्भिश्चरणश्चलनः क्रमणः क्रमः ॥ ४३ ॥  
 मण्डनं स्यादलकारो भूषणाभरणे अपि ।  
 शीर्षाभरणं शीर्षपुं चूडामणिः त्रिरोमणिः ॥ ४४ ॥  
 मौलिः किरीटं कोटीरमुष्णीपं मुकुटं तथा ।  
 आपीडः शेलरोत्तसावतंसाः शिरसः क्षजि ॥ ४५ ॥  
 450 ललापकं ललाटस्थं कर्णपूरं तु कर्णगम् ।  
 निलकं तपालपत्रं चित्रं पुण्ड्रं विशेषकम् ॥ ४६ ॥  
 पत्रलेखा पत्रलता पत्रमङ्गी ललाटिका ।  
 ताडङ्गस्तु ताडपत्रं कुण्डलं कर्णवैष्टकम् ॥ ४७ ॥  
 नासानामप्रतः पुष्पमाभरणं च मौक्तिकम् ।  
 455 अञ्जनं कज्जलं चैव ताम्बूलं मुखरञ्जनम् ॥ ४८ ॥  
 श्रेयं कण्ठाभरणं कण्ठसूत्रं च कण्ठिका ।  
 हारो मुक्तावली मुक्तामाला मुक्तामलापरुम् ॥ ४९ ॥  
 हारमध्यमणिः प्रोक्तो नायकस्तरलोऽपि च ।  
 केयूरमङ्गदं वाडुरक्षकं करभूषणम् ॥ ५० ॥  
 460 मुद्रिका ऊर्मिका मुद्राभिज्ञानं चाङ्गुलीपरुम् ।  
 कटकौ बलयानापी कङ्कण कभूषणम् ॥ ५१ ॥  
 रसना मेखला काञ्ची कलापश्चापि सप्तकी ।  
 कटिसूत्रं सारसनं किङ्किणी क्षुद्रघण्टिका ॥ ५२ ॥  
 मङ्गीरं पादकटकं तुलाकोटिश्च लुपुगम् ।  
 465 हसकं सिञ्जिनी चेति यावकोऽलक्तकः स्मृतः ॥ ५३ ॥

45 —a) B1 कोटीर

49 —a) B1 कण्ठाभरणे, —d) B1 om माया मुक्ता

51 —a) B1 transp मुद्रिका and ऊर्मिका, B2 om cd

52 B3 om. —a) B1 नांि,

- माला स्रग्दाम मास्य च स्नान गञ्जनमाप्लव ।  
 चाधिक्य समालम्भनमङ्गरागो विलेपनम् ॥ ५४ ॥
- अशुभ वसन वस्त्र वासुधीरमम्बरम् ।  
 पटश्च सिचयधेऽत्र खस्या तोऽञ्च स्मृत ॥ ५५ ॥
- क्षौमं दुकूल दुगुड पङ्कज पटोत्तमम् । 470  
 वेयो नेष्यमाङ्गलमुष्णीयो मूर्धनेष्टनम् ॥ ५६ ॥
- प्रासार उत्तासङ्गो वैरक्ष बृहन्निशानि च ।  
 परिधान वेष्टनश्च कञ्च तपश्चिमाञ्चलम् ॥ ५७ ॥
- वशापटस्तु शैपीन नक्तश्च वर्णतोऽपि च ।  
 पञ्चादन प्राकरण सन्धान चोत्तरीयनम् ॥ ५८ ॥ 475
- कूर्पास वञ्चुरधैर चोऽत्र फल्गुलिशक्तिश ।  
 चण्डातर चानर साटी चौटी च साटिका ॥ ५९ ॥
- अ तरीय निरसन परिधानमधोशुभम् ।  
 नीनी तद्वधन प्रथि प्राल्म्य शुम्भण समे ॥ ६० ॥
- चूर्णानि वासयोगा स्यु विष्टत पटवासक । 480  
 वशादेर्यस्तु गन्धैः संस्कारः सोऽधिशामनम् ॥ ६१ ॥
- आमोदश्च परिणगे ग मे वासो विमर्दज ।  
 इष्टगन्ध सुगन्धि स्यात्सुगन्धिर्घाणतर्पण ॥ ६२ ॥
- कुङ्कुम घुसृण कण्ठं रक्त काश्मीरजम् च ।  
 श्रीखण्डो मलयजश्च गोदीर्घ चान स्मृतम् ॥ ६३ ॥ 485
- कर्पूरो घनसारश्च चन्द्रारयो द्विमशालुका ।  
 कम्बुरिना मृगमदो मृगनाभिर्मुगाण्डक ॥ ६४ ॥

56 —c) B2 अक्षर

57 —d) B1 कण for कण B3 om 57cd

58 B3 om. 58 ab —c) B4 प्राञ्चान

59 —a) B1 कम्बुर

60 —c) B1 इ षि B3 om कृष्णि रणर —सं

63 B3 om कुकुन- —मिण्डक

कस्तूरी गन्धधूली च मदना मृगनामिजा ।

कृष्णागरुः कारुतुण्डो राजाहं त्रंशिरुगरुः ॥ ६५ ॥

490

चोचाह्वयं तस्य सत्त्वं तद्भूपो देववल्लभः ।

परिकर्माङ्गमंस्कारो मण्डनं च प्रसाधनम् ॥ ६६ ॥

दर्पणो मुकुरादर्शो व्यजन तालवृन्तकम् ।

शोभा कान्तिर्धिभूषा श्रीलक्ष्मीश्रद्धाया घृतिरुडविः ।

राढाभिषेया च लावण्यं सुपमा विश्वमोऽपि च ॥ ६७ ॥

॥ इत्यङ्गवर्गः ॥

495

मन्दिरं सदनं सन्न निलयो भवनं गृहम् ।

भोमो निवास आवासो धिष्यं धाम निकेतनम् ॥ ६८ ॥

आगारं वेश्म वसतिर्निशान्तं शरण क्षयः ।

प्रासाद आलयः सौधं हर्म्यं गेहं कुटाश्रयौ ॥ ६९ ॥

गर्भागारोऽखरको मण्डपो जनताश्रयः ।

500

भाण्डागारः कोशकोपानुह्वण्य[ण] च वगजिरे ॥ ७० ॥

अष्टमशालकं क्षीमं गृहस्योपरिभूमिका ।

चित्रशाला चतुर्द्वारं चन्द्रशाला शिरोगृहम् ॥ ७१ ॥

शय्यागृहं वासगृहं क्रीडासन्न रतास्पदम् ।

वातायनं गवाक्षश्च जालको लघुमण्डपः ॥ ७२ ॥

505

दीपो गृहमणिर्ग्रीतिः प्रदीपः कज्जलघञ्जः ।

आसनं विष्टरः पीठं भद्रासनं तद्दुत्तमम् ॥ ७३ ॥

खट्वु पर्यङ्कपत्यङ्काष्टशल्यामश्चमश्चकाः ।

शय्या च शयनं तरपं शयनीप च तृत्तिका ॥ ७४ ॥

68 —c) B1 आबामौ for आबामो.

69 —a) B1 अंगार —b) B1 क्षय.

73 —c) B2 विष्टर.

74 —d) B1 शयनीप for शयन.



उष्णीर्षं मुग्धानमुपरहं च गिद्रुवम् । चन्द्रोदयो मितान चोद्धोच कदक इत्यपि ॥ ७५ ॥	610
आलिङ्गन परिष्पङ्ग संक्षेप उग्रगूहनम् । अङ्गागली परिग्भो मेग्ग सहस्रगमी ॥ ७६ ॥	
मैथुन कामकेलिश्च सभोग सुगत रतम् । रहोतिर्निधुन ग्राम्यधर्मश्च मोहनम् ॥ ७७ ॥	
क्रीडा लीला विलासश्च केर्लिर्म रनिर्दव । रनेह प्रीतिः प्रेमरागी मैत्री सत्यं च सौहृदम् ॥ ७८ ॥	518
रञ्जा वीडाः प्रया ह्रीश्च मन्दाया स्यादपत्रया । हासस्तु हासिना हास्य हसन हसित स्मितम् ॥ ७९ ॥	
हर्ष प्रमोद आनन्दो हृदो मुमोदसंमदा । हाव सुखविराग स्याद्भावधित्तसमुद्भव ॥ ८० ॥	520
निगम सहजो ज्ञेयो विश्रमो भ्रूसमुद्भव । तुष्टि प्रीती गति स्वास्थ्य संतोषो निर्गुनिर्गुनि ॥ ८१ ॥	
शान्त सौख्य सुगत शर्म शंसा वा शुभवेदनम् । विप्रिश्च निपनिर्दिष्ट दैव भाग्य शुभ तपः ॥ ८२ ॥	
दयानुसम्भा करुणानुनोराध हृगा घृगा । प्रसन्नता प्रसत्तिश्च प्रसादोऽनुमहो दितम् ॥ ८३ ॥	525
भावो मनमभिप्रायः च्छन्द आकून आशय । हीन स्वभावः सहजो निसर्ग प्रकृती रुचि ॥ ८४ ॥	
अर्धर्ममुद्भूत चित्र विस्मयधोयनिष्पति । फौलस्य च कुतूह कौतूह च कुतूहलम् ॥ ८५ ॥	530
लोभस्तृष्णा मृष्टा त्रिप्ता कण्ठा सेदा च लज्जा । कामस्तपेऽभिलाषस्तृष्टिष्णा वाग्ना मनोरथ ॥ ८६ ॥	

75 —a) B1 उष्णी

78 —c) B1 उष्णी

80 —b) B2 मृष्टा for मृष्टा —d) B2 त्रिप्ता for त्रिप्ता

उपप्राह्यं दौकनिका प्राभृतोरायनोपदाः ।  
आज्ञा नियोग आदेशो निर्देशः शासनं वचः ॥ १२४ ॥

610 वाचा संघा प्रतिज्ञागूः संगरः मंविदाश्रवः ।  
आप्रायः संप्रदायश्च गुरुक्रमः परंपरा ॥ १२५ ॥  
प्रशंसा वर्णना श्लाघा स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः ।  
कीर्तिः श्लोको यशो वर्णः साधुवादः समाज्ञया ॥ १२६ ॥

उपक्रोशोऽवर्णवादः कौलीनं वचनीयता ।  
615 जुगुप्सा गर्हणा निन्दा निर्वादश्चापवादवत् ॥ १२७ ॥

अनादरः परिभवो रीटावज्ञा निरस्क्रिया ।  
अवहेलावगणना तक्षणं चापमानता ॥ १२८ ॥

अभिधानं नामधेयं नामाख्या आह्वयोऽभिधा ।  
गोत्रं संज्ञा च मंजुद्धिर्हृतिराकरणं हवः ॥ १२९ ॥

620 अर्दना प्रार्थना याच्त्रा दानं त्यागो विसर्जनम् ।  
विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम् ॥ १३० ॥

याचकस्तर्कुको ग्राही मार्गणोऽर्थी वनीपरुः ।  
धर्मः पुण्यं वृषः श्रेयः सुकृतं शुभकर्म च ॥ १३१ ॥

625 विद्विषयं फलमपं पापमेतः पाप्मा च पातकम् ।  
दुरितं वृजिनं पङ्कमघमंहश्च दुःकृतम् ॥ १३२ ॥

असत्यं वितथं कूटं निध्यालीकं मृयानृतम् ।  
सुप्यं तप्यमृतं सप्यन् सूतृतं च यथास्थितम् ॥ १३३ ॥

विधिः यन्याचारमार्गा वृत्तं शीलं स्वभाववत् ।  
श्रान्तिः क्षमा निनिश्चा च तपस्या नियमस्तपः ॥ १३४ ॥

124 —d) B1 शपनं for शायनं.

132 —c) B2 वृजनं for वृजिनं.

134 —b) B1 शुभा for स्वभावं.

- उपरासधोपवस्त व्रत नियमपात्रम् । 630  
 सनाधिर्धारणा ध्यान प्रणिधान च चिन्तनम् ॥ १३५ ॥  
 बुद्धिर्मेधा मति प्रज्ञा धिपणा धीश्च शेमुषी ।  
 मनीषा प्रतिभा ज्ञप्ति प्रेक्षा पण्डा च चेतना ॥ १३६ ॥  
 चि सविज्ञानसन्निर्भगचो गेपलन्धय ।  
 तत्त्व रहस्य सारश्च परमार्थश्च निश्चय ॥ १३७ ॥ 635  
 सिद्धान्ताग्रमसद्धान्तकृता प्रोक्तय श्रुतम् ।  
 समय प्रवचन सूत्र ग्रन्थ शास्त्र च पुस्तकम् ॥ १३८ ॥  
 रसाध्याय पठन पाठोऽधीनिरध्यायन पठ ।  
 जाप्य जापो जपो मन्त्रे मानसे वचनेऽपि च ॥ १३९ ॥  
 शब्दो नादो ध्वनिर्ध्वान निर्घोषो निष्वन स्वन । 640  
 निर्द्वाद्वि आरधो रावो तिनारो निनदोऽपि च ॥ १४० ॥  
 प्रतिनादः प्रतिशब्द प्रतिध्वान प्रनिश्चुति ।  
 निदान कारण हेतु कृत्यमर्थ प्रयोजनम् ॥ १४१ ॥  
 देवज्ञो गणको ज्ञानी मौहूर्तिको निमित्तवित् ।  
 सायसरो ज्योतिषिको ज्योतिर्वैप्रश्नविद्य स ॥ १४२ ॥ 645  
 चिकित्सिको भिषग्वैद्योऽगदनारथ रोगहृत् ।  
 चिकित्सितज्ञो दोषज्ञ आयुर्वेदस्तु वैद्यर ॥ १४३ ॥  
 ऋग्वेदश्च यजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वण ।  
 शिक्षा ऋगो व्याकरण छन्दोज्योतिर्निरुक्तय ॥ १४४ ॥  
 पडङ्गा वेदाश्चत्वारो मीमांसात्रिकिनी तथा । 650  
 धर्मशास्त्र पुगण च त्रिषा एताश्चतुर्दश ॥ १४५ ॥

137 —a) B2 वि for विद्

141 —b) B2 प्रणिधान for प्रणिधान -d) B2 अर्थ for अर्थ

142 —b) B2 बुद्धिर्मेधा -c) B2 मनीषा for मनीषा

143 —d) B2 वैद्य for वैद्य

144 —c) All mss त्रिषा for त्रिषा

145 —b) All mss भाष्यविकी for भाष्यविकी

- देवालयो देवगृहं चैत्यमायतनं मठः ।  
 विम्बं मूर्तिः प्रनिमार्चा महः पर्व महोत्सवः ॥ १४६ ॥  
 जैना मीमांसका बौद्धाः शैवा वैशेषिका अपि ।  
 655 नैयायिकाश्च मुख्यानि दर्शनानीह सन्ति पट् ॥ १४७ ॥  
 भोक्षोऽपवर्गो निर्वाणं मुक्तिर्निःश्रेयसं शिवः ।  
 महोदयोऽमृतं सिद्धिः कैवल्यमपुनर्भवः ॥ १४८ ॥  
 कुशलं मङ्गलं भद्रं कल्याणं भावुकं शुभम् ।  
 क्षेमं भव्यं शिवं श्रेयः शस्तं स्वःश्रेयसं स्मृतम् ॥ १४९ ॥  
 660 स्वागतं खरितमेदं च स्वास्थ्यं धार्तगनामयम् ।  
 सदा ददातु सानन्दं चिदानन्दो जगत्प्रभुः ॥ १५० ॥  
 ॥ इति पण्डितवर्गः ॥

इति भीहर्षकीर्त्युपाख्यायविरचितायां शारदीयाभिधायी  
 लघुनाममालायां द्वितीयः काण्डः ॥ २ ॥

- ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वर्णचतुष्टयम् ।  
 ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुरिच्छाश्रमाः ॥ १ ॥  
 ब्रह्मचारी तु वर्णा स्याद्ब्रह्मस्यः स्नातको गृही ।  
 665 वैखानसो वानप्रस्थो भिक्षुः सांन्यासिको यतिः ॥ २ ॥  
 परिव्राट् परिरक्षी च परित्राजकनापसौ ।  
 पाराशरी मस्करी च पापण्डाः सर्वलिङ्गिनः ॥ ३ ॥  
 द्विजातित्रोक्षणो विप्रो भूदेवो वाडवो द्विजः ।  
 अप्रजन्मा द्विजन्मा च पट्कर्मा मुखसंभवः ॥ ४ ॥

149 —b) B1.2 भावकं for भावुकं.

150 After st. 150 B4 adds:—

श्रंगलम्भोदयमंगीपत्रविष्णवावैः सुसंश्रुतैः ।

वर्गैः शिवाकाण्डोऽयं विदपे हर्षकीर्त्या ॥

2 —d) B2 संन्यासिको यती for मन्त्यासिको रति-

3 —d) B2 पापण्डो for पापण्डाः.

यज्ञो याग ऋतु सत्र सप्ततन्तुमखोऽश्वर । 670  
 होमो होत्र वषट्कारो हवन देवतर्पणम् ॥ ५ ॥  
 अजिन चम कृत्तिस्त्वक्वीर वस्त्र च वल्कलम् ।  
 त्रितर्दिर्देदिना वेदी गुहा स्या कन्दरा दरी ॥ ६ ॥  
 ॥ इति ब्रह्मरर्ग ॥

शत्रियो बाहुज क्षत्र राजन्थो राजवशज ।  
 राजा राट् पार्ष्णिप क्षमाभ्र महीक्षिन्नृपतिर्नृप ॥ ७ ॥ 675  
 प्रजापति क्षितिपतिर्नरदेवो नराधिप ।  
 भूप क्षितीशो भूपाल क्षोणीनाथो नरेश्वर ॥ ८ ॥  
 नरेन्द्रो भूपतिर्भुमुक् सन्नाट् तु शास्ति यो नृप ।  
 चक्रवर्ती सार्वभौम सर्वदेशाधिपो द्वि य ॥ ९ ॥  
 नाथ प्रभु पति स्वामी विभु परिवृद्धोऽधिप । 680  
 ईश्वरो नामको नेता भर्तृद्र इन ईशिता ॥ १० ॥  
 राजचिह्न त्वातपत्र छत्रमातपवारणम् ।  
 चामर बालव्यजन सिंहासन नृपासनम् ॥ ११ ॥  
 सभा समज्या परिषत्सच्च समिति सद ।  
 गोष्ठ्यास्थान्नी समाजश्च पर्यत्सम्या समाजिका ॥ १२ ॥ 685  
 अन्त पुर च शुद्धान्तोऽयथोद्यो नृप [तिः] क्षिय ।  
 महिधी पट्टराज्ञी स्यात्सौमिद्रलक्ष कक्षुकी ॥ १३ ॥  
 परिवार परिकर परिवर्द्ध परिच्छदः ।  
 प्रतिहारो द्वारपालो दौगारिकश्च वेत्रभृत् ॥ १४ ॥

5 —b) B2 अन्तर

10 —d) B1 अर्ना च for भर्तृद्र B2 ईशिता for ईशिता

11 —d) B2 सिंहासन तु

13 —a) B2 शुद्धान्त

14 —a) B2 परिवारे

- 690 अवसर्पः स्पशम्भारो हेरिकः प्रण(णि)त्रिश्वरः ।  
सदेशहारको दूतः पान्यस्तु पयिकोऽन्ग ॥ १५ ॥  
सेनक किंरुो भृयोऽनुजीव्यनुचरोऽनुग ।  
दास प्रेक्षो भूतकश्च चेट कर्मरुगोऽपि च ॥ १६ ॥  
पत्ति पदानिः पदग पुरोगामी पदातिक्र ।
- 695 भटा योगश्च योद्धारः सैन्याश्च सैनिका अपि ॥ १७ ॥  
शूरो वीरश्चारभटो विक्रा त सुभटो बली ।  
कातरो भीरुो भीरु वादिशीनो भयद्रुत ॥ १८ ॥  
परारुम पोरुप च ब्रह्म शौर्यं च विक्रमम् ।  
शोच गणस्त्रः स्थाम शक्तिर्यै तथोर्जित् ॥ १९ ॥
- 700 आरुरो रपु जुगुम्पक्षो द्विट् द्विपत्पर ।  
प्रत्यर्थी प्रत्यनस्थाता सपत्न शान्तोऽहित ॥ २० ॥  
परिपन्थी प्रत्यनीको दस्युदुर्हृदरातथ ।  
अनीक कटक सैन्य चक्र दण्डो ग्ल चमू ॥ २१ ॥  
बाहिनी घञ्जिनी सेना घृतना च वरुधिनी ।
- 705 अनीकिन्यश्रोहिणी च सन्धानार पताकिनी ।  
हस्त्यम्बरपद्भिश्च चतुरङ्ग बल स्मृतम् ॥ २२ ॥  
स्यात्सेनाशोहिणी नाम खागाष्टद्वित्रै ( २१८७० ) गजैः ।  
र्यैश्चैभ्यो हयैस्त्रिभै ( ६५६१० ) पञ्चगैश्च ( १०९३५० ) पदातिभि ॥ २३ ॥  
आधोरणो हस्तिपत्रो माहामात्रो निपायपि ।
- 710 यन्ता सादी त्यम्भारो नियन्ता सूतसारथी ॥ २४ ॥  
संनाह वरुच दशस्तनुन वर्म कङ्कट ।  
सारसन त्रिभिर्नाङ्ग वारणाणस्तु कञ्चुक ॥ २५ ॥

17 —c) B2 मया -d) B2 देवता for मेनिका

21 —d) B3 तन्मण्डा

25 —b) B2 पटक for कङ्कट -b) B2 कञ्चुक

- शिरस्त्राण तु शीपेण्य जालिका त्वङ्गरक्षिका ।  
 शस्त्रमायुधमख च हेति प्रहरण स्मृतम् ॥ २६ ॥
- धनु कोदण्डमिध्वासथापो धन्व शरासनम् । 715  
 कार्मुक जीवा प्रत्यञ्चा ज्यामानीसिञ्जिनीगुणा ॥ २७ ॥  
 निपङ्गस्त्वणत्पीराबुपासङ्गस्तथेषुधि ।  
 इषुर्वाण शर पत्री काण्डो विशिख आशुग ॥ २८ ॥
- पृषत्क सायको रोपः कङ्कपत्र शिलीमुख ।  
 कल्म्बाजिह्वगखगा नाराचश्च क्षुरप्रवत् ॥ २९ ॥ 720
- खेटक पलक चर्म शस्त्रिका तु कृपाणिका ।  
 असिधेनुसिपुत्री छुरिका क्षुरिका च सा ॥ ३० ॥
- करवालासिनिर्लिशकृपाणतरवारय ।  
 मण्डलाप्रश्नद्रहास खङ्गकौक्षेपरिष्टय ॥ ३१ ॥
- कुन्त प्रासस्तथा भङ्गो द्रुवणो मुद्गरो धन । 725  
 कुठार परशु पर्शु सुधितिक्ष परस्रध ॥ ३२ ॥
- सप्राम समर युद्ध प्रधन सयुग रणम् ।  
 जन्यमायोधन सख्यमाहव सपरायकम् ॥ ३३ ॥
- संय समितिराजिर्युध् इद्रमास्कन्दन मृधम् ।  
 राटि समीक सस्फोटो विप्रह कल्ह कलि ॥ ३४ ॥ 730
- धैतालिका बोधरुवा बन्दिन स्तुतिपाठका ।  
 देशो जनपदो राष्ट्र नीवृद्धिपयमण्डले ॥ ३५ ॥
- पू पुर नगर द्रङ्गो निवेशो नगरी पुरी ।  
 स्थानीय निगमो ग्राम पत्तन पुटभेदनम् ॥ ३६ ॥
- वप्र शाल कोट्टुर्गी प्राकारो वरणश्चय । 735  
 प्रनेली विशिखा रघ्या पुरद्वार च गोपुरम् ॥ ३७ ॥

तुरुष्का यवना म्लेच्छाः पारसीकाः शकास्तथा ।  
प्रथाना मुद्गलाश्चैव स साहिस्तेषु योऽविपः ॥ ३८ ॥

सीतापतिर्दाशरथिः काकुत्स्थो भरताग्रजः ।

740 रघुनाथो रामचन्द्रः स्यात्सौमित्रिस्तु लक्ष्मणः ॥ ३९ ॥

वैदेही मैथिली सीता जानकी पृथिवीसुता ।

पौलस्त्यो रानणो रक्षो लङ्केशो दशकन्धरः ॥ ४० ॥

धर्मात्मजोऽजातशत्रुः शल्यारिश्च युधिष्ठिरः ।

भीमोऽरिर्वेककीचक्रयोर्वीयुपुत्रो वृकोदरः ॥ ४१ ॥

745 धनजयोऽर्जुनः पार्थ इन्द्रपुत्रः कपिध्वजः ।

श्वेताश्वः फाल्गुनो जिष्णुः सव्यसाची च कर्णजित् ॥ ४२ ॥

प(पा)ञ्चाली द्रौपदी कृष्णा याज्ञसेनी च वेदिजा ।

हनुमानञ्जनीपुत्रो मारुतिर्जक्रकङ्कटः ॥ ४३ ॥

॥ इति राजवर्गः ॥

वैदेहिकश्चापणिमो नैगमो वाणिजो वणिक् ।

760 पण्याजीवः सार्धनाह. क्रयविक्रयिकः क्रथी ॥ ४४ ॥

आपणो विपणिर्हृष्टस्तन्मार्गो स्याच्चतुष्पथः ।

धान्यं शस्यं च तद्भेदा मुद्गगोधूमतन्दुलाः ॥ ४५ ॥

अमत्रं भाजनं पात्र पण्यं भाण्डं क्रयाणकम् ।

वर्तेनं जीवनं वृत्तिराजीरो जीनिकापि च ॥ ४६ ॥

38 B3 missing cd

39 B3 missing -d) B2 मौमित्र for मौमित्रि

40 B3 missing

41 B3 missing

42 B3 missing

43 B3 missing

44 B3 missing. -d) B2 निरुपक

45 B3 missing -b) B2 मार्गो for मार्गो B4 गुरुपथ

46 B3 missing



- मूलद्रव्यं परिपणो नीश्री लाभोऽधिक फलम् ।  
सत्यापनं सत्यंकारो मूल्यवस्त्वर्धवक्रवाः ॥ ४७ ॥ 755
- संपत्तिः श्रीर्विभूतिश्च लक्ष्मीसंपत्समृद्धयः ।  
श्रीमान्समृद्धो लक्ष्मीवानिभ्य आढ्यो धनेश्वरः ॥ ४८ ॥
- आपद्विप[द्विप]त्तिश्च दारिद्रं निःस्वनिर्धनौ ।  
कदर्यः कृपणो लोभी बद्धमुष्टिर्मितंपचः ॥ ४९ ॥ 760
- गोकुलं तु ब्रजो घोषो गोष्ठं गोपास्तु बल्लवाः ।  
दुग्धं पयोऽमृतं क्षीरं गोरसः क्षीरजं दधि ॥ ५० ॥
- घृतमाग्यं हविः सर्पिः नवनीतं तु स्रक्षणम् ।  
उदञ्चिन्मथितं तक्रमारनालं तु काञ्जिकम् ॥ ५१ ॥
- इविध्यान्नं तु क्षैरेवी परमान्नं च पायसम् ।  
घृतपकं तु पक्वान्नं घृतदूरादिमेदवत् ॥ ५२ ॥ 765
- सूपः स्यात्प्रहित सूदोऽन्धः क्रूरं भक्तमोदनम् ।  
व्यञ्जनं तेमनं शाकः पूपः पूपा च पोलिका ॥ ५३ ॥
- भोजनं जेमनाहासौ भक्षणं खादनाशने ।  
पिपासा तृद् तृपोदन्या बुगुञ्जा क्षुक्षुषा रुचिः ॥ ५४ ॥ 770
- खण्डस्तु मधुधूलिः स्यान्मत्स्यण्डी फाणितं वरा ।  
सितोपला शर्करा च सिताथेक्षुरसो गुडः ॥ ५५ ॥

47 B3 missing

48 B3 missing -a) B2 सत्य for सपति -

49 B3 missing -a) B2 दरिद्र for दारिद्र

50 B4 missing घोषो दधि

51 B4 missing

52 B4 missing

53 B4 missing

54 B4 missing

55 B4 missing After st 55 B3 adds पूजा लोका प्रकृतवी गन्ता  
पौराश्च नगरा ।

क्षेत्री जीवश्च कृपिकृत्कर्पकश्च कृपीपलः ।

क्षेत्रं वप्रश्च केदारो हलः सीरश्च लाङ्गलम् ॥ ५६ ॥

775

कुम्भकारः कुलालश्च कुम्भस्तु कलशो घटः ।

स्वर्णकारः कलादश्च मालाकारस्तु मालिकः ॥ ५७ ॥

क्षुरमर्दी दिवाकीर्तिर्नापितोऽन्तानसाथ्यपि ।

मुण्डनं भद्राकरणं वपनं परिवापनम् ॥ ५८ ॥

वर्धकिः स्वपतिस्तक्षा रथकारश्च काष्ठतक् ।

780

व्योहारो लोहकारश्च शस्त्रमार्जोऽसिधावकः ॥ ५९ ॥

रङ्गाजीवश्चित्रकारस्तन्तु[स्तुन]नायस्तु सौचिकः ।

निर्णेजरुः स्याद्रजकरतन्तुवायः कुम्भिकः ॥ ६० ॥

चाक्रिकस्तैलिकस्तैली शिल्पिकारूककारवः ।

कल्पपालः सुराजीनी शौण्डिको मण्डहारकः ॥ ६१ ॥

785

मदिरा वारुणी मघ सुरा कादम्बरी मधु ।

शुण्डा दालासनः सीधुर्गाण्वीकं कापिशायनम् ॥ ६२ ॥

आमिषं पिशिनं मासं पलं क्रव्यं च जङ्गलम् ।

रुधिरं शोणितं रक्तमसं क्षतजमप्यमृक् ॥ ६३ ॥

घृतकारोऽश्वदेवी चाक्षधूर्तः कित्तवश्च सः ।

790

घृतं दुरोदरं चाक्षवती पणश्च केतवम् ॥ ६४ ॥

पाशका देवना भक्षाः सारयोऽष्टपदं फलम् ।

स्तेनः पाटच्चगे दस्युश्चैरस्तस्करमोचकौ ॥ ६५ ॥

56 B4 missing

57 B4 missing

58 B4 missing

59 B4 missing: -a) B2 नधो for नहा

60 B4 missing

61 B4 missing

62 B4 missing. B2 missing 62 a

63 B4 missing -b) B3 नग्न for नह

64 B4 missing B2 om चित्तवश्च न । घृतदो -d) B3 पण for पण,

65 B4 missing

- वैवर्तो धीवरो दासो वागुरितस्तु जालिकः ।  
 लब्धतो मृगयुर्व्याधो मृगयाखेटसौ समौ ॥ ६६ ॥
- जीवान्तरुः शाकुनिजो वैवसिरुस्तु सौनिकः । 795  
 पादूकचर्मकारश्चोपानत्पादूश्च पादुका ॥ ६७ ॥
- चाण्डालस्तु दिवाकीर्तिर्निपादश्च जनगमः ।  
 मातङ्ग, श्वपचोऽस्पृश्योऽन्तेवासी पृखुक्कसौ ॥ ६८ ॥
- इतरः प्राकृतो नीचः पागरश्च पृथग्जनः ।  
 पुलिन्दः शम्बरो मिथुः क्षिप्रानश्च वनेचरः ॥ ६९ ॥ 800
- ॥ इति शूद्रवर्गः ॥

- उत्पत्तिर्जन्म जननमुत्पादो जनिरुद्भवः ।  
 जीवित चासन. प्राणाः श्वासश्च श्वासिन मरुत् ॥ ७० ॥
- युवा वयःस्थस्तरुणस्तारुण्य यौवन वयः ।  
 जरीयान्स्वविरो वृद्धो वार्धक्य विलसा जरा ॥ ७१ ॥
- गुणधानुत्तमः श्रेष्ठो योग्यः पूज्यो महान्गुणी । 805  
 श्रेयाञ्छिष्टः सदाचारः साधुसम्पार्षसज्जनाः ॥ ७२ ॥
- विह्वयातः प्रथितो ज्ञानः प्रनीतो विश्रुतोऽपि च ।  
 दातोदारो वदान्यश्च त्राता गोता च रक्षकः ॥ ७३ ॥
- कर्णेजपश्च पिशुनो द्विजिह्वो दुर्जनः खलः ।  
 पापो धूर्त शठः क्रूरः क्षुद्रो नीचोऽधमोऽनृजुः ॥ ७४ ॥ 810

66 B4 missing -b) B2 जालिका for जालिक

67 B4 missing B2 missing a -a) B1 3 जीवानिक for जीवान्तर

-b) B शौनिक for सौनिक

68 B4 missing -a) B2 चण्डाल -c) B2 शम्बर for शम्बर

69 B4 missing -c) B2 मरुत for शम्बर

70 B4 missing

71 B4 missing

72 B4 missing -c) B1 श्रेष्ठ for शिष्ट

73 B4 missing -a) B2 वाने

74 B4 missing -c) B2 transp पूर्व and शठ

- दृप्तोऽभिमानी गर्विष्ठो गर्विणः स्तब्ध उन्नतः ।  
 कलङ्को लाञ्छन लक्ष्म चिह्नमङ्गश्च लक्षणम् ॥ ७५ ॥
- वैरं त्रिरोधो विद्वेषः शृङ्खलो निगडोऽन्दुकः ।  
 विमोऽन्तरायः प्रत्यूहो रोगातङ्कगदामयाः ॥ ७६ ॥
- 815 पापाणः प्रस्तरो ग्रावा दृपदम्बोपलः शिला ।  
 रेणुधूली रजः पाशुः पङ्कध्विखिल्लर्दमौ ॥ ७७ ॥  
 व्यवसायोद्यमोद्योगाभियोगोऽसाहविक्रमाः ।  
 खुरली तु श्रमोऽम्पासः संवाहन तु मर्दनम् ॥ ७८ ॥  
 मिष्टं स्वादुश्च मधुरः कपायस्तुरो रसः ।
- 820 पाचनोऽम्लो दन्तशठः कटुकः कटुरूपणः ॥ ७९ ॥  
 स्याल्लवणः सर्वरसः क्षारस्तिकं तु तीक्ष्णवत् ।  
 रक्तः शोणोऽरुणस्ताम्रो लोहितः पाटलोऽपि च ॥ ८० ॥  
 श्वेतः शुक्रः सितः शुभ्रो बलक्षो धमलः शुचिः ।  
 गौरोऽनदातो विशदः पाण्डुः पाण्डुर उम्बलः ॥ ८१ ॥
- 825 पीतो गौरो हरिद्रामः पाटाशो हरितो हरित् ।  
 कालः श्यामः सितिः कृष्णः श्यामलो मेचमोऽसितः ॥ ८२ ॥  
 नीलो रामोऽन्ननाभश्च कर्तुराद्यास्तु मिथिनाः ।  
 युगं द्वयं युगं द्वंद्वमुभयं युगलं द्वयी ॥ ८३ ॥  
 यमलं मिथुनं द्वैतं त्रयं च त्रितयं त्रयी ।
- 830 राम्हो निग्रहो व्यूहो वृन्दं चक्र कदम्बकम् ॥ ८४ ॥

75 B4 missing -a) B2 दृष्टो for दृप्तो -c) B2 लक्ष्म for लक्ष्म

76 B4 missing

77 B4 missing. -a) B2 प्रस्तारो for प्रस्तरो

78 B4 missing

79 B4 missing

80 B4 missing -c) B2 रक्त

81 B4 missing.

82 B4 missing -b) B2 दलीनी

83 B4 missing

84 B4 missing

- ओषः संघो ब्रजो ब्रातो निकरः प्रकरश्चयः ।  
 संदोहः मंहतिः स्तोमो वारः समुदयो गणः ॥ ८५ ॥  
 समुदायः समवायो निकुरम्भं च संचयः ।  
 जालः कलापः पटलः संवातः पूगमण्डलौ ॥ ८६ ॥  
 राशिः पुञ्जोःकरा कूट जान यूयं भरः कुम्भ । 835  
 ग्रामो वर्गः समाहागे निज्ञायो निचयोऽपि च ॥ ८७ ॥  
 राजिर्मलापलिः श्रेणिस्ततिः पडिश्च घोरिणी ।  
 सभं समस्तं सरुलं समग्रं निखिलाखिले ॥ ८८ ॥  
 निचं कृत्स्नं तपाशेषं खण्डेऽर्धं शकलं दलम् ।  
 स्तोत्रं तुच्छं दम्भमन्वं मात्रा लेशः कणो लयः ॥ ८९ ॥ 840  
 अणु सूक्ष्म लघु श्लक्ष्ण क्षामः क्षीणः कृशस्तनु ।  
 बहिष्ठं प्रचुर प्राज्य पुष्कल बहुल बहु ॥ ९० ॥  
 अदर्भं भूरि भूयिष्ठं भूयश्च प्रबलोऽधिकः ।  
 खर्षं हर्षं वामनं च प्रलम्भं दीर्घमापतम् ॥ ९१ ॥  
 उच्च प्राशस्त्यं तुङ्गं निम्न नीचं न्यगानतम् । 845  
 विपरं फुहर छिद्र रम्भ गतावटौ विलम् ॥ ९२ ॥  
 विचान्तं तन्तर मध्यमन्तरालं च मध्यमम् ।  
 अरालं कुटिलं वक्रं सरलं प्रगुणो ऋजु ॥ ९३ ॥  
 बृहद्विशालं विस्तीर्णं महच्च विपुलं पृथु ।  
 कठोरः कटिनो रूक्षो निष्ठुरः कर्कशः खरः ॥ ९४ ॥ 850

85 B4 missing -d) B2 वार, B3 वाप B1 ८ गुण for गण

86 B4 missing

87 B4 missing

88 B4 missing

89 B4 missing -c) B3 transp स्तोत्र and तुच्छ -d) B2 लेश

90 B1 4 missing

91 B1 4 missing

92 B1 4 missing

93 B1 4 missing -a) B3 नन्वे

94 B1 4 missing -After 91 ab. B3 adds रत्नं गरिष्ठं विपथम् न्यु  
युत् रक्षन् ।

तीजोप्रो दारुण घोरं दृष्टमुदाममुत्कटम् ।  
 सुकुमारः सुवस्पर्शः कोमलो मृदुलो मृदु ॥ ९५ ॥  
 सुन्दर रुचिर रुच्य ×××× मनोहरम् ।  
 मनोज्ञ मञ्जुल मञ्जु पेशल वल्गु बन्धुरम् ॥ ९६ ॥

855

कान्त रम्यं चारु हारि कमनीयं मनोरमम् ।  
 हृद्य काम्य रमणीयं प्रशस्तं साधु शोभनम् ॥ ९७ ॥  
 मुख्यः प्रधानः प्रसरो नयोऽप्रयोऽप्रेतरोऽप्रणीः ।  
 प्रष्टृष्टश्च परार्थश्च पुंगवः सत्तम परः ॥ ९८ ॥

860

पारस्व्यः प्रथमः पूर्वे आदिताद्यादिमोऽग्निगः ।  
 जघन्यः पश्चिमोऽन्त्यश्च पाश्चात्पश्चमोऽन्तिगः ॥ ९९ ॥  
 पून पवित्र मेघ्यं च मलिन च मलीमसम् ।  
 निर्गिक्त क्षाब्धित धीतमुज्ज्वलं निर्मलं शुचि ॥ १०० ॥  
 समान सदृश ×× सवदाशः संनिभः समः ।  
 अनुहारभोपमानं समरुक्षा तुलोपमा ॥ १०१ ॥

865

समीप निरुद्ध पार्श्वं समयाभ्यर्णमन्तिकम् ।  
 उपरुष्ठ सनिधानो गन्ते सविधसनिधी ॥ १०२ ॥  
 निप्रकृष्ट पर दूरं ध्रुवं निल्य च शाश्वतम् ।  
 चञ्चलं चपलं व्येढं तरल चटुलं चलम् ॥ १०३ ॥  
 वेष्टिन प्रेक्षित धूतमान्दोलिन च वीजितम् ।

870

दोला प्रेङ्खोलन प्रेङ्खा हिन्दोलक्षापदिञ्चितम् (२) ॥ १०४ ॥

95 B1 4 missing

96 B1 4 missing

97 B1 4 missing

98 B1.4 missing

99 B1 4 missing -b) B2 आद्य for आदि

100 B1 4 missing

101 B1 4 missing B3 om 101

102 B1 4 missing -a) B2 उपचर्च for पार्श्व

103 B1 4 missing

104 B1 4 missing

- सहन मेदुर सान्द्र नीरन्ध्र निविड दृढम् ।  
 प्रकट तु स्फुट सरथ प्रकाश व्यक्तमुख्यम् ॥ १०५ ॥  
 खरित स रर शीघ्र तृण क्षिप्र द्रुत लघु ।  
 जगो वेगो रयो रहस्तरो मन्दे तु मथर ॥ १०६ ॥  
 अययं निर्भर तीव्र गाढ वाढ दृढ भृशम् । 875  
 पूरित भरित पूर्ण शून्यरिक्ताखिलोद्गता ॥ १०७ ॥  
 सकुलानुलमकीर्णाकीर्णतवाधसकृदा ।  
 परीन निचित व्याप्त दिग्बलिस्तक्तगुण्डिता ॥ १०८ ॥  
 सपृक्तः खचितो मिश्र सलिल करम्बित ।  
 आश्रित सहितो युक्त समवेत समन्वित ॥ १०९ ॥ 880  
 सिद्धे निर्वृत्तनिष्पन्नौ निर्मितो विहित कृत ।  
 लब्धनासादित प्राप्त व्यक्तमुत्सृष्टमुद्गितम् ॥ ११० ॥  
 उरीकृत प्रतिज्ञातमङ्गीकृत प्रतिश्रुतम् ।  
 प्रस्थापित प्रतिसृष्ट प्रहित प्रेषितोऽपि च ॥ १११ ॥  
 रुद्ध तिरोहित हन द्यदित पिहिताधृते । 885  
 उपादितमुन्मूलितमुखात भग्नमुद्धृतम् ॥ ११२ ॥  
 उक्त जल्पितमाख्यात भाषित कथितोदिते ।  
 प्रतिकूल विनोम च प्रतीप वामभेव च ॥ ११३ ॥  
 ज्ञात मुद्गमवसित विदितावगते अपि ।  
 •यस्यासस्तु विपर्यासो वैपरीय विपर्यय ॥ ११४ ॥ 890

105 B1 4 missing

106 B1 4 missing

107 B1 4 missing -c) B3 पूर्ण for पूरित -d) B3 om रिक्ता

108 B1 4 missing

109 B1 4 missing

110 B4 missing B1 missing 110 ab

111 B4 missing

112 B4 missing a) B2 रुद्ध

113 B4 missing B3 om 113 cd

114 B4 missing After st 114 B3 adds प्रतिश्रुत विनोम च प्रतीप वामभेव च ।

- प्रत्यादिष्ट प्रतिज्ञित निरस्त नुनपीरितम् ।  
 ध्र(त्)स्तं भ्रष्टं च प्रहस्यं पतित गलितं च्युतम् ॥ ११५ ॥  
 अन्वेपितं गवेपितगन्धिष्टं गार्गित तथा ।  
 छेदितं खण्डितं कृत्तं छिन्नं क्षुन्नं छिन दिनम् ॥ ११६ ॥  
 895 पाटितं दारितं भिन्नं विद्धे टिद्धितवेधितो ।  
 वद्धो निगडितो नद्धः कीलितो यन्त्रितः सिनः ॥ ११७ ॥  
 दग्धः प्रग्वलितः प्लुटो हेतिर्गालाशिर्त्वारिचियः ।  
 अङ्गारेङ्गालौ रक्षा तु भसितं भस्म भूतितम् ॥ ११८ ॥  
 आद्रं तु स्तिमितं छिन्नं शुष्कमाश्चाननीरसौ ।  
 900 निक्षिप्तं तेजितं तीक्ष्णं कुण्डितं वेगवर्जितम् ॥ ११९ ॥  
 वर्तुलं मण्डलं घृत्तं निस्तलं बलयाकृतिः ।  
 असं कोटिरणिः कोणं ग्रान्तं पर्यन्तमन्तम् ॥ १२० ॥  
 सदेहः संसयो रेको निक्षयो निर्णयोऽपि च ।  
 तथा विश्रम्भविश्वासप्रतीतिप्रत्ययाः सनाः ॥ १२१ ॥  
 905 आर्भक्याडम्बराटोपाः व्यापप्रसरम्डनाः ।  
 आधारः स्यादवष्टम्भः स्यादालम्बनमाश्रयः ॥ १२२ ॥  
 स्वरूप लक्षणं भावो रूपधर्मागरीनयः ।  
 सृष्टिः सर्गश्च निर्माणं करणं घटन कृतिः ॥ १२३ ॥  
 जम्बूः पूक्षः शाल्मलिश्च कुशः क्रोञ्चाभिधस्तथा ।  
 910 शाकद्वीपः पुष्कराक्षयः सप्त द्वीपा इमे स्मृताः ॥ १२४ ॥  
 लक्षणक्षीरदध्याज्यसुरेक्षुस्त्रादुसागराः ।  
 भारताक्षयं किंपुरुष हरिवर्षमिलावृत्तम् ।  
 रम्यकाक्षय पञ्चमक खण्ड पष्ट हिरण्यम् ॥ १२५ ॥

115 B4 missing

116 B4 missing अन्वेपित गवेपित

119 —b) B2 नीरस्ते



कुरुखण्ड च भद्राख्य केतुनालनिवि स्मृतम् ।  
 एतानि नव खण्डानि जम्बूद्वीपविभागत ॥ १२६ ॥ 915  
 वीणानारणवाजिसिंहहरिणानङ्गप्रनालाचला  
 चन्द्रध्यानचञ्चरीकजलमुक्तापासिपञ्च हय ।  
 हस कोलिठकेविरीरगरुह स्वर्णानिलार्कस्तपो  
 गुप्ता शीफलपद्मदीपवटीना सारङ्गशब्दा इमे ॥ १२७ ॥  
 श्रीसिंहे च वपौ शुके हरिहरे च मीनरे भार्गवे 920  
 चन्द्रेमे कनिराजवाजिपहने वशे यमे परदे ।  
 नागे वर्णसमीरणेऽपि दहने स्वदे च सक्र दने  
 मार्गण्डेऽशनिपन्नोच्चरदिने खड्गहरि कीर्तित ॥ १२८ ॥  
 अर्धमर्कटमण्डूभिष्णुमासभवायस ।  
 तुङ्गसिंहशीनांशुयमाश्च हरयो दश ॥ १२९ ॥ 925  
 दिग्दृष्टिदीधितिसर्गप्रज्ञाम्बाणवारिपु ।  
 भूमौ पशौ च गो ब्दो विद्वद्भिर्दशधा मत ॥ १३० ॥  
 ॥ इति श्रीसकीर्णपर्व ॥

महाक्षत्रियविद्वद्दसकीर्णारथैर्मनोरथै ।  
 वर्गैरतुनीय मण्डोऽय पूर्णितो हर्षकीर्तिना ॥ १३१ ॥  
 श्रीमन्नागपुरीयमाह्वयतपागञ्जधिपा सज्जश 930  
 सुरधीप्रभुचन्द्रकीर्तिगुरवस्तेषा पद नुप्रदात् ।  
 भूपाभिव्रजनोचित्वा लघुतरा श्रीराममालामिमा  
 चक्र पाठम्हर्षकीर्तिदिग्द्योताम्ब्रामर्णा ॥ १३२ ॥  
 भूद्वीपवर्णसरिन्दिनम समुद्र-  
 पातालद्विभङ्गावायुवनानि यावत् । 935  
 यावमुद विरतो मुनि पुण्यदत्तो  
 तावस्थित विजयता वन नाममाळा ॥ १३३ ॥  
 ॥ इति धीशारदीयाख्यराममाता सप्तपर्णा ॥

# GLOSSARY

[Figures indicate line numbers]

अ

- अक्ष *m* shoulder 427  
 अक्षु *m* ray 141  
 अक्षुक *n* garment 468  
 अक्षुमत् *m* the individual soul 400  
 अक्षुमालिन् *m* the sun 128  
 अहम् *n* sin 625  
 अदि *m* foot 445  
 अद्रि *m* tree 282  
 अद्रुगार *m* sea ocean 224  
 अक्ष *p* *p* smeared 878  
 अक्ष *n* an organ of sense 399  
 अक्ष *m* die 791  
 अक्षदेविन् *m* gambler 789  
 अक्षपते *m* gambler 789  
 अक्षमा *f* envy jealousy 536  
 अक्षवती *f* gambling 790  
 अक्षान्ति *f* envy, jealousy 536  
 अक्षि *n* the eye 419  
 अक्षौहिणी *f* army 705  
 अखिल *a* all whole 838  
 अगर्दकार *m* physician 646  
 अगम *m* tree 283  
 अगुरु *m* fragrant substance 489  
 अगस्त *m* tree 283  
 अगस्त्य *m* The sage Agastya 152  
 अयोचर *m* Brahman 9  
 अग्नि *m* fire 331  
 अग्निभू *m* N of *h*artīkeys 67  
 अग्रजन्मन् *m* brahman 669  
 अग्रणिन् *a* chief 857  
 अग्रिम *a* first 859  
 अग्रोत्तर *a* foremost 857  
 अग्रग *a* chief 857  
 अघ *n* sin 625  
 अङ्ग *m* the lap 437  
 अङ्ग *m* mark 813  
 अङ्गुली *f* embrace 512  
 अङ्ग *m* body 397  
 अङ्ग *m* son 381  
 अङ्गव्य(ण) *n* court yard 500  
 अङ्गुद *n* armlet 459  
 अङ्गना *f* woman 364  
 अङ्गरक्षिका *f* armour 713  
 अङ्गराग *m* smearing 467  
 अङ्गविशेष *m* kind of dance or movement of the limbs 568  
 अङ्गसूत्रकार *m* decoration of the body 491  
 अङ्गहार *m* kind of dance 568  
 अङ्गार *m* charcoal 898  
 अङ्गारक *m* the planet Mars 146  
 अङ्गिका *f* bodice 476  
 अङ्गिरस् *m* epithet of Bṛhaspati 147  
 अङ्गीकृत *a* accepted 883  
 अङ्गुल *m* thumb 429  
 अङ्गुलि *f* finger 429  
 अङ्गुलीयक *n* finger ring 460  
 अङ्गुष्ठ *m* the thumb 429  
 अचल *m* mountain 215  
 अचला *f* the earth 211 916  
 अच्युत *m* N of Viṣṇu 21  
 अज *m* epithet of Brahman 18  
 अज *m* goat 330  
 अजल्पन *n* silence 550  
 अजातशत्रु *m* epithet of Yudhiṣṭhira 743  
 अ[आ]जायेय *m* species of horse 312  
 अजिन *n* hide (of an antelope) 672  
 अजिर *n* court yard 500  
 अजिहवा *m* arrow 720  
 अज्ञ *m* fool 594  
 अजल *m* the end of a garment 469  
 अङ्गन *n* black pigment 455  
 अङ्गनाम *a* dark-blue 827  
 अङ्गीपुत्र *m* N of Hanuman 748  
 अटवी *f* forest 280  
 अट *n* upper storey 501  
 अट्टालक *n* upper storey 501  
 अगि *f* corner 902  
 अग्निम् *m* one of the eight powers of siddhis 354

- अणु *a* small, little 841  
 अपह्न *m* bird 197  
 अपहज *m* fish 243  
 अथर्य *a* excessive 875  
 अथर्वण *m* the Atharvaveda 648  
 अद्भ्र *a* plentiful much 843  
 अद्भुत *n* wonder 529  
 अद्भुत *m* N of a sentiment 583  
 अद्रि *m* mountain 216  
 अधर *m* lip 424  
 अधर्म *m* wicked person 810  
 अधिक *a* much, abundant 843  
 अधिकाङ्ग *n* military girdle 712  
 अधिप *m* lord 680  
 अधिवास *n* scenting with perfumes  
 481  
 अधाति *f* study 638  
 अधोऽङ्गुल *n* under garment 478  
 अधाक्ष *m* N of Visnu 31  
 अध्ययन *n* study 638  
 अध्यापक *m* teacher 596  
 अध्वग *m* traveller 691  
 अध्वन् *m* way 318  
 अध्वर *m* sacrifice 670  
 अन *m* chariot 314  
 अनङ्ग *m* god of love 57  
 अनङ्ग *m* name of Kamadeva 916  
 अनङ्गुवन् *m* bull 320  
 अनङ्गुवाही *f* cow 322  
 अतस्त *n* sky 119  
 अतन्त *m* N of Sesa 296  
 अतन्ता *f* the earth 211  
 अतन्पत *m* god of love 61  
 अतल *m* fire 331  
 अनादर *m* disrespect 616  
 अनिमिष *m* fish 244  
 अनिर्बुति *f* uncasiness anxiety 551  
 अनिल *m* wind 203  
 अनीक *n* army 703  
 अनीकिना *f* army 705  
 अनुकम्पा *f* compassion 525  
 अनुक्रीडा *m* compassion 525  
 अनुग *m* servant 692  
 अनुग्रह *m* favour 526  
 अनुपर *m* servant 692  
 अनुनीचिन् *m* servant 692  
 अनुनय *m* conciliation 562  
 अनुयाग *m* inquiry 564  
 अनुयादिन् *m* parrot 189  
 अनुहार *m* similarity 864  
 अनुचान *m* one well versed in the  
 Vedas 597  
 अनृद्ध *m* wicked person 810  
 अनृत *n* falsehood 626  
 अनेकप *m* elephant 309  
 अनीकह *m* tree 282  
 अन्त *m* end limit 902  
 अन्तरु *m* N of Yama 110  
 अन्तराय *m* obstacle 814  
 अन्तराल *n* middle part 847  
 अन्तरिक्ष *n* the sky 118  
 अन्तराय *n* under-garment 478  
 अन्त करण *n* mind 403  
 अन्त पुर *n* harem 686  
 अन्तावसायिन् *m* barbar 777  
 अन्तिक *a* near 865  
 अन्तिम *a* last 860  
 अन्तेवासिन् *m* pupil 593  
 अन्तेवासिन् *m* candala 798  
 अन्त्य *a* last 860  
 अन्तुक *m* chain 813  
 अन्धकार *n* darkness 160  
 अन्धकारि *m* N of Siva 46  
 अन्धतमस *n* darkness 161  
 अन्धम् *m* god 73  
 अन्धु *f* well 249  
 अन्वय *m* family race 388  
 अन्विष्ट *p p* searched sought 893  
 अन्वित *p p* searched for 893  
 अपचिति *f* worship offering 606  
 अपय *n* offspring 385  
 अपत्रपा *f* bashfulness 517  
 अपमानता *f* disrespect 617  
 अपराध *m* fault 544  
 अपणा *f* N of Parvati 54  
 अपचरक *m* inner apartment 499  
 अपवर्ग *m* final emancipation 656  
 अपवाद *m* censure, reproach 615  
 अपहृष्टित (?) *n* swing 870  
 अपाङ्गुली *n* side glance 420

- अश्वान *n* anus 443  
 अश्विन् *n* fire 333  
 अप्सरस् *f* nymph 99  
 अयला *f* woman 362  
 अय्य *m* the moon 136  
 अयन *n* lotus 257  
 अश्विनी *f* lotus plant 261  
 अय्य *m* year 166  
 अय्य *m* sea, ocean 225  
 अश्विनन्दिनी *f* N of Lakṣmī 50  
 अश्विण *m* N of Agastya 153  
 अश्विनन्दिर *m* epithet of Varuna 107  
 अश्विवल्लभा *f* river 230  
 अश्विदायिन् *m* N of Viṣṇu 29  
 अभिक *m* husband 372  
 अभिरया *f* splendour, lustre 494  
 अभिजन *m* family, race 388  
 अभिधा *f* name 618  
 अभिधान *n* name 618  
 अभिनय *m* dramatic action 563  
 अभिप्राय *m* opinion 527  
 अभिमान *m* pride 533  
 अभिमानिन् *a* proud 811  
 अभियोग *m* effort 817  
 अभिलाष *m* desire 532  
 अभिवादन *n* bow 602  
 अभिपन्न *m* jealousy 536  
 अभ्यर्ण *m f n* near 865  
 अभ्यास *m* practice, study 818  
 अभ्युदधान *n* rising in honour of 607  
 अभ्र *n* sky 117  
 अभ्र *n* cloud 173  
 अमर *m* god 70  
 अमय *n* pot, vessel 753  
 अमय *m* anger 535  
 अमरावती *f* N of Indra & city 89  
 अमर्य *m* god 72  
 अमृत *m* god 73  
 अमृत *n* nectar 87  
 अमृत *n* water 221  
 अमृत *n* final beatitude 657  
 अमृत *n* milk 762  
 अम्य *n* the eye 418  
 अम्यर *n* the sky 118  
 अम्यर *n* garment 468  
 अम्बा *f* mother 379  
 अम्बु *n* water 220  
 अम्बुज *n* lotus 257  
 अम्बुद *m* cloud 175  
 अम्बुमृत् *m* cloud 173  
 अम्बुस् *n* water 220  
 अम्भाज *n* lotus 258  
 अम्भागिरी *f* lotus plant 261  
 अम्भोपर *m* cloud 175  
 अम्मारुह *n* lotus 254  
 अम् *a* sour 820  
 अयन *n* year 162  
 अयन *n* way, road 319  
 अरण्य *n* forest 280  
 अरविन्द *n* lotus 253  
 अराति *m* enemy 702  
 अराल *a* crooked 848  
 अरि *m* enemy 700  
 अरुज *m* god 74  
 अरुण *m* the sun 131  
 अरुण *a* red 822  
 अरुणानुज *m* N of Garuḍa 193  
 अर्क *m* the sun 121  
 अर्चा *f* worship 606  
 अर्चा *f* idol, image 653  
 अर्धि *m f* flame 897  
 अर्धिम *n* ray 142  
 अर्जुन *m* Arjuna 745  
 अर्जुनी *f* cow 323  
 अर्ण *m* water 220  
 अर्णव *m* sea, ocean 225  
 अर्थ *m* wealth 352  
 अर्थ *m* motive 645  
 अर्थिन् *m* suppliant 622  
 अर्था *f* asking begging 620  
 अर्ध *n* half 839  
 अर्धदृष्ट *f* glance 420  
 अर्धक *m* child 382  
 अर्धमन् *m* the sun 124  
 अर्धन् *m* horse 311  
 अहना *f* worship 606  
 अहन् *m* lord god 12  
 अहंकार *m* ornament 446  
 अह्य *m* waist (?) 438  
 अहक *n* hair 406

- अलंकाराणि *m* epithet of Kubera 106  
 अलंकारक *m* red lac 465  
 अलि *m* bee 268  
 अलिक *n* forehead 415  
 अलीक *n* forehead 415  
 अलीक *a* false 626  
 अल्प *a* little 840  
 अवगणना *f* disrespect 617  
 अवगत *p p* known, understood 889  
 अवज्ञा *f*, disrespect 616  
 अवट *m* hole, cavity 846  
 अवतंस *m* ornament worn on the head 449  
 अवदात *a* white 824  
 अवधि *f* boundary 559  
 अवनि *f* the earth 211  
 अवरोध *m* harem 686  
 अवर्णवाद *m* reproach, censure 614  
 अवलम्ब *n* the waist 438  
 अवलिप्तता *f* pride 534  
 अवष्टम्भ *m* support 906  
 अवसर *m* time 543  
 अवसर्प *m* spy 690  
 अवसित *p p* known, understood 889  
 अवहेला *f* disrespect 617  
 अवि *m* ram 329  
 अदान *n* eating 769  
 अशीला *f* unchaste woman 392  
 अशेष *a* all, whole 839  
 अदमन् *n* stone 815  
 अश्व *m* horse 310  
 अश्ववार *m* horse-man 710  
 अश्वी *f* mare 313  
 अधिनीपुत्र *m du* the physicians of gods 94  
 अष्टपाद् *m* the fabulous animal Sarabha 305  
 अष्टमूर्ति *m* N of Śiva 44  
 अष्टबाल्या *f* bedstead (?) 507  
 अष्टापद *n* game board 791  
 अष्टापद *n* gold 347  
 अष्टीवत् *m* *n* knee 444  
 असती *f* unchaste woman 392  
 असत्य *n* lie 626  
 असि *m* sword 723  
 असित *m* the planet Saturn 150  
 असित *a* black 826  
 अस्त्रधावक *m* armourer 780  
 अस्त्रिधेनु *f* knife 722  
 अस्त्रिपुत्री *f* knife 722  
 असुर *n* pain, agony 553  
 असुर *m* demon 113, 115  
 असूया *f* malice, envy 536  
 असून् *n* blood 788  
 अस्त्र *n* weapon 714  
 अस्त्रम *m* god 74  
 अष्टदप *m* Cāṇḍala 798  
 अस्र *n* blood 788  
 अस्त्र *m* corner, angle 902  
 अहंकार *m* pride 533  
 गहन *n* day 156  
 अहर्षति *m* the sun 130  
 अहर्गुण *n* day break, dawn 157  
 अहस्कर *m* the sun 123  
 अहि *m* serpent 290  
 अहिक *m* N of Ketu 152  
 अहित *a* disagreeable 5+4  
 अहित *m* enemy 701  
 अहिपिय *m* wind 205  
 अद्विविकासमाक् *n* lotus 258
- आ
- आकलय *n* dress 471  
 आर्य (का)रण *n* invitation 619  
 आकाश *n* sky 117  
 आकीर्ण *a* filled with 877  
 आकुल *a* filled with 877  
 आकृत *n* meaning, intention 527  
 आक्रोश *m* curse 557  
 आक्षेप *m* censure, reproach 557  
 आखण्डक *m* epithet of Indra 79  
 आखेटक *m* chase 794  
 आख्या *f* name 618  
 आख्यात *p p* said 887  
 आग *m* fault 544  
 आगम *m* the Vedas 636  
 आगार *n* house 497  
 आपू *f* promise 610  
 आग्रयी *f* south east 170  
 आचार *m* custom 628

- आचार्य *m* teacher 597  
 आजि *m f.* battle 729  
 आजीव *m* livelihood 754  
 आज्ञा *f* order 609  
 आज्य *n* ghee 763  
 आज्य *m* N of an ocean 911  
 आटाप *m* pride arrogance 905  
 आटम्बर *m* pride, arrogance 905  
 आढ्य *a* rich 758  
 आतङ्क *m* fear 540  
 आतङ्क *m* disease 814  
 आतपत्र *n* umbrella 682  
 आतपवारण *n* parasol 682  
 आतोद्य *n* musical instrument 575  
 आत्मज *m* son 381  
 आत्मन् *m* the individual soul 400  
 आत्मभू *m* N of Brahman 19  
 आत्मराति *f* nature 907  
 आदर *m* respect 607  
 आदर्श *m* mirror 492  
 आदि *a* first 859  
 आदितेय *m* god 72  
 आदित्य *m* god 70  
 आदित्य *m* the sun 120  
 आदिम *a* first 859  
 आदेश *m* order 609  
 आद्य *a* first 859  
 आधार *m* support 906  
 आधि *f* agony 552  
 आघोरण *m* elephant driver 709  
 आनक *m* kettle drum 580  
 आनत *a* low 845  
 आनद *n* drum 577  
 आनन *n* the mouth 414  
 आनन्द *m* joy 519  
 आङ्कित *a* shaken, trembled 869  
 आम्बिकिणी *f* logic 650  
 आप *m* water 222  
 आपगा *f* river 229  
 आपण *m* market place 751  
 आपणिक *m* merchant 749  
 आपद् *f* adversity 759  
 आशीढ *m* chaplet tied on the crown  
 of the head 449  
 आभरण *n.* ornament 446  
 आभरण *n* nose-ornament (?) 454  
 आभील *n* injury, pain 554  
 आभय *m* disease 814  
 आमिष *n* flesh 787  
 आमोद *m* fragrance, perfume 482  
 आम्नाय *m* tradition 611  
 आम्र *m* mango-tree 286  
 आयत *a* long 844  
 आयतन *n* sanctuary 652  
 आयत्स *m* exertion, effort 555  
 आयुध *n* weapon 714  
 आयुर्वेद *m* physician 647  
 आयाधन *n* battle 723  
 आर *m* the planet Mars 148  
 आरन्ध्र *n* gruel (= Mar काजी) 764  
 आरभट *m* hero 696  
 आरव्य *m* sound 641  
 आराधना *f* service devotion 605  
 आराम *m* grove 278  
 आराह *m* woman's waist, the buttocks 440  
 आर्ति *f* distress 554  
 आर्द्र *a* wet 899  
 आर्भटी *f* pride, self conceit 905  
 आय *a* respectable 806  
 आयंपुत्र *m* husband 373  
 आर्या *f* N of Pārvatī 54  
 आलम्बन *n* support 906  
 आलय *m* house 498  
 ओलिङ्गन *n* embrace 511  
 आरुी *f* female companion  
 (of a woman) 395  
 आवर्त *m* whirl pool 236  
 आवलि *f* line, row 837  
 आवाप *m* bracelet 461  
 आवास *m* house 496  
 आवृत्त *p p* concealed hidden 885  
 आशय *m* meaning, intention 527  
 आशा *f* quarter 168  
 आशाविष *m.* serpent 294  
 आशुग *m* wind 205  
 आशुग *m* arrow 718  
 आशुगुप्तनि *m* fire 333  
 आश्चर्य *n* wonder 529  
 आदयान *m f n* dried up 899

आश्रय *m* house 498  
 आश्रय *m* support 906  
 आश्रयास *m* fire 335  
 आश्रय *m* promise 610  
 आश्रित *a* accompanied 880  
 आसन *n* seat 506  
 आसव *m* wine, liquor 786  
 आसादित *a* obtained 882  
 आसु *m pl* life 802  
 आस्कन्दन *n* battle 729  
 आस्तिक *m* pupil 599  
 आस्थानी *f* assembly 685  
 आस्य *n* the mouth 414  
 आश्रय *m* demon 116  
 आहय *m* battle 728  
 आहार *m* eating food 769  
 आह्वय *m* name 618

## इ

इक्षु *m* N of an ocean 911  
 इक्षुरस *m* unrefined sugar 772  
 इक्षुगल (?) *m* charcoal 898  
 इच्छा *f* desire 532  
 इतर *m* low man 799  
 इतरि *f* unchaste woman 392  
 इन *m* the sun 128  
 इन *m* lord 681  
 इन्द्रिन्द्र *m* bee 267  
 इन्द्रिन्द्रा *f* N of Laksmi 0  
 इन्दीवर *n* lotus 263  
 इन्दु *m* the moon 135  
 इन्दुमौलि *m* N of Siva 48  
 इन्दुरुच *f* moon light 138  
 इन्द्र *m* Indra 77  
 इन्द्र *m* lord 681  
 इन्द्रपुत्र *m* N of Arjuna 745  
 इन्द्राणी *f* Indra's wife 87  
 इन्द्रावरण *m* N of Visnu 28  
 इन्द्रिय *n* organ of sense 399  
 इभ *m* elephant 307  
 इभ्य *a* rich 758  
 इला *f* the earth 214  
 इलावृत *n* one of the nine divisions of  
 the earth 912  
 इषु *m* arrow 718

इषुधि *m* quiver 717  
 इष्टगन्धि *m* fragrance 483  
 इष्यास *m* bow 715

## ई

ईक्षण *n* the eye 418  
 ईरित *p p* said 891  
 ईपा *f* malice, envy 536  
 ईश *m* N of Siva 40  
 ईशान *m* N of Siva 40  
 ईशानी *f* the north-east 171  
 ईशियु *m* lord 681  
 ईशिव *n* one of the eight powers or  
 siddhis 355  
 ईश्वर *m* Lord 681  
 ईश्वरा *f* N of Parvati 52  
 ईश्वरी *f* N of Parvati 51

## उ

उक्त *p p* spoken, uttered 887  
 उक्ति *f* speech 563  
 उक्षन् *m* bull 320  
 उम *m* N of Siva 38  
 उम *a* dreadful 851  
 उच्च *a* high 845  
 उच्चैश्वर्य *m* Indra's horse 92  
 उच्छार्पिक *n* pillow 509  
 उज्जुम्भित *n* full blown flower 275  
 उशित *a* abandoned 882  
 उज्वल *a* white 824  
 उज्वल *a* clean, clear 862  
 उडु *f* star 139  
 उडुप *n* raft 241  
 उडुपति *m* the moon 136  
 उरकट *a* excessive 851  
 उरकण्ठा *f* eagerness 549  
 उरकर *m* heap multitude 835  
 उरकलिका *f* wave 235  
 उरकलिका *f* anxiety, eagerness 549  
 उर्यात *p p* uprooted removed 886  
 उर्यात *m* garland in the hand 449  
 उर्यात *a* the best 805  
 उत्तनाङ्ग *n* the head 405  
 उत्तर *n* reply 564  
 उत्तरा *f* the north 171  
 उत्तराशापति *m* epithet of Kubera 106

- उपरासह्य *m* upper garment 472  
 उपरीयक *n* upper garment 475  
 उचानपादज *m* N of Dhruva 152  
 उपत्ति *f* birth, origin 801  
 उपल *n* lotus 262  
 उपरहित *p p* removed, uprooted 886  
 उत्पाद *m* birth 801  
 उडुल *n* full blown flower 276  
 उत्सह्य *m* the lap 437  
 उत्साह *m* effort, energy 817  
 उत्सृष्ट *a* abandoned 882  
 उद्धिन् *n* butter milk 764  
 उदक *n* water 221  
 उदधि *m* sea ocean 223  
 उदन्त *m* news report 560  
 उदन्त्या *f* thirst 770  
 उदन्वत् *m* sea ocean 225  
 उद्वान *n* well 249  
 उद्य *m* N of a mountain 914  
 उदयाद्रि *m* N of a mountain 218  
 उदर *n* the belly 435  
 उदार *a* liberal, munificent 808  
 उदिन *p p* spoken, uttered 887  
 उदान *a* excessive 851  
 उद्धृत *a p p* uprooted, removed 896  
 उद्भव *m* birth 801  
 उद्यम *m* business effort 817  
 उद्यान *n* garden 278  
 उद्योग *m* business 817  
 उद्वेग *a* empty 816  
 उद्दह *m* son 380  
 उद्वाह *m* marriage, wedding 369  
 उद्वेग *m* anxiety, sorrow 552  
 उद्यत *a* elevated proud 811  
 उन्मादन *m* N of one of the five  
 arrows of Cupid 64  
 उन्मिषित *n* full blown (flower) 275  
 उन्मूलित *p p* removed, uprooted 886  
 उपकण्ठ *a* near 866  
 उपकाश *f* censure, reproach 614  
 उपगृहन *n* embrace 511  
 उपग्राह *n* offering, present 608  
 उपदा *f* present 608  
 उपदेष्टु *m* teacher 596  
 उपपाद *n* pillow 509  
 उपधि *f* fraud, deceit 537  
 उपबर्ह *n* pillow 509  
 उपमा *f* comparison 864  
 उपमान *n* resemblance 864  
 उपधाम *m* marriage 368  
 उपल *m* stone 815  
 उपलब्धि *f* knowledge, intellect 634  
 उपवन *n* grove, garden 279  
 उपवस्त *n* fast 630  
 उपवास *m* fast 630  
 उपस्थ *n* the organ of generation 441  
 उपहार *m* offering 606  
 उपाद्यु *m* secrecy 542  
 उपाध्याय *m* teacher 596  
 उपानह *f* shoe 796  
 उपान्त *a* near 866  
 उपायन *n* present gift 608  
 उपालम्भ *m* reproach 558  
 उपासक *m* worshipper 599  
 उपासह्य *m* quiver 717  
 उपास्ति *f* service devotion 605  
 उपेन्द्र *m* N of Visnu 24  
 उभय *n* pair 828  
 उमा *f* N of Parvati 52  
 उमापति *m* N of Siva 43  
 उरग *m* serpent 291  
 उरण *m* ram 329  
 उरध *m* ram 329  
 उरधु *n* bosom, breast 433  
 उरीहृत् *a* accepted 833  
 उरोज *m* the female breast 434  
 उर्वशी *f* N of an apsarās 96  
 उर्वी *f* the earth 213  
 उरुण *a* clear, manifest 872  
 उहोच *m* awning 510  
 उहोत् *m* wave 236  
 उशनस् *m* N of Sukra 149  
 उपण *a* pungent 820  
 उपसृष्ट *m* fire 138  
 उपसृष्ट *f* day break, dawn 157  
 उष्ट *m* camel 324  
 उष्ण *a* hot 145  
 उष्णरश्मि *m* the sun 127  
 उष्णीश *m* turban 471  
 उष्णीव *n* crown 448  
 उष *m* ray 141



## क

- ऊटा *f* wife 376  
 ऊरु *m* the thigh 443  
 ऊरुपर्वन् *m n* knee 444  
 ऊर्जस् *n* vigour 699  
 ऊर्ध्वलोक *m* heaven 76  
 ऊर्मि *f* wave 235  
 ऊर्मिका *f* finger ring 460

## ख

- खल्वथ *n* wealth 352  
 खल *n* star 139  
 खग्वद *m* the Rgveda 648  
 खलु *a* straight 848  
 खत *n* truth 627  
 खतु *m* season 162  
 खम्भु *m* God 74  
 खमुधन् *m* N of Indra 84  
 खपभ *m* a musical note 569  
 खपि *m* ascetic 601

## ख

- खकदन्त *m* epithet of Ganeśa 6  
 खकपिङ्ग *m* N of Kubera 104  
 खकान्त *n* cercey 542  
 खटक *m* ram 329  
 खण *m* dear 300  
 खनस् *n* sin 624

## ख

- खरावत *m* Indra's elephant 91  
 खरावती *f* lightning 177  
 खलविल *m* N of Kubera 103  
 खल्वर्थ *n* prosperity 353

## ख

- { खोक *m* house 496  
 { खोकस *n* house 496  
 खल *m* flow 237  
 खल *m* multitude 831  
 खलस् *n* vigour 699  
 खलन *n* boiled rice 767  
 खलर्षाश *m* the moon 135  
 खल्ल *m* the lip 424

## ख

- खलसुक्य *n* eagerness 549  
 खलद्वय *n* arrogance, pride 534  
 खल्व *m* submarine fire 341

## ख

- खधरा *f*, neck 432  
 खसारि *m* N of Viṣṇu 32  
 ख *m*, N of Brahman 19  
 खकुमत् *m* bull 321  
 खकुमती *f* the hip 439  
 खकुम् *f* quarter 168  
 खक्ष *m* forest 279  
 खक्षापद *m* cloth passed between the legs to cover the privities 474  
 खद्वद *m* armour 711  
 खद्वण *n* bracelet 461  
 खद्वपन *m* arrow 919  
 खद्ववन्ध *n* water (?) 222  
 खच *m* hair 406  
 खचट्टप *m* tortoise 247  
 खचट्टप *m* N one of the nine treasures (of Kubera) 356  
 खच्छा *f* the hem of the lower garment tucked into the waistband 473  
 खन *n* lotus 258  
 खजल *n* black pigment 455  
 खजलध्वज *m* lamp 505  
 खन्बुक *m* bodice 476  
 खन्बुक *m* armour 712  
 खन्बुकिन् *m* attendant on women's apartment 687  
 खन्बुलिका *f* bodice 476  
 खटक *m* bracelet 461  
 खटक *n* army 703  
 खदाल *m* glance 420  
 खटि *f* the hip 439  
 खटिपूर *n* girdle 463  
 खटार *n* the hip 439  
 खट्ट *a* pungent 820  
 खट्टक *a* pungent 820  
 खटिन *a* harsh 850  
 खटोर *a* harsh 850  
 खण *m* small quantity 840  
 खण्टक *m* thrill, bristling of hair 548

- कण्ठकानन *m* camel 324  
 कण्ठ *m* throat 426  
 कण्ठसूत्र *n* neck ornament 456  
 कण्ठामरण *n* neck ornament 456  
 कण्ठिका *f* neck-ornament 456  
 कण्ठीरव *m* lion 303  
 कथित *p p* told, expressed 887  
 कटक *m* awning 510  
 कदम्बक *n* multitude 830  
 कदप *a* miser 760  
 कदला *f* plantain tree 287  
 कनक *n* gold 343  
 कनी *f* girl 384  
 कननिका *f* pupil of an eye 419  
 कनु *m* god of love 63  
 कन्दूरा *f* cave valley 673  
 कन्दुर *m* god of love 59  
 कन्दुका *f* girl 384  
 कन्धा *f* girl 384  
 कपट *n* deceit, cheating 537  
 कपदिन् *m* N of Siva 45  
 कपालभृत् *m* N of Siva 41  
 कपि *m* monkey 327  
 कपिवन्धन *m* an epithet of Arjuna 745  
 कपोल *m* the cheek 423  
 कपर्द *m* tortoise 247  
 कपर्दी *f* tortoise (female) 247  
 कर्भन् *m* god of love 63  
 कर्मनीय *a* charming 855  
 कमल *n* water 222  
 कमल *n* lotus 253  
 कमलभू *m* N of Brahman 18  
 कमला *f* N of Lakṣmī 49  
 कमलालया *f* N of Lakṣmī 49  
 कमलामन *m* N of Brahman 19  
 कमलिनी *f* lotus plant 260  
 कम्प *m* shaking, trembling 552  
 कर *m* ray 140  
 कर *m* the hand 428  
 करक *m* pomegranate tree 287  
 करन *n* finger nail 430  
 करटिन् *m* elephant 309  
 करण *n* organ of sense 399  
 करण *n* making effecting 908  
 करणश्राण *n* the head 405  
 करन *m*, camel 324  
 करभूषण *n* armlet 459  
 करभूषण *n* bracelet 461  
 करमिश्र *a* mixed 879  
 कररह *m* finger nail 431  
 करवाल *m* sword 723  
 करवाखा *f* finger 429  
 करशुक *m* finger nail 431  
 करिन् *m* elephant 305  
 करण *m* N of a sentiment 582  
 करुणा *f* compassion 525  
 करणु *m* elephant 309  
 कर्कश *a* harsh 850  
 कर्ण *m* the ear 416  
 कर्ण्य *n* ear ring 450  
 कर्णभित्ति *m* an epithet of Arjuna 746  
 कर्णधार *m* helmetman 242  
 कर्णचूरी *n* ear ring 450  
 कर्णवेष्टक *n* ear ring 453  
 कर्णजप *m* slanderer villain 809  
 कदम्ब *m* mud 816  
 कर्पट *m* ragged cloth 474  
 कर्पूर *m* camphor 486  
 कर्पूर *n* gold 345  
 कर्पूर *a* variegated 827  
 कर्मकर *m* servant 693  
 कर्मवाशिन् *m* the sun 125  
 कर्षक *m* cultivator 773  
 कर्पू *f* river 229  
 कलकण्ठी *f* cuckoo 183  
 कलङ्क *m* stigma 812  
 कलत्र *n* wife 376  
 कलधौत *n* gold 345  
 कलशय *m* arrow 720  
 कलश *m* jar 775  
 कलह *m* battle 730  
 कलश *m* goldsmith 776  
 कलानाथ *m* the moon 136  
 कलाप *m* garb 462  
 कलश *m* bundle 834  
 कलापिन् *m* peacock 181  
 कलि *m* battle 730  
 कलश *n* the body 397  
 कश्यप *m* N of a heavenly tree 93  
 कश्यप *n* a measure of time 163

- कल्प *m* universal destruction 167  
 कल्प *m* rule 628  
 कल्प *m* ritual 649  
 कल्पान्त *m* universal destruction 167  
 कल्मष *n* sin 624  
 कल्प *n* day break dawn 157  
 कल्पपात्र *m* distiller 784  
 कल्पपाण *n* gold 346  
 कल्याण *n* welfare 658  
 कल्लोल *m* wave 235  
 कवच *n* armour 711  
 कवरी *f* braid or fillet of hair 409  
 कपि *f* N of Śukra 149  
 कवि *m* wise man 589  
 कश्यपात्मन *m* N of Garuda 194  
 कषाय *a* astringent 819  
 कष्ट *n* pain 553  
 कस्तूरिका *f*, musk 487  
 कस्तूरी *f* musk 488  
 काकतुण्ड *m* a kind of sandal (r) 489  
 काकपक्षक *m* side lock of hair on the temple of boys 411  
 काकुत्स्थ *m* an epithet of Rama 739  
 काकोदर *m* serpent 293  
 काकाल *m* poison 299  
 काक्ष *m* glance 420  
 काक्षा *f* desire 531  
 काञ्चन *n* gold 343  
 काञ्चि *f* girdle 462a  
 काञ्ची *f* girdle 462  
 काञ्चापद *n* the hips and the loins 439  
 काञ्चिक *n* gruel 764  
 काण्ड *m* arrow 718  
 कातर *m* coward 697  
 कात्यायना *f* N of Parvati 52  
 कादम्ब *m* kind of swan 192  
 कादम्बरा *f* wine, liquor 785  
 काद्रवेय *m* serpent 295  
 कानन *n* grove 278  
 कान्त *m* lover husband 371 r  
 कान्त *a* lovely, charming 855  
 कान्ता *f* wife 275  
 कान्तार *m* forest 279  
 कान्ति *f* lustre, beauty 493  
 कान्दिशक *m* coward 697  
 कापिशायन *n* wine, liquor 786  
 काम *m* god of love 57  
 काम *m* desire 532  
 कामकेलि *f* sexual intercourse 513  
 कामाक्षुदा *m* finger nail 430  
 कामिनी *f* woman 363  
 काम्बाज *m* a species of horse from Kamboja country 312  
 काम्य *a* charming 856  
 काय *m* body 397  
 कारण *n* cause 643  
 कार *m* artisan 783  
 कार्व *m* artisan 783  
 कातस्वर *n* gold 345  
 कार्तिकेय *m* N of Karttikeya 65  
 कामुक *n* bow 716  
 कार *m* epithet of Yama 110  
 काल *a* black 826  
 कालकूट *m* poison 298  
 कालिन्दी *f* the river Yamuna 234  
 काली *f* N of Pārvati 52  
 काश्य *m* N of Śukra 149  
 काश्मीरचन्मन *n* saffron 484  
 काश्यपा *f* the earth 212  
 कारतक्ष *m* carpenter 779  
 काष्ठा *f* quarter 168  
 कासार *m* lake 251  
 किंकर *m* servant 692  
 किन्नर *m* demi god 99  
 किन्नरेय *m* epithet of Kubera 102  
 किपुरुष *n* one of the nine divisions of the earth 912  
 किपुरुषाधिप *m* N of Kubera 102  
 किंवदन्तिस्ता *f* report, rumour 560  
 विकीर्दिवि *m* kind of bird 190  
 किङ्किणी *f* tinkling ornament 463  
 कितव *m* gambler 789  
 किरण *m* ray 140  
 किरात *m* man of the Bhil tribe 800  
 किराट *n* crown 448  
 किशिप *n* sin 624  
 किशोर *m* colt 313  
 किशारक *m* child 383  
 किसलय *m* sprout 273  
 कीचकारि *m* epithet of Bhama 744

कीनास *m* N of Yama 112  
 कीर *m* parrot 189  
 कीर्ति *f* fame 613  
 कीलित *p p* tied, bound 896  
 कु *f* the earth 213  
 कुकर *m* dog 326  
 कुक्षि *f* the belly 435  
 कुङ्कुम *n* saffron 484  
 कुच *m* the female breast 434  
 कुम *m* the planet Mars 146  
 कुञ्ज *m* bower 280  
 कुञ्जर *m* elephant 306  
 कुञ्जविहारिन् *n* N of Viṣṇu 36  
 कुट *m* tree 282  
 कुट *m* *n* house 498  
 कुटिनी *f* procuress bawd 390  
 कुटार *m* axe 726  
 कुट्ट *a* fool 595  
 कुण्डित *a* blunted 900  
 कुण्डल *n* ear ring 453  
 कुण्डलिन् *m* serpent 293  
 कुतू *n* curiosity 530  
 कुहल *n* curiosity 530  
 कुन्त *m* spear 725  
 कुन्तल *m* hair 406  
 कुन्द *m* kind of flower 285  
 कुन्द *m*, N of one of the nine treasures  
 (of Kubera) 357  
 कुबेर *m* Kubera 101  
 कुमार *m* N of Kārttikeya 68  
 कुमार *m* boy 383  
 कुमारी *f* girl 384  
 कुमुद *n* lotus 262  
 कुमुदबानधव *m* the moon 137  
 कुमुदिनी *f* lotus 264  
 कुमुदिनीपति *m* the moon 135  
 कुमुदती *f* lotus 264  
 कुम्भ *m* jar 775  
 कुम्भकार *m* potter 775  
 कुम्भप *m* epithet of Agastī 153  
 कुम्भिन् *m* elephant 307  
 कुम्भ *m* deer 300  
 कुम्भ *m* curl 410  
 कुम्भपद *n* one of the nine divisions of  
 the earth 914

कुकुट *m* cock 187  
 कुल *n* family race 388  
 कुल *n* collection, multitude 835  
 कुला *f* wanton woman 392  
 कुलाल *m* potter 775  
 कुललय *n* lotus 262  
 कुविन्दक *m* weaver 782  
 कुश *n* water 219  
 कुश *m* one of the seven Dvīpas 909  
 कुशल *m* learned man 591  
 कुशल *n* welfare 658  
 कुशदाप *n* lotus 253  
 कुसुम *n* flower 270  
 कुसुमायुध *m* god of love 61  
 कुह *m* N of Kubera 103  
 कुहर *n* hole cavity 846  
 कुट *n* fraud, deceit 537  
 कुट *n* fraud 626  
 कुट *n* heap, multitude 835  
 कुप *m* well 249  
 कुर *n* boiled rice 767  
 कुच *m* beard 412  
 कृपास *m* kind of bodice 476  
 कृम *m* tortoise 247  
 कुलकपा *f* river 229  
 कुल *n* bank 238  
 कुत्रयाकु *m* cock 187  
 कुच्छ *n* difficulty, trouble 554  
 कृत *a* accomplished 881  
 कृतान्त *m* epithet of Yama 109  
 कृतान्त *m* conclusion 636  
 कृति *f* making 908  
 कृतिन् *m* learned man 589  
 कृत् *p p* cut 894  
 कृत्ति *f* hide 672  
 कृत्तिवासस् *m* N of Śiva 41  
 कृत् *n*, *m*, *adv* 643  
 कृत्स्न *a* all, whole 839  
 कृपण *a* miser 760  
 कृपा *f* compassion 525  
 कृपाण *m* sword 723  
 कृपाणिका *f* knife 721  
 कृपीट्यानि *m* fire 338  
 कृश *a* small, little 841  
 कृशानु *m* fire 336

- कृष्णानुवैतम् *m* N of Śiva 46  
 कृशोदरी *f* woman (having thin waist)  
 367  
 कृषिकृत् *m* cultivator 773  
 कृषीवल *m* farmer 773  
 कृष्टि *m* learned man 590  
 कृष्ण *m* N of Viṣṇu 21  
 कृष्ण *a* black 826  
 कृष्णवार्मद् *m* fire 332  
 कृष्णसार *m* kind of deer 301  
 कृष्णा *f* epithet of Draupadī 747  
 कृष्णागरु *m* kind of sandal 489  
 कैकिन् *m* peacock 180  
 कैतक *m* *Ketaka* tree 284  
 कैतका *f* *Ketaka* tree 284  
 कैतन *n* banner 317  
 केतु *m* the planet *Ketu* 152  
 केतु *m* flag 317  
 केतुमाल *n* one of the nine divisions of  
 the earth 914  
 केदार *m* field 774  
 केयूर *m* armlet 459  
 कैलि *f* sport 515  
 केस *m* hair 406  
 केसकलाप *m* Mass of hair 408  
 केसव्य *m* „ 408  
 केसपाशा *m* „ 408  
 केसभार *m* „ 408  
 केसरधला *m* „ 408  
 केसव *m* N of Viṣṇu 21  
 केसरिन् *m* lion 302  
 केदनजित् *m* N of Viṣṇu 31  
 कैतव *n* deceit, cheating 537  
 कैतव *n* gambling 790  
 केरव *n* lotus 262  
 केरविणी *f* lotus 264  
 केलासनाय *m* epithet of Kubera 105  
 कैवर्त *m* fisherman 793  
 कैवल्य *n* final beatitude 657  
 कौक *m* bird *Cakravaka* 184  
 कौकिलद् *n* (red) lotus 259  
 कौकिला *f* cuckoo 182  
 कोटि *f* corner 902  
 कोटीर *n* crown 448  
 कौट *m* fort 735  
 कोण *n* corner 902  
 कोदण्ड *m* bow 715  
 कोप *m* anger 535  
 कोमल *a* tender 852  
 कोल *m* raft 241  
 कोल *m* hog 325  
 काविद् *m* learned man 588  
 कोशा *m* store house 500  
 कोप *m* store house 500  
 कौक्षिय *m* sword 724  
 कातुक *n* curiosity 530  
 कौतूहल *n* curiosity 530  
 कौपीन *n* cloth passed between the  
 legs to cover the privities 474  
 कौमुदी *f* moon light 138  
 कौलीन *n* scandal 614  
 कौशिक *m* N of Indra 84  
 क्रतु *m* sacrifice 670  
 क्रतुर्धसिन् *m* N of Śiva 43  
 भवतुसुत् *m* God 74  
 मन्द *m* cry 546  
 कम *m* foot 445  
 कमण *m* foot 445  
 क्रमेत्क *m* camel 324  
 क्रयविक्रयिक *m* merchant 750  
 क्रयणक *n* commodity 753  
 क्रयिन् *m* merchant 750  
 क्रम्य *n* flesh 787  
 कोटा *f* sport 515  
 क्रीडासन्न *n* bed-chamber 503  
 कुम् *m* anger 535  
 कुम् *m* wicked person 810  
 कोज *m* one of the seven *Dvīpas* 909  
 कोद *m* the lap 437  
 क्रोध *m* anger 535  
 क्रोद् *m* jackal 328  
 क्राष्टी *f* female jackal 324  
 क्रीडामेदन *m* N of *Karttikeya* 67  
 क्लम *m* fatigue 555  
 क्लिप्त *a* wet 899  
 क्षण *m* moment 162  
 क्षण *m* moment 543  
 क्षणदा *f* night 159  
 क्षणरश्मि *f* lightning 177  
 क्षतज *n* blood 738

तप *n* man of the Kṣatriya caste 674  
 तत्रिय *m* Kṣatriya 662  
 तरा *f* night 159  
 तमा *f* the earth 212  
 तमा *f* forgiveness 629  
 क्षय *m* universal destruction 167  
 क्षय *m* house 497  
 क्षान्ति *f* forgiveness 629  
 क्षान *a* little small 841  
 क्षार *m* salt 821  
 क्षालित *a* washed, cleaned 862  
 क्षिति *f* the earth 210  
 क्षितिपति *m* king 676  
 क्षितीश *m* king 677  
 क्षिप *a* quick 873  
 क्षीण *a* small little 841  
 क्षीर *n* water 221  
 क्षीर *n* milk 762  
 क्षीर *m* one of the seven seas 911  
 क्षीरकण्ठ *m* child 383  
 क्षीरज *n* curd 762  
 क्षुद्र *m* wicked person 810  
 क्षुद्रचण्डिका *f* tinkling ornament 463  
 क्षुप् *f* hunger 770  
 क्षुधा *f* hunger 770  
 क्षुरत्र *n* arrow 720  
 क्षुरनदिन्द्र *m* barbar 777  
 क्षुरिका *f* knife 722  
 क्षेत्र *n* body 396  
 क्षेत्र *n* field 774  
 क्षेत्रिन् *m* cultivator 773  
 क्षेत्र *n* welfare 659  
 क्षेत्री *f* dish prepared with milk 765  
 क्षाणी *f* the earth 210  
 क्षाण्णाय *m* king 677  
 क्षौम *n* fine garment 470  
 क्षौम *n* terrace 501  
 हमा *f* the earth 210  
 हमाश्रित *m* mountain 215  
 हमाश्रित *m* king 675  
 हवेड *m* poison 297

ख

ख *n* sky 118  
 ख *n* organ of sense 399

खग *m* the sun 121  
 खग *m* bird 195  
 खग *m* arrow 720  
 खचर *m* bird 198  
 खचित *p p* mixed 878  
 खञ्जल *m* wagtail 190  
 खञ्जरीट *m* wagtail 190  
 खट्वा *f* bedstead 507  
 खड्ग *m* sword 724  
 खण्ड *m* candied sugar 771  
 खण्डपशु *m* N of Śiva 47  
 खण्डित *p p* cut broken 894  
 खर *a* hot 145  
 खर *m* donkey 325  
 खर *a* harsh 850  
 खजूर *n* silver 348  
 खर्व *a* short 844  
 खल *n* villain 809  
 खलक *n* ditch 250  
 खादन *n* eating 769  
 खिल *m* *n* vacuity, gap 876  
 खुरली *f* practice 818  
 खेटक *m* shield 721  
 खेद *m* grief sorrow 551  
 खेद *m* fatigue 555

ग

गगन *n* sky 117  
 गङ्गा *f* the Ganges 231  
 गङ्गाधर *m* N of Śiva 39  
 गज *m* elephant 306  
 गजानन *m* epithet of Gaṇeśa 5  
 गजाराति *m* lion 304  
 गण *m* multitude 833  
 गणक *m* astrologer 644  
 गणपतिप *m* epithet of Gaṇeśa 6  
 गणिका *f* harlot, courtesan 391  
 गण्ड *m* the cheek 423  
 गति *f* vehicle 316  
 गदि *m* disease 814  
 गदाधर *m* N of Viṣṇu 33  
 गन्धी *f* car, chariot 314  
 गन्ध *m* fragrance perfume 482  
 गन्धपुष्पी *f* musk 488  
 गन्धमादन *m* N of a mountain 914

- गन्धर्व *m* Gandharva 99  
 गन्धव *m* horse 311  
 गन्धय *m* singer 566  
 गन्धवह *m* wind 202  
 गन्धवाह *m* wind 202  
 गन्धसार *m* sandal 288  
 गमस्ति *m* the sun 127  
 गमस्ति *m f* ray 141  
 गरुड *n* poison 297  
 गरिमन् *m* one of the eight powers or  
 siddhis 354  
 गरुडध्वज *m* N of Viṣṇu 29  
 गरुडवाहन *m* N of Viṣṇu 34  
 गरुड् *m* wing 199  
 गरुड् *m* Garuda 194  
 गवा *f* thunder 178  
 गर्वित *n* thunder 178  
 गत्त *m* hole 846  
 गर्दभ *m* donkey 325  
 गभागार *m* inner apartment 499  
 गर्व *m* pride 533  
 गर्वित *a* proud 811  
 गर्विष्ट *a* proud 811  
 गहणा *f* reproach censure 615  
 गळ *m* the throat 426  
 गळित *p p* fallen 892  
 गळ *m* the cheek 423  
 गवाक्ष *m* window 504  
 गवेपित *p p* searched sought 893  
 गहन *n* wood forest 280  
 गाङ्गय *n* gold 344  
 गाड *a* excessive 875  
 गात्र *n* the body 396  
 गान *n* singing 556  
 गान्धार *m* a musical note 569  
 गिन्दुक *n* pillow 509  
 गिरि *f* mountain 215  
 गिरिजा *f* N of Parvatī 54  
 गिरिधर *m* N of Viṣṇu 34  
 गिरिश *m* N of Śiva 40  
 गिरिदा *m* N of Śiva 40  
 गाल *n* soag 565  
 गीत *n* singing 566  
 गीति *f* singing song 566  
 गीर् *f* Goddess of speech 3  
 गीवाण *m* God 73  
 गीष्पति *m* epithet of Bṛhaspati 148  
 गुड *m* unrefined sugar 772  
 गुणवत् *m* virtuous 805  
 गुग्नि *a* virtuous 805  
 गुण्डित *a* covered 878  
 गुद *n* the anus 443  
 गुसपाद *m* serpent 294  
 गुर *m* the planet Jupiter 147  
 गुरु *m* teacher 596  
 गुरन्म *m* tradition 611  
 गुह *m* epithet of Karttikeya 65  
 गुहा *f* cave 673  
 गुहाक *m* N of a class of demi gods 100  
 गुहाकेधर *m* epithet of Kubera 102  
 गृह *n* wife 375  
 गृह *n* house 495  
 गृहमणि *m* lamp 505  
 गृहस्थ *m* house holder 664  
 गृहिणी *f* wife 376  
 गृहिन् *m* house holder 663  
 गेय *n* singing 566  
 गेह *n* house 498  
 गी *f* heaven 76  
 गा *m f* ray 141  
 गर *f* the earth 214  
 गा *m* bull 320  
 गौ *f* cow 322  
 गाङ्क *n* cow house 761  
 गोत्र *m* mountain 216  
 गात्र *n* family race 388  
 गात्र *n* name 619  
 गोत्रभेदिन् *m* N of Indra 88  
 गात्रा *f* the earth 212  
 गाधि *f* forehead 415  
 गाधूम *m* wheat 752  
 गाप *m* cow herd 761  
 गोपामिय *m* N of Viṣṇu 34  
 गोपुर *n* city gate 736  
 गान्ध *m* protector 808  
 गोमासु *m* jackal 328  
 गोरस *m* curds 762  
 गोवर्धनपर *m* N of Viṣṇu 33  
 गोविन्द *m* N of Viṣṇu 21  
 गोसाप *n* sandal 289, 485

गाछ *n* cow house 761  
 गाछी *f* assembly 685  
 गौर *a* white 824  
 गौर *a* yellow 825  
 गौरव *n* respect 607  
 गौरी *f* N of Parvati 51  
 गौरीसुत *m* epithet of Ganeśa 7  
 ग्रन्थ *m* book 637  
 ग्रन्थि *f* knot of lower garment 479  
 ग्रह *m* planet 140  
 ग्रहण *n* an organ of sense 399  
 ग्रहपति *m* the sun 127  
 ग्राम *m* scale in music 572  
 ग्राम *m* multitude, collection 836  
 ग्राम *m* village 734  
 ग्राम्यभ्रमं *m* sexual intercourse 514  
 ग्रीष्म *m* the hot season 164  
 प्रावन *m* stone 815  
 प्राहिन् *m* suppliant 622  
 ग्रीवा *f* the neck 432  
 ग्रीवेय *n* neck-ornament 456  
 ग्लानि *f* fatigue 555  
 ग्लौ *m* the moon 132

घ

घट *m* jar 775  
 घटन *n* making effecting 908  
 घटा *f* measure of time 162  
 घन *m* cloud 172  
 घन *m* the body 398  
 घन *m* club, mace 725  
 घनरस *n* water 222  
 घनसार *m* camphor 486  
 घनाघन *m* cloud 172  
 घनाश्रय *m* sky 119  
 घर्म *m* sweat 547  
 घम्व *n* day 156  
 घुम्व *n* saffron 484  
 घृणा *f* compassion 525  
 घृणि *m* ray 142  
 घृत *n* ghee 763  
 घृतपक *n* kind of cake 766  
 घृतपू *f* kind of sweetmeat 766  
 घृताची *f* N of an apsaras 95

घोटक *m* horse 310  
 घाण *f* nose 41/  
 घोर *a* lend (?) 572  
 घार *a* dreadful 851  
 घारिणी *f* line 837  
 घाप *m* cow house 761  
 घ्राण *n* nose 417  
 घ्राणतपण *m* fragrance, perfume 483

च

चकोर *m* bird Cakora 186  
 चक्र *m* bird Cakravaka 185  
 चक्र *n* army 703  
 चक्र *n* collection multitude 83  
 चक्रपर *m* N of Viṣṇu 33  
 चक्रपाणि *m* N of Viṣṇu 23  
 चक्रवान्धव *m* the sun 127  
 चक्रवर्तिन् *m* emperor 679  
 चक्रवाक *m* bird cakravaka 184  
 चक्रान्न *m* swan 191  
 चक्षुस् *m* the eye 418  
 चक्षु श्रवस् *m* serpent 295  
 चञ्चल *m* bee 267  
 चञ्चल *a* unsteady 868  
 चञ्चला *f* lightning 176  
 चञ्चु *f* beak 200  
 चट्ट *n* flattery 562  
 चटुल *a* unsteady 868  
 चण्ड *a* hot 145  
 चण्डातक *n* small petti coat 477  
 चण्डाल *m* Candala 797  
 चण्डिका *f* N of Parvati 53  
 चण्डि *f* N of Parvati 53  
 चतुर *m* wise man 591  
 चतुर्द्वय *n* complete army consisting  
 of elephants chariots cavalry  
 and infantry 706  
 चतुर्द्वार *n* court yard 502  
 चतुर्भुज *m* N of Viṣṇu 23  
 चतुर्मुख *m* N of Brahman 16  
 चतुर्पथ *m* crossway 751  
 चदर *n* court yard 500  
 चन्दन *n* sandal 485  
 चन्दनद्रुम *m* sandal tree 288



- चन्द्र *m* camphor 486  
 चन्द्र *m* the moon 132  
 चन्द्रमसु *m* the moon 132  
 चन्द्रशाला *f* turret 502  
 चन्द्रशेखर *m* N of Siva 38  
 चन्द्रहास *m* sword 724  
 चन्द्रिका *f* moon light 138  
 चन्द्रोदय *m* awning 510  
 चन्द्रोपेत *m* moon light 138  
 चपल *a* unsteady 868  
 चपला *f* lightning 176  
 चमू *f* army 703  
 चम्पक *m* campaka tree 284  
 चय *m* rampart 735  
 चय *m* collection, multitude 831  
 चर *m* spy 690  
 चरण *m* foot 445  
 चरणयुध *m* cock 188  
 चरम *a* last 860  
 चराचर *n* world 207  
 चरै (चर) *m* one of nine treasures  
 (of Kubera) 357  
 चर्मकार *m* shoe-maker 798  
 चर्मचू *n* hide 672  
 चर्मचू *n* shield 721  
 चरणी *f* disloyal woman 393  
 चल *a* unsteady 868  
 चलचम्पु *m* bird Cakora 186  
 चलन *m* foot 445  
 चलनक *n* short petty-coat 477  
 चाक्रिक *m* oil maker 783  
 चाटु *n* flattery 562  
 चाण्डाल *m* Cāṇḍala 797  
 चातक *m* Cātaka. 179  
 पातक bird Cātaka. 917  
 चान्द्रि *m* the planet Mercury 147  
 चाप *m* bow 715  
 चामर *n* chowrie 683  
 चासीकर *n* gold 344  
 चार *m* spy 690  
 चार *a* lovely, charming 855  
 चाचिचप *n* smearing 467  
 चाप *m* kind of bird 190  
 चिकित्सक *m* physician 646  
 चिकित्सित *m* physician 647  
 चिह्न *m* hair 406  
 चिखिल *m* mud 816  
 चि (च) चरीक *m* bee 917  
 चित्त *f* intellect 634  
 चित्त *n* mind 402  
 चित्तसमुन्नति *f* pride, arrogance 533  
 चित्र *n* sectarian mark on the fore-  
 head 451  
 चित्र *n* wonder 529  
 चित्रक *m* lion 304  
 चित्रकाय *m* tiger 305  
 चित्रकार *m* painter 781  
 चित्रमानु *m* the sun 122  
 चित्रमानु *m* fire 332  
 चित्रशाला *f* turret 502  
 चिन्तन *n* reflection 550  
 चिन्तन *n* meditation 631  
 चिन्ता *f* anxiety 552  
 चित्तुक *n* the chin 423  
 चिरानन्द *m* Brahman 10  
 चिह्न *m* banner 317  
 चिह्न *n* mask. 812  
 चीर *n* bark 672  
 चीपर *n* garment 468  
 चुन्दी *f* bawd, female messenger 390  
 चूदा *f* hair on the top of the head  
 411  
 चूदामणि *m* crest-jewel 447  
 चूत *m* mango-tree 286  
 चूर्ण *n* fragrant powder 480  
 चेर *m* servant. 693  
 चेठिका *f*. femal servant 389  
 चेनी *f* female servant 389  
 चेतन *m* individual soul 400  
 चेतना *f* intelligence 633  
 चेतसु *n* mind 402  
 चेल *n* garment 469  
 चैत्य *n* temple 652  
 चोच *n* woody cassia ? 490  
 चोटी *f* petty-coat 477  
 चोच *n* wonder, surprize 529  
 चोळ *m* bodice 476  
 चीर *m* thief 792  
 च्युत *p p* dropped, fallen. 892

छ

- छग *m.* goat 330  
 छगल *m.* goat 330  
 छत्र *n.* parasol 682  
 छद्म *m.* leaf 272  
 छद्म *n.* leaf 272  
 छद्म *n.* feather 199  
 छम *m.* fraud trick 537  
 छन्द *m.* intention 527  
 छन्दस् *m.* metrics 649  
 छन्न *n.* secret 542  
 छन्न *p p.* concealed hidden 885  
 छल *n.* deceit, fraud 537  
 छल *n.* pretext pretence 538  
 छवि *f.* light, lustre 142  
 छवि *f.* beauty, splendour 493  
 छाग *m.* goat 330  
 छागवाहन *m.* fire 336  
 छात्र *m.* pupil 598  
 छादित *p p.* concealed, hidden 885  
 छाया *f.* beauty splendour 493  
 छायासुत *m.* the planet Saturn 150  
 छित *p p.* cut 894  
 छिद्र *n.* hole 846  
 छिद्रित *p p.* pierced bored 895  
 छिन्न *p p.* cut, divided 894  
 छुरिका *f.* knife 722  
 छेक *m.* citizen 593  
 छेदित *p p.* cut, divided 894

ज

- जगद्यजु *m.* the sun 125  
 जगत् *m.* world 207  
 जगती *f.* the earth 213  
 जगत्प्राण *m.* wind 203  
 जगन्नाथ *m.* the supreme being 12  
 जघन *n.* the pundenda 440  
 जघन्य *a.* last 860  
 जह्वाल *n.* flesh 787  
 जठर *n.* the belly 435  
 जह *a.* cold 144  
 जह *a.* fool 594  
 जनगम *m.* Cāṇḍāla 797  
 जनक *m.* father 378  
 जनतालय *m.* pavilion 499

- जनन *n.* family, race 388  
 जनन *n.* birth, origin 801  
 जननी *f.* mother 379  
 जनपद *m.* country 732  
 जनयितृ *m.* father 378  
 जनयित्री *f.* mother 379  
 जनार्दन *m.* N of Viṣṇu 23  
 जनि *f.* birth 801  
 जनी *f.* wife 375  
 जन्तु *m.* the individual soul 400  
 जन्मन् *n.* birth, origin 801  
 जन्य *n.* battle 723  
 जन्तु *m.* individual soul 401  
 जप *m.* muttered prayer 639  
 जवा *f.* the china rose 284  
 जम्बुक *m.* jackal 328  
 जम्बू *f.* N of an island 909  
 जम्भाराति *m.* epithet of Indra 80  
 जयन्त *m.* N of Indra's son 89  
 जरा *f.* old age 804  
 जराभीर *m.* god of love 63  
 जरीयस् *m.* old man 804  
 जल *n.* water 219  
 जलन *n.* lotus 256  
 जलनीव *m.* water animal 248  
 जलद *m.* cloud 173  
 जलधर *m.* cloud 174  
 जलधिगा *f.* river 230  
 जलनिधि *m.* sea, ocean 225  
 जलपति *m.* N of Varuna 108  
 जलमुषमुद्ग *m.* peacock 180  
 जलमुष् *m.* cloud 173  
 जलशाधिन् *m.* N of Viṣṇu 30  
 जलाशय *m.* pond, tank 250  
 जलित *p p.* spoken 887  
 जव *m.* speed 874  
 जाह्वाल *n.* flesh 787  
 जात *n.* collection 835  
 जानकर *n.* gold 345  
 जातवेद् *m.* fire 333  
 जार्वा *f.* jasmine 234  
 जानुपान *m.* demon 115  
 जानकी *f.* N of Śītā 741  
 जानि *f.* wife 375  
 जानु *m.* the knee 444

जाप *m.* muttered prayer. 639  
जाप्य *n.* a prayer to be muttered in low voice. 639  
जामि *f.* sister. 387  
जाम्बूनद *n.* gold. 346  
जाया *f.* wife. 375  
जारु *m.* collection, mass. 834  
जारुक *m.* window. 504  
जालिक *m.* bird-catcher. 793  
जालिका *f.* chain-armour. 713  
जालन *m.* fool. 594  
जाह्नवी *f.* N. of the Ganges. 231  
जिनेश्वर *m.* Supreme Lord. 11  
जिन *m.* Lord. 12  
जिन *m.* epithet of Buddha. 14  
जिष्णु *m.* epithet of Indra. 81  
जिष्णु *m.* N. of Arjuna. 746  
जिह्वा *m.* serpent. 291  
जिह्वा *f.* the tongue. 726  
जीमूत *m.* cloud. 175  
जीवंजीव *m.* the bird cakora. 186  
जीव *m.* the planet Jupiter. 147  
जीव *m.* individual soul. 400  
जीव *m.* agriculturist. 773  
जीवन *n.* water. 220  
जीवन *n.* livelihood. 754  
जीवा *f.* bow-string. 716  
जीवान्तक *m.* bird-catcher. 795  
जीविका *f.* livelihood. 754  
जीवित *n.* life. 802  
जुगुप्सा *f.* censure, reproach. 615  
जुम्बण *n.* a garland (worn round the neck etc.). 479  
जेमन *n.* eating, food. 769  
जैवाश्रु *n.* the moon. 134  
जेन *m.* N. of a Darśana. 654  
शु *m.* the planet Mercury. 147  
शक्ति *f.* intellect. 633  
ज्ञात *p.p.* known, understood. 889  
ज्ञात *a.* well-known. 807  
ज्ञान *n.* intellect. 634  
ज्ञानिन् *m.* astrologer. 644  
श्या *f.* the earth. 213  
श्या *f.* bow-string. 716  
ज्योति *f.* star. 140

ज्योति *m.* fire. 339  
ज्योति *f.* lamp. 505  
ज्योतिषिक *m.* astrologer. 645  
ज्योतिर्विद *m.* astrologer. 645  
ज्योतिस् *n.* ray. 141  
ज्योतिस् *m.* Jyotiṣ (a vedāṅga). 649  
ज्योतिस्ता *f.* moon-light. 138  
ज्वलन *m.* fire. 331  
ज्वाला *f.* flame. 897  
ज्वालाजिह्व *m.* fire. 340

## झ

झरुरी *f.* kind of drum. 501  
झप *m.* fish. 243

## ड

दिम्भ *m.* child. 382

## ढ

ढका *f.* large drum. 580  
ढकनिका *f.* present. 608

## त

तक *n.* butter-milk. 764  
तक्षण *n.* disrespect. 617  
तक्षन् *m.* carpenter. 779  
तट *n.* bank. 238  
तटिनी *f.* river. 227  
तडाग *m.* lake. 251  
तद्वि *f.* lightning. 176  
तद्विषय *m.* cloud. 172  
तत *n.* stringed musical instrument. 576  
तति *f.* row, line. 837  
तरव *n.* truth. 635  
तथागत *m.* epithet of Buddha. 173  
तप्य *n.* truth. 627  
तनय *m.* son. 380  
तनु *f.* body. 396  
तनु *a.* small, little. 841  
तनुत्र *n.* armour. 711  
तन् *f.* body. 396  
तन्त्रपात् *m.* fire. 337  
तन्त्रद *n.* wing. 199  
तन्त्रद *n.* hair on the body. 412

- तन्तुल *n* lotus fibre 265  
 तन्तुवाय *m* tailor 781  
 तन्तुवाय *m* weaver 782  
 तन्दुल *m* rice 752  
 तन्द्रा *f* sleepishness 541  
 तन्वी *f* woman 367  
 तपन *m* the sun 122  
 तपनीय *n* gold 346  
 तपस् *n* penance 629  
 तपस्या *f* penance 629  
 तपस्विन् *m* ascetic 600  
 तम *m* N of the planet Rahu 151  
 तमस् *n* darkness 160  
 तमालपत्र *n* mark on the forehead 451  
 तमिस्र *n* darkness 161  
 तम्बा *f* cow 323  
 तम्बा *f* cow 323  
 तर *m* speed 874  
 तरङ्ग *m* wave 235  
 तरङ्गिणी *f* river 227  
 तरणि *m* the sun 122  
 तरणि *f* boat 240  
 तरण्ड *m* raft 241  
 तरल *m* central gem of a necklace 458  
 तरल *a* unsteady 868  
 तरवारि *f* sword 723  
 तरस् *n* vigour 699  
 तरी *f* boat 240  
 तरु *m* tree 281  
 तरुण *m* a youth 803  
 तर्कुक *m* suppliant 622  
 तर्जन *n* radicle 557  
 तप *m* desire 532  
 तल्य *m* bed 308  
 तविष *m* heaven 76  
 तस्कर *m* thief 792  
 तारङ्ग *m* ornament for the ear 453  
 तारङ्गत्र *n* ornament for the ear 453  
 तारण्ड *n* dancing (in general) 567  
 ताल *m* father 378  
 तान *m* a musical term 574  
 तापन *m* N of one of the five arrows  
 of cupid 64  
 तापस *m* ascetic 666  
 सामरस *n* lotus 254  
 तामस *n* darkness 161  
 ताम्बूल *n* tambula 455  
 ताम्र *a* red 822  
 ताम्रचूड *m* cock 187  
 ताम्राक्षी *f* cuckoo 182  
 तार *n* silver 348  
 तार *a* high (as a note) 572  
 तारका *f* pupil of the eye 419  
 तारकारि *m* N of Karttikeya 68  
 तारा *f* star 140  
 तारुण्य *n* youth 803  
 तारुण्य *m* N of Garuda 193  
 ताल *m* beating time (in music) 572  
 तालद्वन्द्वक *n* fan 492  
 ताविष *m* heaven 76  
 तिक्त *a* pungent 821  
 तिग्म *a* hot 145  
 तितिक्षा *f* forbearance 629  
 तिमिलिक *m* fish 245  
 तिमि *m* fish 244  
 तिमिर *n* darkness 160  
 तिमिरारि *m* the sun 131  
 तिरस्कारि *f* disrespect 616  
 तिरोहित *p p* concealed hidden 885  
 तिलक *n* mark on the fore head 451  
 तिलोत्तमा *f* N of an apsaras 95  
 तीक्ष्ण *a* hot 145  
 तीक्ष्ण *m* poison 297  
 तीक्ष्ण *a* pungent 821  
 तीक्ष्ण *a* sharp 900  
 नाङ्गाशु *m* the sun 128  
 तीर *n* bank 238  
 तीर्थकर *m* the supreme lord 12  
 तीर्थयाक *m* hair 407  
 तीव्र *a* hot 145  
 तीव्र *a* dreadful 851  
 तीव्र *a* excessive 875  
 शुभ्र *a* high, lofty 845  
 सुव्र *m f* offspring 385  
 सुबल *a* little 840  
 सुण्ड *n* the mouth 414  
 सुद *n* the belly 435  
 सुन्दहृषिका *f* cavity of the navel 436  
 सुरग *m* elephant 310  
 सुरङ्ग *m* horse 310

सुरद्वगम *m* horse 310  
 सुरापद *m* N of Indra 85  
 सुरक *m* pl N of a people, the  
 Turks 737  
 सुल *f*, comparison 864  
 सुलकानि *f* anklet 464  
 सुवर *a* astringent, 819  
 सुषार *a* cold 144  
 सुष्टि *f* satisfaction 522  
 सुण *m* quiver 717  
 सुणीर *m* quiver 717  
 सुर *m* kind of musical instrument 575  
 सुण *a* quick 873  
 सुर्य *n* kind of musical instrument 575  
 सुलिका *f* (cotton) bed 508  
 सुष्णीम् *ind* in silence 550  
 सुट् *f* desire 532  
 सुट् *f* thirst 770  
 सुपा *f* thirst 770  
 सुष्णा *f* desire 531  
 तेजस् *n* light, lustre 142  
 तेजित *a* sharp 900  
 तमन *n* sense, condiment 768  
 तालिक *m* oil man 783  
 तालपर्णिक *n* sandal 289  
 तैलिनू *m* oil man 783  
 तोर *n* offspring 385  
 ताकक *m* cataka bird 179  
 तोय *n* water 219  
 त्याग *a* abandoned 382  
 त्याग *m* gift 620  
 त्रया *f* bral falness 517  
 त्रय *n* triad 829  
 त्रयी *f* triad 829  
 त्रयीतनु *m* the sun 122  
 त्राह *a* protector 808  
 त्रास *m* fear 540  
 त्रिरु *n* back bone 437  
 त्रितय *n* triad 829  
 त्रिद्व *m* god 69  
 त्रिदिव *n* heaven 75  
 त्रिदिव *m* god 72  
 त्रिपगगा *f* the Ganges 232  
 त्रिपुराशक्त *m* N of Siva 45  
 त्रिबामा *f* night 758

त्रिलोचन *m* N of Siva 39  
 त्रिपत्रि *f* three folds or wrinkles of  
 skin above the navel 436  
 त्रिविक्रम *m* N of Viṣṇu 28  
 त्रिविष्टप *n* heaven 75  
 त्रिसोतस् *f* the Ganges 231  
 त्रेडि *f* beak 200  
 त्र्यम्बर *m* N of Siva 38  
 त्र्यसू *n* hide 672  
 त्र्यरित *a* quick 873  
 त्रिविप् *f* light, lustre 142

द

दंश *m* tooth 425  
 दंश *m* armour 711  
 दश *a* skilful 592  
 दक्षिणादिक्पति *m* N of Yama 111  
 दक्षिणा *f* the South 170  
 दग्ध *p p* burnt 897  
 दण्ड *m* lotus stalk 295  
 दण्ड *m* army 703  
 दण्डभृत् *m* N of Yama 112  
 दधि *m* curds 762  
 दधि *m* N of an ocean 911  
 दनुज *m* demon 114  
 दन्त *m* tooth 425  
 दन्तवस्त्र *n* the lip 424  
 दन्तश *a* sour, acid 820  
 दन्तशूक *m* serpent 291  
 दन्तायिल *m* elephant 307  
 दन्तिन् *m* elephant 307  
 दभ *a* little, small 840  
 दमुनस् *m* fire 338  
 दम्पती *m* *du* husband and wife 387  
 दम्भ *m* deceit, cheating 537  
 दया *f* compassion 525  
 दयित *m* husband, lover 371  
 दयिता *f* wife 377  
 दयितापती *m* *du* husband and wife  
 387  
 दर *m* fear 540  
 दरद *m* poison 299  
 दरी *f* cave, valley 673  
 ददुर *m* frog 246  
 दप *m* pride, arrogance 534

दपक *m.* god of love. 60  
 दपण *m.* mirror. 492  
 दर्वाकर *m.* serpent. 292  
 दल *n.* leaf. 272  
 दल *n.* part, piece. 839  
 दलित *n.* full-blown flower 276  
 दव *m.* forest-conflagration 342  
 दशकवर *m.* epithet of Ravana 742  
 दशन *m.* tooth 425  
 दशबल *n.* epithet of Buddha. 14  
 दस्यु *m.* oppressor. 702  
 दस्यु *m.* thief 792  
 दहन *m.* fire 331  
 दाक्षायणी *f.* epithet of Pārvatī 54  
 दाडिम *m.* pomegranate tree 287  
 दान् *a.* munificent 808  
 दान *n.* gift 620  
 दानघ *m.* demon 113  
 दानवारि *m.* god 72  
 दामन् *n.* garland 466  
 दामोदर *m.* N of Visnu 22  
 दार *m.* *pl.* wife 375  
 दारक *m.* son 380  
 दारकर्मन् *n.* marriage 369  
 दारित *p. p.* torn, rent 895  
 दारिद्र *n.* poverty 759  
 दारण *a.* dreadful 851  
 दाल *n.* wine, liquor 786  
 दाव *m.* forest 279  
 दाव *m.* forest-conflagration 342  
 दाशरथि *m.* epithet of Rāma 739  
 दास *m.* servant 693  
 दास *m.* fisherman 793  
 दासी *f.* female-servant 389  
 दागेर *m.* camel 324  
 दिक् *f.* quarter 168  
 दिक्करी *f.* girl 384  
 दिग्ध *p. p.* smeared 878  
 दिग्वासस् *m.* N of Śiva 46  
 दित *p. p.* cut, divided 894  
 दितिसुत *m.* demon 114  
 दिन *n.* day. 156  
 दिन *n.* day, measure of time 162  
 दिनकर *m.* the sun. 131  
 दिनेधर *m.* the sun. 120

दिव *n.* day. 156  
 दिवन् *m.* day. 156  
 दिवस *m.* day. 156  
 दिवस्पति *m.* Indra 80  
 दिवाकर *m.* the sun 125  
 दिवाकीर्ति *m.* barbar. 777  
 दिवाकीर्ति *m.* cāndāla. 797  
 दिविपद् *m.* god. 73  
 दिवीकस् *m.* god 76  
 दिशा *f.* quarter. 168  
 दिष्ट *n.* fate 524  
 दीक्षित *m.* pupil 598  
 दीधिति *f.* ray 140  
 दीप *m.* lamp. 505  
 दीप्ति *f.* light, lustre. 143  
 दीर्घ *a.* long 844  
 दीर्घपृष्ठ *m.* serpent. 293  
 दीर्घिवा *f.* lake. 249  
 दुबूल *n.* fine garment 470  
 दुगुल *n.* fine cloth 470  
 दुगूल *n.* fine cloth. 470  
 दुग्ध *n.* milk 762  
 दुन्दुभि *f.* kettle-drum 580  
 दुरित *m.* sin. 625  
 दुरादर *n.* gambling 790  
 दुर्ग *m.* fort. 735  
 दुर्गा *f.* N of Pārvatī 52  
 दुर्जन *m.* villain 809  
 दुर्वर्ण *n.* silver. 348  
 दुर्हृद् *m.* enemy. 702  
 हुलि *f.* tortoise 247  
 दुश्चयन *m.* Indra. 80  
 हुष्टि *f.* daughter. 381  
 दुःख *m.* sin. 625  
 दुःख *n.* pain. 553  
 दूत *m.* messenger 691  
 दूती *f.* female messenger. 590  
 दूर *a.* distant, remote. 857  
 दुः *a.* excessive. 851  
 दुः *a.* firm 871  
 दुः *a.* proud 851  
 दुः *f.* the eye. 475  
 दुः *f.* stone. 215  
 दुः *f.* the eye. 475  
 देव *m.* god 87

देवकीनन्दन *m* N of Viṣṇu 32  
 देवगृह *n* temple 652  
 देवतर्पण *n* sacrifice 671  
 देवता *f* god 69  
 देवन *m* die 791  
 देवनन्दिन् *m* N of the door keeper of  
 Indra 93  
 देवराज *m* Indra 86  
 देवचलम *m* sandal powder 490  
 देवाधिदेव *m* supreme being 11  
 देवालय *m* temple 652  
 देवी *f* epithet of Parvatī 54  
 देश *m* region country 732  
 देश्य *m* species of horse 312  
 देह *m* body 396  
 देहिन् *m* individual soul 400  
 दैत्य *m* demon 113  
 दैत्यगुर *m* N of the preceptor of the  
 demons 149  
 दैत्यदेव *m* wind 205  
 दैत्यरिपु *m* N of Viṣṇu 22  
 दैत्येन्द्र *m* demon 114  
 दैव *n* fate 524  
 दैवज्ञ *m* astrologer 644  
 दौल *f* swing 315  
 दास्य *m* wise man 590  
 दोषण *m* physician 647  
 दोषा *f* night 159  
 दास् *m n* arm 427  
 दीलय *m* tortoise 247  
 दीवारिक *m* door keeper 689  
 द्युति *f* light lustre 142  
 द्युति *f* beauty, lustre 493  
 द्युमणि *m* the sun 129  
 द्युम्न *n* wealth. 351  
 द्युत *n* gambling 790  
 द्युतकार *m* gambler 789  
 द्यौ *f* heaven 76  
 द्यौ *f* the sky 118  
 द्युग *m* town 733  
 द्युम *m* sport. 515  
 द्युमिण *n* wealth. 351  
 द्युम *n* wealth 351  
 द्यु *m* tree 283  
 द्युमण *m* mace 725

द्युत *n* quick (a time in music) 571  
 द्युम *m* tree 281  
 द्युमिण *m* epithet of Brahman 16  
 द्युष्णी *f* boat 240  
 द्युष्पाद *f* Draupadī 747  
 द्युन्द *n* battle 729  
 द्युन्द्वर *m* bird cakravāka 184  
 द्युय *n* pair 828  
 द्युयवादिन् *m* epithet of Buddha 14  
 द्युयी *f* pair 828  
 द्युयामिन् *m* the sun 123  
 द्युयकेधर *m* N of Viṣṇu 36  
 द्युयपाल *m* door keeper 689  
 द्युय *m* bird 195  
 द्युय *m* tooth 425  
 द्युय *m* brahmin 668  
 द्युयन्मन् *m* brahmin 669  
 द्युयराज *m* the moon 133  
 द्युयति *m* brahmin 668  
 द्युयिद्ध *m* serpent 292  
 द्युयिद्ध *n* slanderer 809  
 द्युयिष्ठा *f* wife 377  
 द्युय *m* elephant 307  
 द्युय *m* elephant 308  
 द्युय *m* bee 266  
 द्युय *m* or द्युयन् enemy 700  
 द्युयवती *f* river 230  
 द्युयिन् *m* tiger 305  
 द्युय *n* pair 829  
 द्युयामु *m* epithet of Gaṇeśa 6

ध

धनेज्ज्व *m* fire 332  
 धनेजय *m* N of Arjuna 745  
 धन *n* wealth 351  
 धनद *m* N of Kubera 101  
 धनाधिप *m* N of Kubera 101  
 धनुस् *n* bow 715  
 धनधर *m* rich person 758  
 धन *n* bow 715  
 धमनी *f* the neck 432  
 धम्मिन् *m* braided hair 409  
 धर *m* mountain 216  
 धरणी *f* the earth 209  
 धरा *f* the earth 209

- धरित्री *f.* the earth 209  
 धर्म *m.* religion 623  
 धर्म *m.* nature, form 907  
 धर्मराज *m.* N of Yama 109  
 धर्मशास्त्र *n.* religious law 651  
 धर्मोत्तमज *m.* epithet of Yudhiṣṭhira 743  
 धव *m.* husband 370  
 धवल *a.* white 823  
 धातृ *m.* N of Brahman 17  
 धात्री *f.* the earth 210  
 धान्य *n.* grain 752  
 धामन् *n.* ray 141  
 धामन् *n.* house 496  
 धामपति *m.* the sun 129  
 धारणा *f.* boundary 559  
 धारणा *f.* meditation 631  
 धाराधर *m.* cloud 174  
 धार्तराष्ट्रक *m.* kind of swan 192  
 धिक् *m.* interjection of censure 557  
 धिपण *m.* epithet of Brhaspati 148  
 धिपणा *f.* intellect 632  
 धिष्य *n.* star 140  
 धिष्य *n.* house 496  
 धी *f.* intellect 632  
 धीमत् *m.* learned man 538  
 धीवर *m.* fisherman 793  
 धुनी *f.* river 227  
 धृत *a.* trembling, shaking 869  
 धूमपयज *m.* fire 340  
 धूमयोनि *m.* cloud 174  
 धूर्जटि *m.* N of Śiva 45  
 धूर्त *m.* wicked person 810  
 धूलि *m. f.* dust 816  
 एति *f.* satisfaction 522  
 एष्ट *f.* disloyal woman 393  
 धेनु *f.* cow 323  
 धैवत *m.* a musical note 570  
 धोरण *n.* vehicle 316  
 धोत *a.* washed, cleaned 862  
 ध्यान *n.* meditation 631  
 ध्रुव *m.* N of Brahman 17  
 ध्रुव *m.* Dhruva 152  
 ध्रुव *a.* permanent, constant 867  
 ध्वज *m.* motion 316  
 ध्वज *m.* flag 317  
 ध्वजिनी *f.* an army 704  
 ध्वनि *m.* sound 640  
 ध्वान *n.* sound 640  
 ध्वान्त *n.* darkness 160  
 ध्वान्तरारति *m.* the sun 130  
 न  
 ननक *m.* ragged cloth 474  
 नक *m.* crocodile 248  
 नम *n.* nose 417  
 नक्षत्र *n.* star 139  
 नक्षत्रेश *m.* the moon 134  
 नख *m.* finger nail 430  
 नखर *m.* finger nail 430  
 नखरायुध *m.* lion 303  
 नग *m.* mountain 215  
 नग *m.* tree 283  
 नगर *n.* town 733  
 नगरी *f.* town 733  
 नगीवस् *m.* bird 197  
 ननि *f.* bow 601  
 नदी *f.* river 227  
 नदीधर *m.* sea, ocean 226  
 नद्ध *p. p.* tied, fastened 896  
 नन्दन *n.* Indra's garden 91  
 नन्दन *m.* son 380  
 नन्दनन्दन *m.* N of Viṣṇu 35  
 नभस् *m.* sky 117  
 नभस्वत् *m.* wind 203  
 नभोमणि *m.* the sun 129  
 नभोमनुप *m.* bird cātaka 179  
 नभार् *m.* cloud 175  
 नमस्कार *m.* bow 602  
 नमस्त्रिया *f.* obeisance 603  
 नमस्या *f.* obeisance 603  
 नमुषिन्द्र *m.* N of Indra 84  
 नयन *n.* the eye 418  
 नर *m.* man 360  
 नरकान्तदृष्ट *m.* N of Viṣṇu 32  
 नरदेव *m.* king 676  
 नरवाहन *m.* N of Kubera 104  
 नरेन्द्र *m.* king 678  
 नरेश्वर *m.* king 677  
 नर्तन *n.* dance 567  
 नर्मन् *n.* sport 515



- मलिन *m* lotus 255  
 मलिनी *f* lotus plant 260  
 मयनाति *m* butter 763  
 माक *m* heaven 70  
 माकुनायक *m* N of Indra 81  
 माकिर *m* god 70  
 नाग *m* serpent 254  
 नाव *m* elephant 308  
 नागरिक *m* citizen 593  
 नागलाक *m* patāla 268  
 नागी *f* N of a quarter 171  
 नाटक *n* dance (v) 567  
 नाटिका *f* dance (2) 567 n  
 नाट्य *n* dancing 561  
 नाथ *m* husband 370  
 नाथ *m* lord 680  
 नाद *m* sound (in general) 566  
 नाद *m* sound, 640  
 नापिन *m* barber 777  
 नाभि *f* navel 436  
 नाभिभू *m* N of Brahman 18  
 नामधेय *n* name 618  
 नामन् *n* name 618  
 नायक *m* husband 373  
 नायक *m* central gem of a necklace 458  
 नायक *m* lord 681  
 नारद *m* son of Brahman 20  
 नारद *m* N of a of divine sage 94  
 नाराय *m* arrow 720  
 नारायण *m* N of Vishnu 22  
 नारी *f* woman 362  
 नार *n* lotus-stalk 265  
 नार्यक *n* lotus 258  
 नायिक *m* helmsman 242  
 नासा *f* nose 417  
 नासाप्रपुष्प *n* nose-ornament 454  
 नासिका *f* nose 417  
 निकट *a* near 865  
 निहर *m* collection, multitude 831  
 निहास *m* heap multitude 836  
 निहङ्ग *m* tower 220  
 निहङ्ग *n* collection multitude 833  
 निर्जन *n* house 496  
 निर्गम *a* all whole 839  
 निगद *m* chain 813  
 निगदित *a* bound, tied 896  
 निगम *m* road 318  
 निगम *m* town, city 734  
 निगरण *m* the throat 426  
 निघय *m* heap, multitude 836  
 निधि *a* covered 878  
 नितम्ब *m* buttocks, a woman's waist  
 440  
 नितम्बिनी *f* woman 363  
 नित्य *a* permanent, constant 867  
 निदान *n* cause 643  
 निद्रा *f* sleep 541  
 निद्राण *n* closed flower 277  
 निघात *m* N of Kubera 104  
 निगुवन *m* sexual enjoyment 514  
 निनाद *m* sound 641  
 निनाद *m* sound 641  
 निन्दा *f* reproach censure 615  
 निपान *n* tank 250  
 निपुण *m* clever man 592  
 निविड *a* thick, dense 871  
 निभ *n* pretext, pretence 538  
 निमित्तविद् *m* astrologer 644  
 निम्न *a* low 845  
 निगमा *f* river 227  
 नियति *f* fate 524  
 नियन्तु *m* charioteer 710  
 नियम *m* penance 629  
 नियमपालन *n* vow 630  
 नियोग *m* order 609  
 निराशर *a* fool 595  
 निराशन *m* Brahman 10  
 निरायक *a* vain, useless 556  
 निरस्त *p* p thrown 891  
 निरुक्ति *f* the Nirukta or science of  
 etymology 649  
 निर्दम्प *m* saint 601  
 निरपौर *m* sound 640  
 निर्गुर *m* god 69  
 निरगिना *f* river 229  
 निर्णय *m* determination 903  
 निरिक्त *a* washed cleaned 867  
 निरिक्त *m* washerman 782  
 निर्देश *m* order, command 609  
 निर्धन *a* poor 759

निडुंबि *a* fool 595  
 निर्भर *a* excessive 875  
 निर्मल *a* clear 862  
 निर्माण *n* creation 908  
 निर्मित *a* created 831  
 निर्धामक *m* helmsman 242  
 निर्वाण *n* final emancipation 656  
 निर्वाद *m* blame reproach 615  
 निर्वृत *a* accomplished 881  
 निर्वृति *f* satisfaction 522  
 निह्राद *m* sound 641  
 निलय *m* house 495  
 निलिम्प *m* god 70  
 निलिम्पिका *f* cow 323  
 निवसन *n* under garment 478  
 निवह *m* collection 830  
 निवास *m* house 496  
 निवेश *m* town 733  
 निशा *f* night 158  
 निशाकर *m* the moon 134  
 निशानाथ *m* the moon 135  
 निशान्त *n* house 497  
 निशाचेदिन् *m* cock 188  
 निशित *a* sharp 900  
 निशीथिनी *f* night 159  
 निश्रय *m* truth 635  
 निश्रय *m* determination 903  
 निपज्ञ *m* quiver 717  
 निपथ *m* a musical note 570  
 निषाद् *m* sandals 797  
 निषादिन् *m* elephant driver 709  
 निष्ठुर *a* harsh 850  
 निष्णात *a* clever 592  
 निष्पन्न *a* accomplished 881  
 निसर्ग *m* nature 528  
 निस्तल *n* circle 901  
 निश्चिन् *m* sword 723  
 निस्वन *n* sound 640  
 निकु *n* pleasure garden 279  
 निफल *a* useless 556  
 निधेयस *n* final emancipation 656  
 निह्व *a* poor 759  
 नीच *m* low man 799  
 नीच *m* wicked person 810  
 नीच *a*, low 845

नीडनिलय *m* bird 198  
 नीर *n* water 219  
 नीरजिनी *f* lotus plant 261  
 नीरघ्न *a* dense, thick 871  
 नीरन् *a* dry 99  
 नील *n* sapphire 350  
 नील *m* kind of bird 190  
 नील *m* one of the nine treasures of  
 Kubera 357  
 नीलकण्ठ *m* N of Siva 44  
 नीलकण्ठ *m* peacock 180  
 नीललोहित *m* N of Siva 44  
 नीलोपल *n* lotus 263  
 नीवी *f* knot of an under garment 479  
 नीवी *f* capital, principal 755  
 नाचूत् *m* country 732  
 नुति *f* praise 6 2  
 नुत् *a* dispelled 891  
 नूत (?) 236  
 नूपुर *n* anklet 464  
 नृ *m* man 351  
 नृत्य *n* dance 565, 567  
 नृप *m* king 675  
 नृपति *m* king 675  
 नृपस्त्री *f* queen 686  
 नृपासन *n* royal throne 683  
 नेतृ *m* lord 681  
 नेत्र *n* the eye 418  
 नेत्ररामन् *n* eye lash 422  
 नेत्राम्बु *n* tear 547  
 नेपथ्य *n* dress 471  
 नेगस *m* merchant 749  
 नैयायिक *m* nैयायika 655  
 नेकैत *m* demon 115  
 नैर्कैति *f* south west 170  
 नौ *f* boat 240  
 नाका *f* boat 240  
 न्यक् *low* 845

प

पद्माम्बु *n* sweet meat 766  
 पक्षति *f* root of a wing 200  
 पक्षस् *n* feather 199  
 पक्षिन् *m* bird 195  
 पक्षिरान् *m* N of Garuda 494

- पक्ष्मन् *n.* eye-lash. 422  
 पक्ष *n.* sin. 625  
 पक्क *m.* mud. 816  
 पद्म *n.* lotus. 258  
 पद्मजिनी *f.* lotus-plant. 261  
 पद्मेरु *n.* lotus. 257  
 पद्मि *f.* line, row. 837  
 पद्मजन *m.* man. 361  
 पद्म *m.* a musical note. 569  
 पद्मेश *m.* god of love. 57  
 पद्मशाल *m.* hand. 428  
 पद्मानन *m.* lion. 304  
 पट *m.* garment. 469  
 पटल *m.* heap, multitude. 834  
 पटवासक *m.* perfumed powder. 480  
 पटु *n.* hot. 145  
 पटु *m.* learned man. 591  
 पटोत्तम *n.* very fine cloth 470  
 पटुकूल *n.* very fine cloth 470  
 पट्टराज्ञी *f.* chief queen. 687  
 पठ *m.* study. 638  
 पठन *n.* study. 638  
 पण *m.* gambling. 790  
 पणालना *f.* harlot. 390  
 पण्डा *f.* intellect. 633  
 पण्डित *m.* learned man. 588  
 पण्य *n.* commodity. 753  
 पण्यक्षी *f.* harlot, courtesan. 391  
 पण्यजीव *m.* merchant. 750  
 पतंग *m.* the sun. 121  
 पतंग *m.* bird. 197  
 पतव *m.* bird. 196  
 पतप्र *n.* wing. 199  
 पतत्रिन् *m.* bird. 196  
 पताका *f.* banner. 317  
 पताकिनी *f.* army. 705  
 पति *m.* husband. 370  
 पति *m.* lord. 680  
 पतित *p.p.* fallen. 892  
 पतिव्रता *f.* chaste and virtuous wife. 389  
 पत्तन *n.* town, city. 734  
 पति *m.* foot-soldier. 694  
 पत्नी *f.* wife. 374  
 पत्र *n.* wing. 199  
 पत्र *n.* leaf. 272  
 पत्र *n.* vehicle. 316  
 पत्र *n.* letter. 561  
 पत्रभङ्गी *f.* mark on the forehead. 452  
 पत्ररथ *m.* bird. 197  
 पत्ररुता *f.* mark on the forehead 452  
 पत्रलेखा *f.* mark on the forehead 452  
 पत्रिका *f.* letter. 561  
 पत्रिन् *m.* bird. 196  
 पत्रिन् *m.* arrow. 718  
 पत्रिक *m.* traveller. 691  
 पत्रिन् *m.* road. 318  
 पथ्या *f.* road, way. 319  
 पद् *m.* foot. 445  
 पदाग *m.* foot-soldier. 694  
 पद्वी *f.* road. 318  
 पदाति *m.* foot-soldier. 694  
 पदातिक *m.* foot-soldier. 694  
 पदति *f.* road, 318  
 पद्म *n.* lotus. 253  
 पद्म *n.* one of the nine treasures (of Kubera). 356  
 पद्मनाम *m.* N. of Viṣṇu. 25  
 पद्मनाभादियोनि *m.* N. of brahman. 19  
 पद्मवन्धु *m.* the sun. 130  
 पद्मा *f.* N. of Lakṣmī. 49  
 पद्मकर *m.* lake. 252  
 पद्मिनी *f.* lotus plant. 260  
 पद्मिनीपति *m.* the sun. 129  
 पद्मग *m.* serpent. 290  
 पयस् *n.* water. 220  
 पयस् *n.* milk. 762  
 पयोधर *m.* female breast. 434  
 परंगपोतिस् *m.* brahman. 9  
 पर *m.* enemy. 700  
 पर *a.* best. 858  
 पर *a.* distant, remote. 867  
 परपुष्टा *f.* cuckoo. 182  
 परमहन् *n.* Brahman. 9  
 परभृता *f.* cuckoo. 182  
 परम *m.* Brahman. 10  
 परमात्मन् *m.* Brahman. 9  
 परमात्र *n.* rice boiled in milk. 765  
 परमार्थ *m.* truth. 635  
 परमेश्वर *m.* Brahman. 10  
 परमेशिन् *m.* N. of Brahman. 16

- परम्परा *f* tradition 611  
 परशु *m* axe 726  
 परशुध *m* axe 726  
 पराक्रम *m* valour 698  
 पराग *n* pollen of a flower 271  
 परापर्य *a* best excellent 858  
 परिकर *m* retinue 688  
 परिकरमैत्रु *n* decoration 491  
 परिमह *m* wife 375  
 परिचर्या *f* worship, attendance 604  
 परिच्छद *m* retinue 688  
 परिणय *m* marriage 368  
 परिदेवन *n* cry, bewailment 546  
 परिधान *n* under garment 473  
 परिपण *m* capital, principal 755  
 परिपन्थिन् *m* enemy, 702  
 परिवहं *m* retinue 688  
 परिभय *m* disrespect 616  
 परिभाषण *n* reproof 558  
 परिमल *m* perfume, fragrance 482  
 परिरक्षिन् *m* ascetic 666  
 परिरम्भ *m* embrace 512  
 परिवापन *n* shaving 778  
 परिवार *m* retinue 688  
 परिपुत्र *m* lord 680  
 परिम्राज् *m* ascetic 666  
 परिम्राजक *m* ascetic 666  
 परिपत्त *f* assembly 684  
 परिप्वह *m* embrace 511  
 परीत *a* encompassed 878  
 परेताराज् *m* N of Yama 109  
 पजन्य *m* cloud 175  
 पर्ण *n* leaf 272  
 पर्यङ्ग *m* bedstead 507  
 पर्यन्त *m* edge, limit 902  
 पर्वत *m* mountain 215  
 पवन् *n* festival 653  
 पशु *m* axe 726  
 पशुपाणि *m* N of Gapeśa 5  
 पषद् *f* assembly 685  
 पल *n* measure of time 162  
 पल *n* flesh 787  
 पलाद *m* demon 116  
 पलाद *m* leaf 272  
 पलाश *a* green 825  
 पलाशिन् *m* tree 782  
 पश्यङ्ग *m* bedstead 507  
 पशुध *m* leaf 273  
 पल्लव *n* lake 252  
 पवनाशन *m* serpent 292  
 पवन *m* wind 203  
 पवमान *m* wind 204  
 पवित्र *a* pure, sacred 861  
 पवित्रा *f* the Ganges 233  
 पशु *m* goat 330  
 पशुपति *m* N of Śiva 41  
 पश्चात्ताप *m* repentance 551  
 पश्चिम *a* last 860  
 पश्चिमदिव्यपति *m* epithet of Varuna 108  
 पश्चिम *f* the west 170  
 पश्चिमाञ्जल *n* garment 473  
 पाशु (सु) *f* dust 816  
 पाशुला *f* unchaste woman 392  
 पाक *m* child 382  
 पाकशासन *m* epithet of Indra 77  
 पाचन *a* sour 820  
 पाञ्चाली *f* N of Draupadi 747  
 पाटचर *m* thief 792  
 पाटल *a* red 822  
 पाटित *p p* broken, torn 895  
 पाठ *m* study 638  
 पाठक *m* teacher 596  
 पाटनि *m* fish 245  
 पाणि *m* hand 428  
 पाणिगृहीता *f* wife 376  
 पाणिग्रहण *n* marriage 369  
 पाणिपादन *n* marriage 368  
 पाण्डु *a* white 824  
 पाण्डुर *a* white 824  
 पातक *n* sin 624  
 पात्र *n* pot, vessel 753  
 पाथ *m* water 220  
 पाद *m* ray 141  
 पाद *m* foot 445  
 पादकटक *n* anklet 464  
 पादप *m* tree 281  
 पादुका *f* shoe 796  
 पाद् *f* shoe 796  
 पादुकृत *m* shoe-maker 796  
 पानीय *n* water 219

- पान्थ *m* traveller 691  
 पाप *n* sin 624  
 पाप *m* wicked person 810  
 पाप्मन् *m* sin 624  
 पामर *m* low man 799  
 पायस *n* rice boiled in milk 765  
 पायु *m* anus 443  
 पारसीक *m* *pl* Persians 737  
 पारावार *m* sea, ocean 225  
 पाराशरिन् *n* religious mendicant 667  
 पारिजात *m* *N* of a heavenly tree 97  
 पारियात्रि (त्र)क *m* *N* of a mountain 914  
 पारिन्द्र *m* lion 302  
 पार्य *m* *N* of Arjuna 745  
 पार्थिव *m* king 675  
 पावती *f* *N* of Parvati 51  
 पावतीमुत *m* epithet of Karttikeya 65  
 पाथे *a* near 865  
 पालाश *a* green 825  
 पावक *m* fire 335  
 पाशक *m* die 791  
 पाशभृत् *m* epithet of Varuna 107  
 पाशिन् *m* epithet of Varuna 108  
 पाश्राय *a* last 860  
 पापण्डित् *m* impostor 667  
 पापाण *m* stone 815  
 पिकी *f* cuckoo 182  
 पिचण्ड *m* the belly 435  
 पिण्ड *n* the body 398  
 पिण्डिका *f* the calf of the leg 444  
 पितामह *m* epithet of Brahma 15  
 पितृ *m* father 878  
 पितृपति *m* *N* of Yama 111  
 पिनाकिन् *m* *N* of Siva 42  
 विपासा *f* thirst 770  
 पिशाच *m* goblin 180  
 पिहित *n* flesh 787  
 विधुन *m* villain, slanderer 809  
 विद्यत (प) *m* perfumed powder 480  
 विहित *p p* covered, concealed 885  
 पीठ *n* seat 506  
 पीडा *f* agony, pain 553  
 पीत *a* yellow 825  
 पीताम्बर *m* *N* of Vishnu 25  
 पीयूष *n* nectar 87  
 पीलु *m* elephant 309  
 पुंश्ली *f* harlot, unchaste woman 393  
 पुश्चिह्न *n* the penis 442  
 पुंगव *a* best, excellent 858  
 पुञ्ज *m* heap, multitude 835  
 पुटभेदन *n* town, city 734  
 पुण्डरीक *n* lotus 259  
 पुण्डरीक *m* lion 304  
 पुण्डरीकाक्ष *m* *N* of Vishnu 24  
 पुण्ड्र *n* a sectarian mark on the forehead 451  
 पुण्य *n* religion 623  
 पुण्यजन *m* demon 116  
 पुण्यजनेश्वर *m* *N* of Kubera 103  
 पुत्र *m* son, 380  
 पुत्री *f* daughter 381  
 पुहृत् *n* the body 398  
 पुनर्भव *m* finger nail 431  
 पुनर्भव *m* final beatitude 657  
 पुनर्भोविन् *m* the individual soul 401  
 पुमान् *m* man 361  
 पुरदर *m* *N* of Indra 77  
 पुर *m* the body 389  
 पुर *n* town 733  
 पुरद्वार *n* city gate 736  
 पुरम्भा *f* woman 367  
 पुरभिद् *m* *N* of Siva 44  
 पुराण *n* the purana 651  
 पुराणपुर *m* *N* of Vishnu 30  
 पुरी *f* town 733  
 पुरुष *m* man 361  
 पुरुष *m* the individual soul 401  
 पुरुषोत्तम *m* *N* of Vishnu 24  
 पुरहूत *m* epithet of Indra 79  
 पुरोगामिन् *m* foot-soldier 694  
 पुष्क *m* thrill, bristling of hairs 548  
 पुलिन *n* sandy beach 238  
 पुलिन्द *m* man of a Bhil tribe 800  
 पुलोमा *f* *N* of Indra's wife 87  
 पुलोमारि *m* *N* of Indra 85  
 पुष्कर *n* the sky 118  
 पुष्कर *n* water 221  
 पुष्पर *n* lotus 253  
 पुष्कर *m* kind of drum 579

- पुष्कर *m n* one of the seven *dilpas*  
 910  
 पुष्करिणी *f* pool, pond 250  
 पुष्कल *a* much 842  
 पुष्प *n* flower 270  
 पुष्पधन्वन् *m* God of love 59  
 पुष्पतरुन् *m* pollen 271  
 पुष्परास *m* flower juice honey 271  
 पुष्पलि *m* bee 268  
 पुष्पेयु *m* god of love 62  
 पुस्तक *n* book 637  
 पूग *m* heap multitude 834  
 पूजा *f* worship 606  
 पूज्य *a* venerable 805  
 पूत *a* pure sacred 861  
 पूष *m* kind of bread 768  
 पूषा *f* kind of bread 768  
 पूर *f* town 733  
 पूरित *a* complete filled 876  
 पूरुष *m* man 361  
 पूर्य *a* complete, filled 876  
 पूर्यता *f* boundry 559  
 पूर्य *a* first 859  
 पूषदेव *m* demon 114  
 पूषा *f* the East 170  
 पूषन् *m* the sun 121  
 पूच्छा *f* inquiry 564  
 पूतना *f* army 704  
 पूथग्जन *m* low man 799  
 पूथिवी *f* the earth 214  
 पूथिवासुता *f* N of Sita 741  
 पूथु *a* large, great 849  
 पूथुक *m* child 383  
 पूथुरोमन् *m* fish 243  
 पूथ्वी *f* the earth 209  
 पूदाक *m* serpent 293  
 पूषाक *m* arrow 719  
 पूषदध *m* wind 204  
 पूथु *n* the back bone 437  
 पूष्णि *f* ray 142  
 पूषक *a* charming beautiful 854  
 पूषत *m* boat 239  
 पूषत *m* child 382  
 पूषतवाहक *m* steersman, helmsman 242  
 पूषिका *f* kind of bread 768  
 पूरस्य *a* first 859  
 पूरय *n* valour 698  
 पूरिलस्य *m* epithet of Kubera 102  
 पूरिलस्य *m* an epithet of Ravana 742  
 प्रक *a* manifest 872  
 प्रकम्पन *m* wind 204  
 प्रकर *m* collection, multitude 831  
 प्रकाश *a* clear manifest 872  
 प्रकृति *f* nature 528  
 प्रकृष्ट *a* chief, excellent 858  
 प्रगुण *a* straight 848  
 प्रचुर *a* much 842  
 प्रचेतस् *m* N of Varuna 107  
 प्रच्छादन *n* upper garment 473  
 प्रजा *f* offspring progeny 335  
 प्रजापति *m* epithet of Brahma 15  
 प्रजापति *m* king 676  
 प्रज्ञा *f* intellect 632  
 प्रज्वलित *pp* burnt kindled 897  
 प्रणति *f* bow 602  
 प्रण (गि)धि *m* spy 690  
 प्रणयिन् *m* husband 372  
 प्रणाम *m* bow 602  
 प्रणिपात *m* salutation 603  
 प्रणिधान *n* meditation 631  
 प्रतानिनी *f* creeper 269  
 प्रतिदूल *a* unfavourable, adverse 888  
 प्रतिक्षिप्त *p p* thrown 891  
 प्रतिष *m* anger 535  
 प्रतिपद *f* the fore part of the leg 444  
 प्रतिष्ठा *f* oath 610  
 प्रतिशाल *a* admitted 883  
 प्रतिश्रवान *n* echo 642  
 प्रतिवाद *m* echo 642  
 प्रतिपादन *n* giving gift 621  
 प्रतिना *f* intellect 633  
 प्रतिमा *f* image 653  
 प्रतिवाक्य *n* reply 564  
 प्रतिशब्द *m* echo 642  
 प्रतिश्रुत *a* agreed promised 883  
 प्रतिश्रुति *f* echo 642  
 प्रतिश्रुत *a* despatched 884  
 प्रसक्त *a* well known 807  
 प्रतीति *f* belief 904  
 प्रतीप *a* unfavourable, adverse 888

- प्रतीहार *m* door-keeper 639  
 प्रतीली *f* street 736  
 प्रत्यञ्जा *f* bow-string 716  
 प्रत्यनीक *m* enemy 702  
 प्रत्यय *m* conviction, belief 904  
 प्रत्यधिन् *m* enemy 701  
 प्रत्यभस्याह *m* enemy 701  
 प्रत्यादिष्ट *p p* thrown 891  
 प्रयूप *m* day break, dawn 157  
 प्रयुह *m* obstacle 814  
 प्रथम *a* first 859  
 प्रथित *a* well-known 807  
 प्रदीप *m* lamp 505  
 प्रदीपन *m* kind of poison 298  
 प्रहसन् *m* god of love 61  
 प्रद्योतन *m* the sun 125  
 प्रघन *n* battle 727  
 प्रधान *a* chief 857  
 प्रकुल *n* full blown flower 276  
 प्रबल *a* very great 843  
 प्रबुद्ध *n* full-blown flower 274  
 प्रमञ्जन *m* wind 202  
 प्रभा *f* light, lustre 142  
 प्रभाकर *m* the sun 124  
 प्रभात *n* dawn 157  
 प्रभातज्ञ *m* cock 188  
 प्रभु *m* the lord 12, 680  
 प्रमयाधिप *m* N of Śiva 40  
 प्रमदा *f* woman 366  
 प्रमीला *f* sleepishness 541  
 प्रमोद *m* joy 619  
 प्रयास *m* effort, exertion 555  
 प्रयोगन *n* use 643  
 प्रलय *a* long 844  
 प्रलय *m* universal destruction 167  
 प्रवचन *n* exposition 637  
 प्रवर *a* chief 857  
 प्रवाल *m* new leaf, sprout 273  
 प्रवाल *m* N of an animal 916  
 प्रवाह *m* current 237  
 प्रवीण *m* wise man 591  
 प्रवृत्ति *f* news, tidings 560  
 प्रशंसा *f* praise, 612  
 प्रशस्त *a* laudable 856  
 प्रश्न *m* inquiry 564  
 प्रभविद् *m* astrologer 645  
 प्रष्टान *m pl* N of a people (?) 738  
 प्रसाक्ति *f* favour 526  
 प्रसन्नता *f* favour 526  
 प्रसर *m* increasing 905  
 प्रसाद *m* favour 526  
 प्रसादन *n* pleasing 562  
 प्रसादना *f* service devotion 604  
 प्रसाधन *n* decoration 491  
 प्रसूति *f* offspring 385  
 प्रसून *n* flower 270  
 प्रस्कन्त *p p* fallen, degraded 892  
 प्रस्तर *m* stone 815  
 प्रस्ताव *m* time 543  
 प्रस्थापित *a* established 884  
 महरण *n* weapon 714  
 प्रहि *m* well 259  
 प्रहित *n* saucc, condiment 767  
 प्रहित *a* despatched. 884  
 प्राणु *a* high, lofty 845  
 प्राकाम्य *n* one of the eight powers or  
     siddhis 355  
 प्राकार *m* rampart 735  
 प्राकृत *m* low man 799  
 प्राचीनवर्हिस् *m* N of Indra 83  
 प्राज्ञ *m* learned man 588  
 प्राज्य *a* abundant 642  
 प्राण *m* vigour 699  
 प्राण *m pl* life 802  
 प्राणसम *m* husband 372  
 प्राणिन् *m* the individual soul 400  
 प्राणेश *m* husband, lover 372  
 प्रातर *ind* at dawn 157  
 प्रान्त *m* edge, border 902  
 प्राप्त *a* obtained 832  
 प्राप्ति *f* one of the eight powers or  
     siddhis 355  
 प्राशृत *n* present 608  
 प्राधना *f* asking, begging 620  
 प्रालम्ब *n* garland (worn round the  
     neck) 479  
 प्रावरण *n* upper garment 475  
 प्रावार *n* upper garment 472  
 प्रास *m* spear 725  
 प्रासाद *m* house 498

प्रिय *m* husband 371  
 प्रियतम *m* husband 373  
 प्रियतमा *f* wife 377  
 प्रिया *f* wife 374  
 प्रीति *m* husband 373  
 प्रीति *f* affection 516  
 प्रीति *f* satisfaction 522  
 प्रेक्षा *f* intellect 633  
 प्रेक्षा *f* swing 315 870  
 प्रेक्षित *a* shaken 864  
 प्रेक्षालन *n* swing 870  
 प्रमत्त *n* affection 516  
 प्रेयस् *m* husband 372  
 प्रेयसी *f* wife 374  
 प्रदय *m* servant 693  
 प्रपित *a* despatched 884  
 प्रेष्ठ *m* husband 372  
 प्रोक्ति *f* conclusion 636  
 ऋक्ष *m* one of the seven dvīpas 909  
 ऋष *m* raft 241  
 ऋष *m* frog 246  
 ऋष *m* candala 798  
 प्लुत *m* N of an accent 585  
 प्लुष्ट *p* *p* burnt 897

## फ

फणिन् *m* serpent 293  
 फल *n* game board 791  
 फलक *n* shield 721  
 फलवत् *m* tree 283  
 फलादन *m* parrot 189  
 फणित *n* raw sugar 771  
 फाल्गुन *m* an epithet of Arjuna 746  
 कुल्ल *n* full blown flower 274  
 फेरव *m* jackal 328  
 फेरु *m* jackal 328

## ब

बहिष्ट *a* much 842  
 बकारि *m* an epithet of Bhīma 744  
 बद्ध *p* *p* tied fastened 896  
 बद्धसुष्टि *a* miser 760  
 बन्दिन् *m* bard 731  
 बन्ध *m* the body 398  
 बन्धु *m* brother 386

बन्धु *m* a kind of flower 285  
 बन्धुकी *f* an unchaste woman 393  
 बन्धुर *a* lovely beautiful 854  
 बर्ह *n* leaf 272  
 बर्हि *m* fire 334  
 बर्हिण *m* peacock 181  
 बर्हिन् *m* peacock 181  
 बर्हिसुल *m* god 74  
 बल *n* strength valour 698  
 बल *n* army 703  
 बलक्ष *a* white 823  
 बलाराति *m* N of Indra 82  
 बलाहक *m* cloud 174  
 बलि *f* offering 606  
 बलिन् *m* hero 696  
 बलिभिद् *m* N of Viṣṇu 31  
 बलीवर्ह *m* bull 321  
 बलव *m* cow herd 761  
 बहु *a* much 842  
 बहुल *a* much 842  
 बहुलामज *m* N of Karttikeya 68  
 बार *a* excessive 875  
 बाण *m* arrow 718  
 बाध *m* *f* distress 554  
 बान्धव *m* brother 386  
 बाल *m* child 382  
 बाल *m* hair 406  
 बाल *a* fool 594  
 बालघाटक *m* colt 313  
 बालव्यजन *n* chowrie 683  
 बाला *f* young woman 365  
 बालिका *f* girl 384  
 बालिश *a* fool 594  
 बाष्प *m* tear 547  
 बाहा *f* the arm 427  
 बाहु *m* the arm 427  
 बाहुज *m* kṣatriya 674  
 बाहुरक्षक *n* armlet 459  
 विदोञ्जस् *m* N of Indra 81  
 विम्ब *n* image 653  
 बिल *n* hole cavity 856  
 विहेराय *m* serpent 294  
 विसतन्दु *m* lotus fibre 265  
 विसप्रसूत *n* lotus 255  
 विमिनी *f* lotus-plant 260



यीमत्त *m* N of a sentiment 583  
 युक्म *m* cāndāla 798  
 बुद्ध *m* epithet of Buddha 13  
 बुद्ध *p* *p* known, understood 889  
 बुद्धि *f* intellect 632  
 बुध *m* the planet Mercury 147  
 बुध *m* wise man 588  
 बुभुक्षा *f* hunger 770  
 बृहत् *a* large, great 859  
 बृहत्तिका *f* upper garment 472  
 बृहस्पति *m* the preceptor of gods 93  
 बृहस्पति *m* the planet Mars 147  
 बाध *m* knowledge, intellect 634  
 बाधकर *m* bard 731  
 बाधितस्व *m* epithet of Buddha 13  
 बाहिरथ *n* boat 239  
 बोद्ध *m* the Buddha 654  
 ब्रह्मचारिन् *m* student 663  
 ब्रह्मन् *m* Brahman 15  
 ब्रह्मपुत्र *m* kind of poison 299  
 ब्रह्मपुत्री *f* N of Sarasvati 4  
 ब्राह्मण *m* brahmana 662  
 ब्राह्मण *m* brahmana 663  
 ब्राह्मी *f* goddess of speech 3  
 ब्राह्मी *f* N of a quarter 171

## भ

भ *a* star 140  
 भक्त *n* boiled rice 767  
 भक्ति *f* devotion 604  
 भक्षण *n* eating food 769  
 भग *m* Pudendum muliebre 441  
 भग *m* the sun 121  
 भग *m* knowledge 634  
 भगवन् *m* the lord 12  
 भगिनी *f* sister 387  
 भग्न *p* *p* destroyed 886  
 भङ्ग *m* wave 235  
 भट् *m* warrior 695  
 भट्ट *m* bullock 320  
 भद्र *n* welfare 658  
 भद्र *n* one of the nine divisions of  
 the earth 914  
 भद्राकरण *n* shaving 778  
 भद्रासन *n* splendid seat 506  
 भय *n* fear, fright 540  
 भयद्रुत *a* coward 697  
 भयानक *m* N of a sentiment 582  
 भर *m* collection, multitude 835  
 भरताग्रन् *m* epithet of Rama 739  
 भरित *a* filled complete 876  
 भर्गो *m* N of Śiva 42  
 भर्तृ *m* husband 370  
 भर्तृ *m* lord 681  
 भर्त्सन *n* reproach 557  
 भर्मन् *n* gold 344  
 भल्ल *m* spear 725  
 भव *m* name of Śiva 42  
 भवन *n* house 495  
 भवानी *f* N of Parvati 51  
 भव्य *n* welfare, prosperity 659  
 भयण *m* dog 326  
 भसित *n* ashes 898  
 भस्मन् *n* ashes 898  
 भा *f* light, lustre 142  
 भागीरथी *f* the Ganges 233  
 भाग्य *n* fate 524  
 भाजन *n* pot, vessel 758  
 भाण्ड *n* commodity 753  
 भाण्डागार *n* store-house 500  
 भातु *m* the sun 120  
 भातु *m* ray 140  
 भामा *f* woman 366  
 भामिनी *f* woman 363  
 भारत *n* N of a division of the earth  
 912  
 भारती *f* goddess of speech 3  
 भार्गव *m* N of Śukra 149  
 भार्या *f* wife 374  
 भाल *n* the fore head 415  
 भाललोचन *m* N of Śiva 47  
 भाव *m* opinion 527  
 भाव *m* nature form 907  
 भायुक् *n* welfare 658  
 भाषित *n* speech 563  
 भाषित *p* *p* spoken, uttered 887  
 भास्कर *m* the sun 121  
 भास्वन् *m* the sun 123  
 भिक्षु *m* mendicant 601  
 भिक्षु *m* hermit 665

- भिन्न *p p* broken, torn 895  
 भिह्ल *m* man of Bhil tribe 800  
 भिषग् *m* physician 646  
 भी *f* fear 540  
 भीति *f* fear 540  
 भीम *m* Bhīma, son of Wind 206  
 भीम *m* N of Siva 48  
 भीम *m* Bhīma 744  
 भीरु *f* a (timid) woman 365  
 भीरु *a* coward 697  
 भीरुक *a* coward 697  
 भीष्मस् *f* the Ganges 232  
 भुज *m* the arm 427  
 भुजग *m* serpent 290  
 भुजङ्ग *m* serpent 290  
 भुजङ्गमुन् *m* peacock 181  
 भुजगम *m* serpent 290  
 भुजशिरस् *n* the shoulder 427  
 भुजाकण्ठ *m* finger nail 431  
 भुजान्तर *n* the bosom, breast 433  
 भुवन *n* the world 207  
 भू *f* the world 209  
 भूछाया *f* darkness 161  
 भूतधात्रा *f* the earth 213  
 भूतनाथ *m* N of Siva 43  
 भूतनाथा *f* N of Parvatī 56  
 भूति *f* wealth 353  
 भूति *f* ashes 898  
 भूतम *n* gold 347  
 भूदेव *m* brahmin 668  
 भूधर *m* mountain 216  
 भूप *m* king 677  
 भूपति *m* king 678  
 भूपाल *m* king 677  
 भूभुञ्ज *m* king 678  
 भूमि *f* the earth 209  
 भूयस् *a* much 843  
 भूयिष्ठ *a* much 843  
 भूरि *a* much abundant 843  
 भूरिचन्द्र *m* gold 347  
 भूपण *n* ornament 446  
 भूरुक् *m* man 361  
 भ्रुकुटि *f* frown 421  
 भ्रु *m* bec 266  
 भ्रुत्तक *m* servant 693  
 भ्रूल *m* servant 692  
 भ्रुश *a* excessive 875  
 भ्रुक *m* frog 246  
 भेरी *f* kettle drum 580  
 भेल *m* raft 241  
 भैरवी *f* N of Parvatī 56  
 भोक्तृ *m* husband 370  
 भोगिन् *m* serpent 291  
 भाजन *n* meals 769  
 भीम *m* the planet Mars 146  
 भ्रुकुटि *f* frown 421  
 भ्रमर *m* bee 266  
 भ्रमरालक *m* curl 410  
 भ्रष्ट *p p* fallen, degraded 892  
 भ्रातृ *m* brother 386  
 भ्रू *m* eye brow 422
- म
- मास *n* flesh 787  
 मकर *m* sea monster 248  
 मकर *m* N of one of the nine treasures  
 (of Kubera) 356  
 मकरपञ्चम *m* God of love 58  
 मकरन्द *m* the juice of flowers  
 honey 271  
 मकरालय *m* sea ocean 224  
 मन्दिनी *f* boat 240  
 मन्त्र *m* sacrifice 670  
 मघवत् *m* N of Indra 83  
 मघवन् *m* epithet of Indra 78  
 मङ्गल *m* the planet Mars 146  
 मङ्गल *n* welfare 658  
 मञ्जन *n* bathing 466  
 मञ्ज *m* bedstead 507  
 मञ्जक *m* bedstead 507  
 मन्त्रु *a* pleasing charming 854  
 मन्त्रुघाषा *f* N of an apsaras 95  
 मन्त्रुल *a* beautiful charming 854  
 मठ *m* temple 652  
 मणि *m* jewel 349  
 मण्डन *n* ornament 446  
 मण्डन *n* decoration 491  
 मण्डप *m* pavilion 499  
 मण्डल *n* country 732  
 मण्डल *n* collection 834

- मण्डल *n.* circle. 901  
 मण्डलाग्र *m.* bent-sword. 724  
 मण्डहारक *m.* distiller. 784  
 मण्डूक *m.* frog. 246  
 मत *n.* opinion. 527  
 मतङ्गज *m.* elephant. 306  
 मति *f.* intellect. 632  
 मत्स्य *m.* fish. 243  
 मत्स्यण्डी *f.* coarse auger. 771  
 मथित *n.* butter-milk. 764  
 मद *m.* pride. 534  
 मदन *m.* God of love. 57  
 मदना *f.* musk. 483  
 मदिरा *f.* wine, liquor. 785  
 मद्य *n.* wine, liquor. 785  
 मधु *n.* wine, liquor. 785  
 मधुकर *m.* bee. 268  
 मधुशुली *f.* molasses. 771  
 मधुप *m.* bee. 268  
 मधुर *a.* sweet. 819  
 मधुरालापिनी *f.* cuckoo. 183  
 मधुलिङ्ग *m.* bee. 268  
 मधुप्रत *m.* bee. 267  
 मधुसख *m.* God of love. 61  
 मधुमूदन *m.* N. of Viṣṇu. 25  
 मध्य *m.* the waist. 438  
 मध्य *a.* mean (time in music). 571  
 मध्य *a.* middle. 847  
 मध्यम *m.* the waist. 438  
 मध्यम *m.* a musical note. 569  
 मनसु *n.* the mind. 402  
 मनसिज *m.* God of love. 59  
 मनीषा *f.* intelligence. 633  
 मनीषिन् *m.* a wise man. 589  
 मनुज *m.* man. 360  
 मनुष्य *m.* man. 360  
 मनुष्यघनेत्र *m.* epithet of Kubera. 105  
 मनुष्यलोक *m.* the world. 208  
 मनोज्ञ *a.* pleasing, charming. 854  
 मनीभव *m.* god of love. 58  
 मनोरथ *m.* desire. 403  
 मनोरम *a.* lovely, charming. 855  
 मनोहर *a.* pleasing, charming. 853  
 मन्द *f.* fault, offence. 544  
 मन्दर *a.* slow. 874  
 मन्द *m.* the planet Saturn. 150  
 मन्द *a.* fool. 594  
 मन्दाकिनी *f.* the Ganges. 232  
 मन्दाक्ष *n.* bashfulness. 517  
 मन्दार *m.* N. of heavenly tree. 98  
 मन्दिर् *n.* house. 495  
 मन्द्र *a.* low (tone in music). 572  
 मन्मथ *m.* god of love. 58  
 मन्थु *m.* anger. 535  
 मयूख *m.* ray. 141  
 मयूर *m.* peacock. 180  
 मरकत *n.* emerald. 349  
 मराल *m.* swan. 191  
 मरौचि *m.* ray. 140  
 मरुत् *m.* the wind. 201  
 मरुत् *m.* breath. 802  
 मरुत *m.* god. 70  
 मरुपय *m.* sky. 118  
 मरुवद *m.* epithet of Indra. 82  
 मरुत्सख *m.* N. of Indra. 85  
 मरुत् *m.* monkey. 327  
 मरुत् *m.* man. 360  
 मर्दन *n.* rubbing. 818  
 मर्दल *m.* kind of drum. 579  
 मर्यादा *f.* boundary. 559  
 मलय *m.* N. of a mountain. 914  
 मलयज *m.* sandal. 288  
 मलयज *m.* candal-wood. 485  
 मलयाचल *m.* N. of a mountain. 217  
 मलिन *a.* impure. 861  
 मलीमस्त *a.* impure, unclean. 861  
 मलिका *f.* jasmimum zambac. 284  
 मस्करिन् *m.* religious mendicant 657  
 मस्त *n.* the head 404  
 मस्तक *n.* the head. 404  
 मस्तिक *n.* the head. 404  
 मह *m.* festival 653  
 महत् *n.* great. 805  
 महत् *a.* large, great. 849  
 महत् *n.* light, lustre. 143  
 महादेव *m.* N. of Śiva. 37  
 महापाद *m.* lion. 303  
 महापद्म *n.* N. of one of the nine trees (of Kubera). 356  
 महामात्र *m.* elephant-driver. 709

- महाभाष्या *f* N of Pārvaṭī 55  
 महाशृङ्ग *m* elephant 308  
 महारजत *n* gold 347  
 महाराज *m* finger nail 430  
 महासेन *m* epithet of Kārttikēya 66  
 महिम्न *m* one of the eight powers or  
 siddhis 354  
 महिला *f* woman 362  
 महिषी *f* the principal queen 687  
 मही *f* the earth 210  
 महीशिव *n* king 675  
 महीशद्व *m* tree 281  
 महेन्द्र *m* N of a mountain 914  
 महेश्वर *m* N of Śiva 37  
 महेश्वरी *f* N of Pārvaṭī 55  
 महोत्पल *n* lotus 254  
 महोत्सव *m* festival 653  
 महोद्घ *m* final emancipation 657  
 मा *f* N of Lakṣmī 49  
 माकन्द *m* mango tree 286  
 माणिक्य *n* ruby 350  
 मातङ्ग *m* elephant 306  
 मातङ्ग *m* Candala 798  
 मातरिश्वर *m* the wind 202  
 मातालि *m* Indra's chariotcer 90  
 माता *f* mother 379  
 मात्रा *f* a little 840  
 माधव *m* N of Viṣṇu 21  
 माध्विक *n* wine, liquor 786  
 मान *m* pride 533  
 मानव *m* man 360  
 मानस *n* the mind 402  
 मानसोक्त *m* swan 191  
 मानिनी *f* woman 374  
 मानुष *m* man 360  
 नाभा *f* trick deceit 539  
 नार *m* god of love 57  
 नारण *m* N of the one of the five  
 arrows of Cupid 64  
 नारद *m* the wind 201  
 नास्तिक *m* N of Hanumat 748  
 नारी *m* way 318  
 नारी *m* custom 628  
 नार्गेण *m* suppliant 622  
 नार्गीत *p p* searched, sought 893  
 नार्तेण *m* the sun 124  
 नाला *f* row, line 837  
 नाला *f* garland 466  
 नालाकार *m* florist 776  
 नालिक *m* florist 776  
 नाल्य *n* garland 466  
 नास *m* month 162  
 नाहियञ्ज *m* epithet of Yama 112  
 नाहोथी *f* cow 323  
 नितम्ब *a* muser 760  
 नितदु *m* sea ocean 226  
 निग्र *m* the sun 123  
 निग्र *n* friend 394  
 निग्रुण *n* pair 829  
 निष्ठा *nā* falsely 626  
 मिश्र *a* mixed 879  
 मिथ *n* pretext 538  
 मिष्ट *a* sweet 819  
 मिहिर *m* the sun 124  
 मीन *m* fish 243  
 मीनकतान *m* god of love 60  
 मीमांसक *m* a follower of the Mīmāṃsā  
 school 654  
 मीलित *n* closed flower, a bud 279  
 मुकुट *n* garland on the head 448  
 मुकुन्द *m* N of Viṣṇu 25  
 मुकुन्द *m* N of one of the nine trea-  
 sures (of Kubera) 327  
 मुकर *m* mirror 492  
 मुक्ताकलापक *n* pearl necklace 457  
 मुक्तामाला *f* pearl-necklace 457  
 मुक्तावली *f* pearl necklace 457  
 मुक्ति *f* final emancipation 656  
 मुख *n* face mouth 414  
 मुखकेश *m* beard 412  
 मुखरत्न *n* tāmḃula 455  
 मुखसम्भव *m* brahman. 669  
 मुख्य *a* chief 857  
 मृगा *f* young woman 366  
 मूढ *n* the head 404  
 मुण्डन *n* shaving 777  
 मुग्ध *m* joy 519  
 मुहिर *m* cloud 172  
 मुह *m* kind of bean 752  
 मुत्र *m* club, mace 725

मुद्रक *m pl* N of a people 738  
 मुद्रा *f* finger ring 460  
 मुद्रिका *f* ring 460  
 मुद्रित *n* closed flower, a bud 277  
 मुषा *ind* in vain 556  
 मुनि *m* epithet of Buddha 14  
 मुनि *m* ascetic 600  
 मुमुक्षु *m* ascetic 601  
 मुरन *m* kind of drum 577  
 मुरली *f* flute 578  
 मुरारि *m* N of Viṣṇu 24  
 मूढ *a* fool 594  
 मूष *a* fool 594  
 मूढना *f* scale (in music) 573  
 मूढना *f* increasing 905  
 मूर्ति *f* the body 397  
 मूर्ति *f* image 653  
 मूर्धज *m* the hair 407  
 मूर्धन् *m* the head 405  
 मूर्धवेहन *n* turban 471  
 मूलद्रव्य *n* capital, principal 755  
 मूषकबाहन *m* epithet of Ganeśa 7  
 मृग *m* deer 300  
 मृगनाभि *f* musk 487  
 मृगनाभिजा *f* musk 488  
 मृगमद *m* musk 487  
 मृगया *f* chase 794  
 मृगयु *m* hunter 794  
 मृगाक्षी *f* deer eyed woman 366  
 मृगाङ्ग *m* the moon 132  
 मृगाण्डक *m* musk 487  
 मृगारि *m* lion 303  
 मृगाद्र *m* lion 302  
 मृड *m* N of Śiva 38  
 मृदानी *f* N of Pārvatī 53  
 मृणाल *n* lotus-stalk 265  
 मृत्युन्मय *m* N of Śiva 41  
 मृत्यु *m* epithet of Yama 111  
 मृदङ्ग *m* kind of drum 579  
 मृदु *a* tender 852  
 मृदुल *a* tender 852  
 मृध *n* hattle 729  
 मृषा *ind* falsely 626  
 मेषला *f* girdle 462  
 मेष *m* cloud 172

मेघनिहयन *m* thunder 178  
 मेघवाहन *m* N of Indra 82  
 मेघरु *a* black 826  
 मेद् *m* the penis 442  
 मेण्डक *m* ram 329  
 मेदिनी *m* the earth 210  
 मेदुर *a* thick, dense 871  
 मेधा *f* intellect 632  
 मेधावित्र *m* a learned man 589  
 मेघ्य *a* pure sacred 861  
 मेनका *f* N of an apsaras 95  
 मेह *m* N of a mountain 217  
 मेष्क *m* union 512  
 मेप *m* ram 329  
 मेहन *n* the penis 442  
 मैत्री *f* friendship 516  
 मैथिली *f* N of Sita 741  
 मैथुन *n* sexual intercourse 513  
 मैनाकरवपु *f* N of Pārvatī 53  
 मोक्ष *m* final emancipation 656  
 मोय *a* vain, useless 556  
 मोचा *f* plantain tree 287  
 मोद *m* joy 519  
 मोपक *m* thief 792  
 मोहन *m* N of Viṣṇu, 36  
 मोहन *m* N of one of the five arrows  
 of Cupid 64  
 मोहन् *n* sexual intercourse 514  
 मौक्तिक *n* pearl 350  
 मौक्तिक *n* nose-ornament 454  
 मान *n* silence 550  
 मौर्वी *f* bow string 716  
 मौलि *m* the head 404  
 मौलि *m f* crown 448  
 मौहूर्तिक *m* astrologer 644  
 मधुपण *n* butter 763  
 म्लेच्छ *m* foreigner 737

## य

यक्ष *m* demi-god 99  
 यक्षराज *m* N of Kubera 101  
 यजुर्वेद *m* the Yajurveda 648  
 यज्ञ *m* sacrifice 670  
 यज्ञमूर्ध [ ति ] *m* N of Viṣṇu 30  
 यति *m* ascetic 600

- वति *m* mendicant 665  
 वतिन् *m* ascetic 600  
 वतिन् *m* ascetic, mendicant 665  
 वथास्थित *ind* truly 627  
 वहुनाथ *m* N of Visnu 27  
 वन्त् *m* elephant driver 710  
 वन्त्रित *pp* fastened, bound 896  
 वस *m* Yama, the god of death 109  
 वसराज *m* N of Yama 111  
 वसल *n* pair 829  
 वसस्वस् *f* the river Yamuna 234  
 यमुना *f* the river Yamuna 234  
 यमुनाजनक *m* the sun 131  
 यमुनाध्वान् *m* N of Yama 112  
 यवन *m pl* the foreigners 737  
 यशस् *f n* fame 613  
 यश पटह *m* kind of drum 580  
 यशोदातनय *m* N of Visnu 35  
 याग *m* sacrifice 670  
 याचक *m* suppliant 622  
 याचना *f* asking begging 620  
 याज्ञसेना *f* N of Draupadi 757  
 यातना *f* pain agony 553  
 यादस् *n* water 248  
 याद वति *m* epithet of Varona 103  
 याद वति *m* sea ocean 225  
 यान *n* vehicle 316  
 यातपात्र *n* boat 239  
 याप्ययान *n* palanquin 315  
 याम *n* measure of time 162  
 यामिनी *f* night 158  
 यामिनीधिरह *m* the bird cakravaka 185  
 यावक *m* red lac 465  
 युक्त *a* accompanied 880  
 युग *m* measure of time 163  
 युग *n* pair 828  
 युगल *a* pair 828  
 युगान्त *m* universal destruction 167  
 युग्म *n* pair 828  
 युग्म *n* vehicle 316  
 युद्ध *n* battle 727  
 युध् *f* battle 729  
 युधिष्ठिर *m* Yudhishtira 743  
 युवती *f* young woman 365  
 युवन् *m* youth 803  
 यूथ *n* multitude 835  
 युधिका *f* kind of flower 285  
 योगिन् *m* saint 601  
 याव्य *a* fit 805  
 योद्ध *m* warrior 695  
 योध *m* warrior 695  
 योनि *f* the female organ of genera-  
 tion 441  
 यापा *f* woman 362  
 यापिन् *f* woman 364  
 यौवन *n* youth 803  
 र  
 रहस् *n* speed 874  
 रत्न *n* saffron 484  
 रत्न *n* blood 788  
 रत्न *a* red 822  
 रत्नतुण्ड *m* parrot 189  
 रत्नच *m* demon 116  
 रत्नापल *n* (red) lotus 259  
 रक्षक *m* protector 808  
 रक्षस् *m* demon 99  
 रक्षस् *m* Ravana 742  
 रक्षा *f* ashes 898  
 रघुनाथ *m* N of Rama 740  
 रत्नाजीव *m* painter 781  
 रत्नक *m* washerman 782  
 रत्न *n* silver 348  
 रजनी *f* night 158  
 रजम् *n* darkness 161  
 रजस् *n* dust 816  
 रण *n* battle 727  
 रण *n* sexual union 513  
 रतासद *n* bed chamber 503  
 रति *f* sexual union 514  
 रति *f* sport 515  
 रति *f* pleasure 522  
 रतिपति *m* god of love 58  
 रत्न *n* jewel 359  
 रत्नगर्भ *f* the earth 214  
 रत्नाकर *m* sea, ocean 226  
 रथ *m* chariot 314  
 रथकर *m* carpenter 779  
 रथाङ्गाङ्गव *m* the cakravaka bird 184

- रथ्या *f* street 319  
 रथ्या *f* road, street 736  
 रत्न *m* tooth 425  
 रत्न *m* tooth 425  
 रत्नच्छद *n* the lip 424  
 रन्ध्र *n* hole, cavity 846  
 रमण *m* husband 370  
 रमणी *f* beautiful woman 363  
 रमणीय *a* charming 856  
 रमा *f* N of Lakṣmī 49  
 रमासुत *m* God of love 62  
 रम्भा *f* N of an apsaras 95  
 रम्भा *f* plantain tree 287  
 रम्य *a* lovely, charming 855  
 रम्यक *n* one of the nine divisions of earth 914  
 रथ *m* speed 874  
 रवि *m* the sun 120  
 रश्मि *m* ray 141  
 रस *m* poison 297  
 रसज्ञा *f* the tongue 426  
 रसना *f* the tongue 426  
 रसना (रशना) *f* girdle 462  
 रसा *f* the earth 213  
 रसातरु *n* the patala 208  
 रसाल *m* mango tree 286  
 रसित *n* thunder 178  
 रहस्य *n*, copulation 514  
 रहस्य *ind* secretly 542  
 रहस्य *n* secret 635  
 राक्षस *m* demon 115  
 राग *m* affection 516  
 राज *m* king 675  
 राजचिह्न *n* royal mark, regalia 642  
 राजद *m* the moon 136  
 राजद *m* king 675  
 राजपुत्र *m* a man of the kṣatriya caste 674  
 राजराज *m* epithet of Kubera 102  
 राजवंशान *m* kṣatriya 674  
 राजहंस *m* kind of swan 192  
 राजाह *n* species of sandal 489  
 राजि *f* line row 857  
 राजीव *n* lotus 254  
 राटि *f* battle 730  
 राटा *f* lustre 494  
 रात्रिचर *m* demon 116  
 रात्रि *f* night 158  
 रात्रिविकासमाह *n* lotus 263  
 राट्टान्त *m* established fact 636  
 राधचन्द्रम *m* N of Viṣṇu 35  
 राम *a* black 827  
 रामचन्द्र *n* N of Rama 740  
 रामदापनिस्तापियुक्त् *m* the lurd cakra vāka 185  
 रामा *f* beautiful woman 363  
 राव *m* sound 641  
 रावण *m* Ravana 742  
 राशि *f* heap 835  
 राट *n* country, region 732  
 रासभ *m* donkey 325  
 राहु *m* the planet Rahu 151  
 रिक्त *a* empty 876  
 रिक्थ *n* property, wealth 352  
 रिवु *m* enemy 100  
 रिष्टि *m* sword 724  
 रीढ *f* disrespect 616  
 रत्न *n* gold 346  
 रत्न *f* light, lustre 143  
 रत्नि *f* light, lustre 143  
 रत्नि *f* nature 528  
 रत्नि *f* hunger 770  
 रत्नि *a* pleasing 853  
 रत्न *a* lovely 853  
 रत्न *m* anger 535  
 रुदित *n* crying, bewailment 546  
 रुद्र *p* obstructed 885  
 रुद्र *m* N of Śiva 39  
 रुद्राणी *f* N of Pārvatī 53  
 रुधिर *n* blood 788  
 रुद्रमुत्थ *m* kind of deer 301  
 रुद्र *a* harsh 850  
 रूप *n* nature, form 907  
 रूपाजावा *f* harlot, courtesan 391  
 रूप *n* silver 348  
 रूक *m* suspicion doubt 903  
 रूण *m* *f* dust 816  
 रू *m* wealth 351  
 रोग *m* disease 814  
 रोगहृत् *m* physician 646

रोचिष् *n* light lustre 143  
 रोदन *n* cry, bewailment 546  
 रोधष् *n* bank 238  
 राघोवक्रा *f* river 230  
 रोप *m* arrow 719  
 रामपदति *f* eye brow 422  
 रामन् *m* the hair on the body 412  
 रोमराजी *f* line of hair on the abdo-  
 men 413  
 रोमलता *f* line of hair on the abdo-  
 men 413  
 रोमदपे *m* thrall bristling of hair 548  
 रोमात्र *m* thrall bristling of hair 548  
 रोमावली *f* the line of hair on the  
 abdomen 413  
 रोळम्ब *m* bee 266  
 रोष *m* anger 535  
 रोहथ *m* N of a mountain 218  
 रोहिणी *f* cow 322  
 रोहिणीरमण *m* the moon 137  
 रोहित *m* fish 245  
 रोहिनाथ *m* fire 338  
 रात्र *m* N of sentiment 582

रु

रक्षण *n* mark 812  
 रुक्षण *n* nature form 907  
 रुक्षमण *m* Lakshmana brother of  
 Rama 740  
 रुक्षन् *n* mark 812  
 रुक्ष्मी *f* goddess Laksmi 49  
 रुक्ष्मा *f* wealth 352  
 रुक्ष्मी *f* beauty lustre 493  
 रुक्ष्मीवत् *a* rich 758  
 रुक्ष *n* pretence 538  
 रुक्षेष्ट *m* an epithet of Ravana 742  
 रुचिसन् *m* one of the eight powers or  
 siddhis 354  
 रुद्र *a* little small 841  
 रुद्र *a* quick 873  
 रुद्रमण्डप *m* window 504  
 रुद्रा *f* bashfulness 517  
 रुद्रा *f* creeper 269  
 रुच्य *a* obtained 882  
 रुच्यलक्ष *m* wise man 512

रुच्योदर *m* epithet of Ganesa 6  
 रुच्य *m* dance 568  
 रुचना *f* woman 362  
 रुद्राट *m* the forehead 415  
 रुद्राटस्थ *n* a chaplet of flowers worn  
 on the forehead 450  
 रुद्राटिका *f* the forehead 415  
 रुद्राटिका *f* mark on the forehead 452  
 रुद्राटक *n* chaplet of flowers worn on  
 the forehead 450  
 रुच्य *a* little 840  
 रुच्यण *m* salt 831  
 रुच्यण *m* one of the seven seas 911  
 रुद्रा *f* wave 236  
 रुद्रक *n* plough 774  
 रुद्रकन *n* stigma 812  
 रुद्राभ *m* gain profit 755  
 रुद्रासा *f* desire 531  
 रुद्राण्य *n* beauty 494  
 रुद्रास्य *n* dance 567  
 रुद्रिष् *p p* smeared 878  
 रुद्रिष्सा *f* desire 531  
 रुद्रा *f* sport 515  
 रुद्राविरा *f* woman 367  
 रुद्रपक *m* hunter 794  
 रुद्र *p p* cut 894  
 रुद्र *m* god 70  
 रुद्र *m* letter 561  
 रुद्र *a* little 840  
 रुद्र *m* the world 207  
 रुद्रमाता *f* N of Laksmi 50  
 रुद्रालोक *m* N of a mountain 218  
 रुद्रकेश *m* N of Brahman 17  
 रुद्रचन *n* the eye 418  
 रुद्राभ *m* desire 531  
 रुद्रिन् *a* greedy 760  
 रुद्रन् *m* the hair on the body 412  
 रुद्र *a* unsteady 868  
 रुद्रकार *m* black smith 780  
 रुद्रित *a* red 822

व

वंश *m* family race 388  
 वरा *m* the back bone 437  
 वंश *m* flute 578



- वशिका *f.* aloe wood 489  
 वयस *n.* mouth, face 414  
 वक्र *m.* the planet Mars 146  
 वक्र *a.* crooked, curved 848  
 वक्षस् *n.* bosom, breast 433  
 वक्षसि *m.* the female breast 434  
 वचन *n.* speech 563  
 वचनीयता *f.* blame, censure 614  
 वचस् *n.* speech 563  
 वचस् *n.* order 609  
 वज्र *n.* Indra's thunderbolt 91  
 वज्र *n.* diamond 350  
 वज्रकण्ठ *m.* N of Hanumat 748  
 वज्रिन् *m.* epithet of Indra 81  
 वज्रन *n.* trick, deceit 539  
 वदर *a.* fool 595  
 वडवा *f.* mare 313  
 वदवानल *m.* submarine fire 340  
 वदवामुस *m.* submarine fire 341  
 वणिक् *m.* merchant 749  
 वसनीय *m.* poison 298  
 वासर *m.* year 166  
 वादन *n.* mouth face 414  
 वादान्य *a.* liberal munificent 808  
 वाधु *f.* woman 367  
 वाधु *f.* wife 376  
 वन *n.* water 220  
 वन *n.* grove 278  
 वनधिया *f.* cuckoo 183  
 वनमालिन् *m.* N of Visnu 28  
 वनस्पति *m.* tree 283  
 वनावल *m.* forest conflagration 342  
 वनायुध *m.* species of horse 312  
 वनिता *f.* woman 362  
 वनीपक *m.* supplicant 622  
 वनीवर *m.* man of the Bhill tribe 800  
 वनीकण *m.* monkey 327  
 वन्दन *n.* salute 603  
 वपन *n.* shaving 778  
 वपु *n.* the body 397  
 वपु *m.* father 378  
 वप्र *m.* rampart 735  
 वप्र *m.* field 774  
 वयस् *n.* bird 198  
 वयस् *n.* youth 803  
 वयस्य *m.* a youth 803  
 वयस्य *m.* friend 394  
 वयस्या *f.* female friend 395  
 वर *m.* husband 371  
 वरण *m.* rampart 735  
 वरद *m.* N of Śiva 47  
 वरयितु *m.* husband, lover 371  
 वरा *f.* (refined) sugar? 771  
 वराह *m.* hog 325  
 वरिचस्या *f.* devotion 605  
 वरुण *m.* Varuna 107  
 वरुथिनी *f.* army 704  
 वरु *m.* group, collection 836  
 वरुस् *n.* light, lustre 143  
 वरुण *m.* fame, glory 613  
 वरुणा *f.* praise 612  
 वर्णिन् *m.* religious student 664  
 वर्णिनी *f.* woman 364  
 वर्ण्य *n.* saffron 484  
 वर्तन *n.* livelihood 754  
 वर्तुल *n.* circle 901  
 वर्तुन् *n.* road 318  
 वर्पकि *m.* carpenter 779  
 वर्मन् *n.* armour 711  
 वर्ध *a.* chief 857  
 वर्ष *n.* year 165  
 वर्षा *f.* pl the rainy season 164  
 वर्षानू *m.* frog 246  
 वर्ष्मन् *n.* the body 397  
 वरुय *m.* bracelet 461  
 वरुयाकृति *f.* circle 901  
 वलि *f.* wave 235  
 वल्क *n.* bark 672  
 वल्कल *n.* bark 672  
 वल्लु *a.* lovely, beautiful 854  
 वल्लु *f.* lute 578  
 वल्लभ *m.* lover, husband 371  
 वल्लभा *f.* wife 374  
 वल्लरा *f.* creeper 269  
 वल्ली *f.* creeper 269  
 वल्लरा *f.* woman 365  
 वलिश्च *n.* one of the eight powers or  
 siddhis 355  
 वल्लरार *m.* formula वपु 671  
 वल्लति *f.* house 497

- वसन *n* garment 468  
 वसन्त *m* the spring season 164  
 वसन्त *m* वेशन्त (?) lake ? 252  
 वसुधरा *f* the earth 210  
 वसु *f* light, lustre 143  
 वसु *n* jewel 349  
 वसु *n* wealth 352  
 वसुधा *f* the earth 209  
 वसुमती *f* the earth 211  
 वस्त्र *n* garment 468  
 वहन *n* boat 239  
 वहिन्नक *n* boat 239  
 वहिन् *m* fire 331  
 वाक्य *n* speech 563  
 वागुरि *m* deer catcher, hunter 793  
 वाग्देवा *f* N of Sarasvatī 3  
 वाग्मिन् *m* orator 593  
 वाच् *f* speech 563  
 वाचस्पति *m* N of Bṛhaspati 148  
 वाचा *f* oath 610  
 वाचिक *n* message 561  
 वाच्य *n* message 561  
 वाज *m* wing 200  
 वाजिन् *m* horse 310  
 वाञ्छा *f* desire 532  
 वाटिका *f* grove garden 279  
 वाडय *m* submarine fire 341  
 वाडव *m* brahmin 668  
 वाणिज *m* merchant 749  
 वात *m* the wind 201  
 वातायन *n* window 504  
 वातायु *m* deer 301  
 वादित्र *n* instrumental music 565  
 वादित्र *n* musical instrument 575  
 वाद्य *n* musical instrument 575  
 वानप्रस्थ *m* hermit 563  
 वानर *m* monkey 327  
 वापी *f* lake 249  
 वाम *a* unfavourable adverse 888  
 वामदेव *n* N of Śiva 42  
 वामन *a* short, dwarfish 844  
 वामलोचना *f* woman (with lovely eyes) 364  
 वामा *f* woman 366  
 वामी *f* mare 313  
 वायवी *f* the north west 171  
 वायु *m* the wind 201  
 वायुपुत्र *m* an epithet of Bhīma 744  
 वायुसख *m* fire 335  
 वार *m* time 543  
 वार *m* multitude 832  
 वारण *m* elephant 309  
 धारवाण *n* armour 712  
 वारि *n* water 219  
 वारिज *n* lotus 257  
 वारिद *m* cloud 175  
 वारिरासि *m* sea, ocean 224  
 वारिवाह *m* cloud 172  
 वारुणा *f* wine, liquor 785  
 वात्ता *f* news tidings 560  
 वादक्य *n* old age 804  
 बालव्यजन *n* chowrie 683  
 वास *m* fragrance perfume 482  
 वासगृह *n* bed-chamber 503  
 वासयोग *m* fragrant flower 480  
 वासर *m* day 156  
 वासव *m* epithet of Indra 77  
 वासस् *n* garment 468  
 वासुकि *m* the lord of serpents 295  
 वासुदेव *m* N of Viṣṇu 23  
 वास्तोष्पति *m* N of Indra 85  
 वाह *m* horse 311  
 वाहन *m* conveyance 316  
 वाहिनी *f* army 704  
 वि *m* bird 197  
 विकच *a* full blown 275  
 विकतन *m* the sun 126  
 विकसित *a* full blown 274  
 विक्रि *m* bird 197  
 विक्रम *n* valour 698  
 विक्रम *m* effort 817  
 विक्रान्त *m* hero 696  
 विख्या *a* well-known 807  
 विग्रह *m* body 396  
 विग्रह *m* battle 730  
 विग्र *m* obstacle hindrance 814  
 विग्ररान *m* epithet of Gaṇeśa 5  
 विचक्षण *m* a learned man 590  
 विचाल *a* intervening 847  
 विजन *n* solitary place 542

- विद्वम्भित *a* full blown 275  
 विद्व *a* wise 591  
 विद्व *m* man 361  
 विद्वपिन् *m* tree 282  
 विद्वल *m* N of Viṣṇu 36  
 वितथ *n* lie 625  
 वितरण *n* gift 621  
 वितर्दि *f* altar 673  
 वितान *n* awning 510  
 वित्त *n* wealth 351  
 विद्वय *a* learned 591  
 विदित *p p* known, understood 889  
 विद्व *p p* pierced 895  
 विद्वार *m* a demigod 99  
 विद्वत् *f* lightning 175  
 विद्वु *m* coral 350  
 विद्वस् *a* learned 588  
 विद्वेष *m* enmity, quarrel 813  
 विधान् *m* N of Brahman 17  
 विधि *m* epithet of Brahman 15  
 विधि *f* fate 524  
 विधि *f* rule 628  
 विधुत्तुद *m* N of Rahu 151  
 विधु *m* N of Viṣṇu 33  
 विधु *m* the moon 133  
 विधुर *n* distress 554  
 विनय *m* devotion 605  
 विनायक *m* N of Gaṇeśa 5  
 विनिद्र *a* full blown 277  
 विनेय *m* pupil 598  
 विन्ध्य *m* N of a mountain 217  
 विपक्ष *m* enemy 700  
 विपक्षी *f* lute 578  
 विपणि *f* market place 751  
 विपत् *f* distress 554  
 विपत्ति *f* adversity 759  
 विपत्तय *m* contrariety, reverse 890  
 विपत्तौ *m* contrariety, reverse 890  
 विपश्चित् *a* learned 590  
 विपिन *n* grove 278  
 विपुल *a* large 849  
 विपुला *f* the earth 213  
 विप्य *m* brahman 668  
 विप्रकृष्ट *a* distant, remote 867  
 विप्रतारण *n* trick, deceit 539  
 विप्रयोग *m* separation 545  
 विप्रलम्भ *m* separation 545  
 विप्रिय *a* disagreeable 544  
 विप्रुष *m* god 69  
 विभव *m* wealth 351  
 विमानर *m* the sun 128  
 विभावरी *f* night 159  
 विभावसु *m* fire 334  
 विभु *m* lord 680  
 विभूति *f* richness 353  
 विभूति *f* wealth riches 757  
 विभूषा *f* beauty, lustre 493  
 विभ्रम *m* splendour, beauty 494  
 विभ्रम *m* amorous play 521  
 विमदज *m* fragrance 482  
 विमान *n* heavenly car 92  
 विपत् *n* sky 119  
 विपदापगा *f* the Ganges 232  
 विप्याग *m* separation 545  
 विरह *m* separation 545  
 विरञ्चि *m* N of Brahman 17  
 विरूपाक्ष *m* N of Śiva 47  
 विरोचन *m* the sun 123  
 विरोचन *m* fire 339  
 विरोध *m* enmity, quarrel 813  
 विरम *n* the waist 438  
 विलम्बित *a* slow (time in music)  
 571  
 विलाप *m* bewailment 546  
 विलास *m* sport 515  
 विलास *m* pleasure, diversion 521  
 विलासिनी *f* woman 366  
 विलेपन *n* smearing 467  
 विलाम *a* opposite 888  
 विवर *n* hole cavity 846  
 विवरश्चत् *m* the sun 130  
 विवाह *m* marriage 368  
 विवाहन *n* marriage 369  
 विकित्त *n* solitary place 542  
 विधोदृ *m* husband bride groom 370  
 विद्वद् *a* white 824  
 विद्वत् *m* N of Karttkeya 67  
 विद्वारद *m* learned man 589  
 विद्वाल *a* large great 869  
 विशिख *m* arrow 718

- विशिला *f* road 736  
 विशेषक *n* mark on the fore head 451  
 विश्रम्भ *m* confidence 904  
 विश्राणन *n* gift 621  
 विद्भुत *a* well known 807  
 विश्वंभर *m* N of Viṣṇu 26  
 विश्वंभरा *f* the earth 211  
 विश्व *n* the world, universe 207  
 विश्व *a* all, whole 839  
 विश्वकर्मान् *n* N of the architect of gods 88  
 विश्व [प्व]सेन *m* N of Viṣṇu 26  
 विश्वरूप *m* N of Viṣṇu 26  
 विश्वसद् *m* N of Brahman 17  
 विश्वास *m* confidence 904  
 विष *n* water 222  
 विष *m* poison 297  
 विषधर *m* serpent 292  
 विषमयुध *m* god of love 59  
 विषय *m* country 732  
 विषमूचक *m* the bird cakora 186  
 विषाद *m* grief sorrow 552  
 विषान्तकृन् *m* N of Śiva 46  
 विष्किर *m* bird 198  
 विष्टप *n* the world 207  
 विष्टर *m* seat 506  
 विष्टरध्वज *m* N of Viṣṇu 31  
 विष्णु *m* N of Viṣṇu 22  
 विष्णुपद् *n* sky 117  
 विष्णुपदी *f* the Ganges 233  
 विसर्जन *n* gift 620  
 विसारिन् *m* fish 244  
 विस्तीर्ण *a* large, great 849  
 विस्मय *m* wonder 529  
 विन्वया *f* old age 804  
 विहंग *m* bird 195  
 विहगम *m* bird 195  
 विहग *m* bird 195  
 विहाय *m* bird 197  
 विहायस् *n* sky 119  
 विहित *a* accomplished 881  
 वीक्षण *n* looking at 420  
 वीचि *f* wave 236  
 वीजित *a* fanned 869  
 वीणा *f* lute 576  
 वीणा *f* lute 578  
 वीणा *f* lute 916  
 वीणायुत *m* N of Narada 20  
 वीतराम *m* supreme being 11  
 वीति *m* horse 311  
 वीतिहोत्र *m* fire 336  
 वीथी *f* street 319  
 वीर *m* N of a sentiment 582  
 वीर *m* hero 696  
 वीरुष् *f* creeper 269  
 वीर्य *n* strength, vigour 699  
 वृकोदर *m* epithet of Bhīma 744  
 वृक्ष *m* tree 281  
 वृक्षाक्ष *m* cock 188  
 वृत्त *n* sin 625  
 वृत्तित *n* sin 625  
 वृत्त *n* custom 628  
 वृत्त *n* circle 901  
 वृत्तान्त *n* news tidings 560  
 वृत्ति *f* livelihood 754  
 वृत्तहन् *m* N of Indra 84  
 वृथा *and* in vain 556  
 वृद्ध *a* old 804  
 वृद्धध्वज *m* epithet of Indra 81  
 वृन्द *n* collection 830  
 वृन्दारक *m* god 71  
 वृष *m* bull 321  
 वृष *m* pious act 623  
 वृषन् *m* epithet of Indra 78  
 वृषभ *m* bull 320  
 वृषभध्वज *m* N of Śiva 42  
 वृषभवाहन *m* N of Śiva 48  
 वृषाकपि *m* N of Viṣṇu 26  
 वृषाकपि *m* fire 336  
 वृद्धभालु *m* fire 331  
 वेग *m* speed 874  
 वेडा *f* boat 240  
 वेणिका *f* braided hair 409  
 वेणी *f* braided hair 409  
 वेणु *f* flute 578  
 वेन्दुन् *m* door keeper 689  
 वेदना *f* pain agony 553  
 वेदिका *f* altar 673  
 वेदिका *f* an epithet of Draupadī 747  
 वेदी *f* altar 673

- वैश्व *m* epithet of Brahman 15  
 वेधित *p p* pierced, bored 895  
 वेद्यु *m* tremor, trembling 552  
 वेर *n* the body 397  
 वेला *f* ebb 237  
 वेला *f* time 543  
 वेहिन *a* trembling 869  
 वेशमन् *n* house 497  
 वेद्या *f* harlot courtesan 391  
 वेर *m* dress 471  
 वेष्टनक *n* under garment 473  
 वेकत्र *n* upper garment 472  
 वेकुष्ठ *m* N of Viṣṇu 28  
 वेखानस *m* hermit 660  
 वेनयत्त *m* N of Indra's palace 89  
 वेडुय *n* gem 350  
 वेतमिक *m* butcher 795  
 वेतालिक *m* bard 731  
 वेदहिक *m* merchant 749  
 वेदेही *f* epithet of Sitā 741  
 वैद्य *m* physician 646  
 वैद्यक *m* physician 647  
 वनवैद्य *m* N of Garuḍa 193  
 वेपरौप *n* contrariety, reverse 890  
 वेर *n* enmity quarrel 813  
 वैरिन् *m* enemy 700  
 वैरोपिक *m* Vaiśeṣika 654  
 वैश्य *m* Vaiśya 662  
 वैश्ववग *m* N of Kubera 104  
 वैश्वानर *m* fire 332  
 वैश्वारिण *m* fish 244  
 स्पष्ट *a* clear, manifest 872  
 स्पष्टन *n* fan 492  
 स्पष्टक *m* dramatic action 568  
 स्पष्टन *n* condiment, sauce 768  
 स्पष्ट्याम *m* contrariety, reverse 890  
 स्पष्टा *f* pain agony 553  
 स्पष्टदा *m* devise 538  
 स्पष्टिधरिणी *f* unchaste woman 393  
 स्पष्ट *a* useless 556  
 स्पष्टीक *n* fault, offence 544  
 स्पष्टगाव *m* business 817  
 स्पष्टन *n* difficulty 554  
 स्पष्टकरण *n* grammar 649  
 स्पष्टा *m* tiger 305  
 स्पष्टा *n* pretext, pretence 538  
 स्पष्टा *m* hunter 794  
 स्पष्टा *m* increasing 905  
 स्पष्टा *a* covered, pervaded 878  
 स्पष्ट्याम *m* exertion, effort 555  
 स्पष्ट *m* serpent 294  
 स्पष्टाहार *m* speech 563  
 स्पष्टपत्र *a* learned 593  
 स्पष्ट *m* collection 830  
 स्पष्टकार *m* black smith 780  
 स्पष्टाकेत *m* N of Śiva 43  
 स्पष्टमन् *n* the sky 117  
 स्पष्ट *m* cow house 761  
 स्पष्ट *m* collection, multitude 831  
 स्पष्ट *n* bow 630  
 स्पष्टति *f* creeper 269  
 स्पष्टिन् *m* ascetic 600  
 स्पष्ट *m* the sun 126  
 स्पष्ट *m* multitude, group 831  
 स्पष्टा *f* bashfulness 517
- श
- शकर *m* N of Śiva 37  
 शकरी *f* N of Parvatī 56  
 शंभु *m* N of Śiva 38  
 शंभुसख *n* N of Kubera 103  
 शशा *f* happiness 523  
 शक *m* *pl* N of a tribe 738  
 शकट *m* chariot 314  
 शकल *n* part piece 839  
 शकन *m* bird 196  
 शकुनि *m* bird 196  
 शकुन्तो *m* bird 193  
 शक्ति *f* strength, vigour 699  
 शक्तिधर *m* N of Kārttikeya 68  
 शक *m* N of Indra 77  
 शककोणाप्यक्ष *m* epithet of Kubera 106  
 शक *f* doubt fear 546  
 शक *m* one of the nine treasures (of Kubera) 356  
 शक *m* military-drum or conch-shell 581  
 शची *f* Indra's wife 87  
 शचीपति *m* N of Indra 80

- शठ *a* fool 595  
 शठ *a* wicked 810  
 शठता *f* trick, deceit 539  
 शतक्रतु *m* epithet of Indra 79  
 शतपत्र *n* lotus 235  
 शतमन्यु *m* N of Indra 83  
 शतदूदा *f* lightning 177  
 शतान्न *m* chariot 314  
 शत्रु *m* enemy 700  
 शनि *m* the planet Saturn 150  
 शनैश्वर *m* the planet Saturn 150  
 शप *m* curse 558  
 शपथ *m* curse 558  
 शपन *n* curse 558  
 शफरा *f* fish 245  
 शब्द *m* sound 640  
 शब्दमाह *m* the ear 416  
 शमन *m* N of Yama 109  
 शम्पा *f* lightning 176  
 शम्बर *n* water 220  
 शम्बर *m* fish 244  
 शम्बर *m* man of Bhal tribe 800  
 शय *m* the hand 428  
 शयन *n* bed 508  
 शयनीय *n* bed 508  
 शय्या *f* bed 508  
 शय्यागृह *n* bed-chamber 503  
 शर *m* arrow 718  
 शरजन्मन् *m* N of Karttikeya 67  
 शरण *n* house 497  
 शरद् *f* autumnal season 164  
 शरद् *f* year 166  
 शरभ *m* N of a fabulous animal 305  
 शरासन *n* bow 715  
 शरीर *n* body 396  
 शरीरिन् *m* the soul 401  
 शर्कर *m* 'sugar' 320  
 शकरा *f* candied sugar 772  
 शर्मन् *n* happiness 523  
 शर्व *m* N of Śiva 39  
 शर्वरा *f* night 158  
 शर्वाणा *f* N of Parvati 55  
 शल्किन् *m* fish 245  
 शल्यारि *m* epithet of Yudiṣṭhira 743  
 शशधर *m* the moon 134  
 शशाङ्क *m* the moon 133  
 शशिन् *m* the moon 132  
 शशिमिवा *f* lotus 264  
 शस्त *n* happiness, welfare 659  
 शस्त्र *n* weapon 714  
 शस्त्रमार्ग *m* weapon cleaner 780  
 शस्त्रिका *f* knife 721  
 शस्य *n* grain 752  
 शाकर *m* bull 321  
 शाक *m* vegetable 768  
 शाक *m* one of the seven dvīpas 910  
 शाकुनिक *m* bird catcher 795  
 शाखामग *m* monkey 327  
 शाखिन् *m* tree 281  
 शाठ्य *n* trick, deceit 539  
 शातकौम्भ *n* gold 344  
 शात्रव *m* enemy 701  
 शान्त *n* tranquility 523  
 शान्त *m* N of a sentiment 583  
 शाप *m* curse 557  
 शारदा *f* N of Sarasvatī 3  
 शाकर *m* bull 320  
 शार्ङ्गिन् *m* N of Viṣṇu 32  
 शार्ङ्गल *m* tiger 305  
 शाल *m* rampart 735  
 शाल्हर *m* frog 246  
 शाल्मलि *m* one of the seven dvīpas  
 909  
 शाव *m* child 383  
 शाश्वत *a* permanent, constant 867  
 शासन *n* order, command 609  
 शास्त्र *m* teacher 597  
 शास्त्र *n* treatise 637  
 शिष्य *m* teacher 597  
 शिक्षा *f* phonetics 6 9  
 शिखण्डिक *m* cock 187  
 शिखण्डिका *f* lock of hair on the crown  
 of the head 411  
 शिखण्डिन् *m* peacock 181  
 शिखरिन् *m* the mountain 215  
 शिखा *f* lock of hair on the crown of  
 the head 411  
 शिल्पा *f* flame 897  
 शिशुन् *m* N of Ketu 152

- निविन् *m* peacock 180  
 शिल्पिन् *m* fire 335  
 शिल्पिवाहन *m* epithet of Karttikeya 66  
 शिल्पिना *f* the nose 417  
 शिरम् *n* the head 405  
 शिरसाण *n* helmet 713  
 शिराशूक *n* turret 502  
 शिराघरा *f* the neck 432  
 शिराधि *f* the neck 432  
 शिरामणि *m* crest jewel 447  
 शिरारह *m* the hair 407  
 शिला *f* stone 815  
 शिलीमुख *m* bee 266  
 शिलीमुख *m* arrow 719  
 शिलोच्चय *m* mountain 216  
 शिल्पिन् *m* artisan 783  
 शिव *m* N of Śamkara 37  
 शिव *m* final emancipation 656  
 शिव *n* welfare 659  
 शिवा *f* N of Pārvatī 52  
 शिविका *f* palanquin 315  
 शिशिर *a* cold 144  
 शिशिर *m* the cold season 165  
 शिशु *m* child 382  
 शिदन *n* the penis 442  
 शिष्ट *a* virtuous 806  
 शिष्य *m* pupil 598  
 शीघ्र *a* quick 873  
 शीत *a* cold 144  
 शीतल *a* cold 144  
 शीतांशु *m* the moon 133  
 शीतक *n* the head 404  
 शीतपत्र *n* helmet 713  
 शीतपुष्प *n* crest jewel ? 447  
 शीतभरण *n* head ornament 447  
 शील *n* nature 528  
 शील *n* custom 628  
 शुक *m* parrot 189  
 शुक्र *m* the preceptor of the demons  
 149  
 शुक्र *m* fire 339  
 शुक्रशिष्य *m* demon 113  
 शुद्ध *a* white 823  
 शुभ्र *f* grief sorrow 551  
 शुचि *m* fire 339  
 शुचि *a* white 823  
 शुचि *a* pure 862  
 शुष्क *f* wine, liquor 786  
 शुद्धान्त *n* harem 686  
 शुभ *n* fate 524  
 शुभ *n* welfare 658  
 शुभकर्मन् *n* pious deed 623  
 शुभवेदन *n* happiness 523  
 शुभ्र *a* white 823  
 शुष्क *a* dry 899  
 शुष्मन् *m* fire 314, 340  
 शूकर *m* hog 325  
 शूद्र *m* Śūdra 662  
 शून्य *a* empty 876  
 शूर *m* hero 695  
 शूलिन् *m* N of Śiva 33  
 शृगाल *m* jackal 328  
 शृङ्खल *m* chain 813  
 शृङ्गार *m* N of a sentiment 582  
 शृङ्गारयात्रि *f* god of love 62  
 शोभ *m* garland on the head 444  
 शोक *m* the penis 452  
 शोभ्य *f* intellect 632  
 शीर *m* lord of serpents 296  
 शीरसापिन् *m* N of Viṣṇu 29  
 शश *m* pupil 598  
 शिख *m* mountain 215  
 शय *m* a Śaiva 654  
 शयलिनी *f* river 223  
 शोक *m* grief 551  
 शोचन *n* grief, sorrow 551  
 शापिन्केत *m* fire 337  
 शोविन् *m* light, lustre 143  
 शाण *a* red 822  
 शोणित *n* blood 788  
 शोभन *a* handsome, lovely 856  
 शोभा *f* beauty lustre 493  
 शोभन *m* N of one of the five arrows  
 of cupid 64  
 शोषिक *m* distiller 784  
 शोनि *m* butcher 795  
 शीरे *m* N of Viṣṇu 27  
 शीरे *m* the planet Saturn 150  
 शीर्य *n* valour, strength 698  
 शनसु *n* the beard 412

श्याम *m* N of Viṣṇu 34  
 श्याम *a* black 826  
 श्यामल *a* black 826  
 श्यामा *f* cuckoo 183  
 श्रद्धालु *m* believer 599  
 श्रम *m* fatigue 555  
 श्रम *m* practice, study 818  
 श्रमोन्मु *m* tear 547  
 श्रमाम्बु *n* sweat 547  
 श्रव *m* the ear 416  
 श्रवण *n* the ear 416  
 श्र(व)स्त *p p* fallen 892  
 श्राद्ध *m* pupil(?) 599  
 श्राद्धदेव *m* N of Yama 110  
 श्रावक *n* pupil 599  
 श्री *f* N of Lakṣmī 49  
 श्री *f* beauty, lustre 493  
 श्री *f* wealth 757  
 श्रीकण्ठ *m* N of Śiva 37  
 श्रावण *m* sandal 288  
 श्रीखण्ड *m* sandal wood 485  
 श्रीचन *m* epithet of Buddha 13  
 श्रीद *m* epithet of Kubera 101  
 श्रीधर *m* N of Viṣṇu 29  
 श्रीपति *N* of Viṣṇu 21  
 श्रीमत् *a* wealth 758  
 श्रीवत्सलाष्टन *m* N of Viṣṇu 27  
 श्रुत *n* the Veda 636  
 श्रुति *f* the ear 416  
 श्रेणि *m f* row, line 837  
 श्रेयस् *n* pious act 623  
 श्रेयस् *n* welfare 659  
 श्रेयस् *m* virtuous 806  
 श्रेष्ठ *a* best 805  
 श्रोणि *f* the hips 439  
 श्रोत्र *n* the ear 416  
 श्लक्ष्ण *a* small 841  
 श्लाघा *f* praise 612  
 श्लोक *m* fame 613  
 श्वर *m* dog 326  
 श्वपच *m* cāṇḍāla 798  
 श्वसन *m* the wind 204  
 श्वसित *n* breath 802  
 श्वानमण्डल *m* dog 326  
 श्वास *m* breath 802

श्वेत *a* white 823  
 श्वेताश्रम *m* an epithet of Arjuna 746

य

एटकर्मन् *m* Brahmin 669  
 पटपद *m* bee 267  
 पङ्क *m* musical note 569  
 पण्ड *n* wood 278  
 पण्ड *m* N of Śiva 45  
 पण्मुख *m* epithet of Kārttikeya 66  
 पादव *n* tune with six notes 586, 587  
 पाण्मातुर *m* epithet of Kārttikeya 60

स

संकट *a* filled with 877  
 नकल्प *m* desire 403  
 संकल्पारमन् *m* god of love 62  
 संकाश *a* similar 863  
 संकीर्ण *a* filled with 877  
 संकुचित *n* closed flower, bud 277  
 संकुल *a* filled with 877  
 संकण्ठ *m* epithet of Indra 78  
 संख्य *n* battle 728  
 संख्याचक्र *a* learned 590  
 सग *m* union 512  
 सगम *m* union 512  
 संगर *m* promise 610  
 संग्राम *m* battle 727  
 संप *m* collection, multitude 831  
 सघन *a* dense 871  
 सघात *m* multitude, collection 834  
 संपचारिचक्र *m* fish 243  
 सचय *m* collection, multitude 833  
 संचर *m* path 319  
 मचारिका *f* female messenger 390  
 संज्ञा *f* name, appellation 619  
 संतति *f* offspring 385  
 संतमस *m* darkness 160  
 संतान *m n* offspring progeny 385  
 संतान *N* of a heavenly tree 97  
 संतोष *m* satisfaction 522  
 संदेश *m* message 561  
 संदेशादारक *m* messenger 691  
 संदेह *m* doubt 903  
 संदोह *m* multitude, collection 832



- संघा *f.* oath. 610  
 संघाह *m.* armour. 711  
 संदिधान् *a.* near. 866  
 संनिधौ *f.* nearness. 866  
 संनिभ *a.* similar. 863  
 संपरायक *n.* battle. 728  
 संपृक्तः *a.* mixed. 879  
 संप्रदं *m.* joy. 519  
 संप्रदाय *m.* tradition. 611  
 संघाष *a.* filled with. 877  
 संभोग *m.* sexual union. 513  
 संघत् *f.* battle. 729  
 संपत *m.* ascetic. 660  
 संपमिन् *m.* ascetic. 601  
 संयुग *n.* battle. 727  
 संरेभ *m.* anger. 536  
 संलप *m.* sleep. 541  
 संवासर *m.* year. 163  
 संवर्तक *m.* submarine fire. 341  
 संवलित *p p.* mixed. 879  
 संवाहन *n.* rubbing. 818  
 संविद् *f.* intellect. 634  
 संविति *f.* intellect. 634  
 संविद् *f.* promise. 610  
 संवेस *m.* sleep. 541  
 शोण्यान् *n.* upper garment. 475  
 संशय *m.* doubt. 903  
 संश्लेष *m.* embrace. 511  
 संसद् *f.* assembly. 634  
 संसार *m.* the world. 208  
 संश्रौट *m.* battle. 730  
 संहति *f.* collection, multitude. 832  
 संदन *n.* the body. 398  
 संहार *m.* universal destruction. 167  
 सच्छ *a.* all, whole. 838  
 मशिध *n.* the thigh. 443  
 सन्निन् *m.* friend. 394  
 सन्नी *f.* female companion. 395  
 सान्य *n.* friendship. 516  
 सख *m.* union. 512  
 सखन *a.* virtuous. 806  
 सनी *f.* N. of Pārvatī. 54  
 सनी *f.* virtuous or good woman. 399  
 साकार *n.* respect. 607  
 सखम *a.* best, excellent. 853  
 सख *n.* sacrifice. 670  
 सख *n.* the individual soul. 401  
 सख्य *m.* truth. 627  
 सख्यकार *m.* ratification. 756  
 सख्यापन *n.* ratification. 756  
 सखर *a.* quick. 873  
 सखन *n.* house. 495  
 सखम् *n.* assembly. 684  
 सखगति *m.* the wind. 203  
 सखचार *m.* good conduct. 806  
 सखश *a.* similar. 863  
 सखन् *n.* house. 495  
 सखसिणी *f.* wife. 377  
 सखीची *f.* female companion. 395  
 सखमान *m.* esteem. 607  
 सखरन *m.* enemy. 701  
 सखर्या *f.* worship. 606  
 सखकी *f.* girdle. 462  
 सखतन्तु *m.* sacrifice. 670  
 सखमन्त्र *m.* fire. 340  
 सखगति *m.* the sun. 128  
 सखार्यम् *m.* fire. 337.  
 सखर *m.* the sun. 123  
 सखि *m.* horse. 311  
 सभा *f.* assembly. 684  
 सख्य *m.* member of an assembly. 635  
 सख्य *a.* virtuous. 806  
 सख *a.* similar. 863  
 सखक्या *f.* comparison. 864  
 सखग्र *a.* all, whole. 338  
 सखर्या *f.* assembly. 684  
 सखगित *a.* accompanied. 880  
 सखय *m.* time, moment. 543  
 सखय *m.* instruction. 637  
 सखया *ind.* near. 865  
 सखर *n.* battle. 727  
 सखपरिन् *m.* N. of Yama. 110  
 सखवाय *m.* collection, multitude. 833  
 सखयेत *a.* accompanied. 880  
 सखग्र *a.* all, whole. 838  
 सखान *m.* assembly. 685  
 सखानिद *m.* member of an assembly.  
 685  
 सखाना *f.* fame. 613  
 सखधि *f.* meditation. 631

- समान *a* same, similar 863  
 समालम्बन *n* smearing 467  
 ममाहार *m* collection 836  
 समिति *f* assembly 684  
 समिति *f* battle 729  
 समीक *n* battle 730  
 समीप *a* near 865  
 समीर *m* the wind 201  
 समीरण *m* the wind 201  
 समुदय *m* collection, multitude 832  
 समुदाय *m* multitude, collection 833  
 समुद्र *m* sea, ocean 223  
 समुद्राग्नि *m* submarine fire 342  
 समुपासन *n* devotion 605  
 समूह *m* collection, group 830  
 समृद्ध *a* rich 758  
 समृद्धि *f* wealth 757  
 सम्पत्ति *f* wealth, 757  
 सम्पद् *f.* wealth 757  
 सम्पूर्ण *a.* complete (tune) 587  
 सम्बर *m* man of the bhil tribe 800  
 मम्बरारि *m* god of love 60  
 सम्भुद्धि *f* calling 619  
 सम्मली *f* procuress 390  
 सम्यक् *n* truth 627  
 सम्राज् *m* sovereign 678  
 सरणि *f* way 319  
 सरल *a* straight 848  
 सरस् *n* lake 251  
 सरसिज *n* lotus 257  
 सरसिरह *n* lotus 256  
 सरसी *f* lake 251  
 सरस्वत् *m* sea, ocean 224  
 सरस्वती *f* goddess of speech 3  
 सरित् *f* river 225  
 सरिष्पति *m* sea, ocean 223  
 सरीसृप *m* serpent 291  
 सरोज *n* lotus 256  
 सरोरुह *n* lotus 255  
 सरोवर *m* lake 251  
 सर्ग *m* creation 908  
 सर्प *m* serpent 290  
 म्पारि *m* N of Garuda 194  
 सर्पिस् *n* clarified butter 763  
 सर्वसहा *f* the earth 212  
 सर्व *a* whole 838  
 सर्वेश *m* supreme being 11  
 सर्वेश *m* N of Śiva 45  
 सर्वतोमुख *n* water 221  
 स्वदेशाधिप *m* emperor 679  
 सर्वमङ्गला *f* N of Parvatī 54  
 सर्वरस *m* salt 821  
 त्वलिङ्गिन् *n* impostor 667  
 तल्लि *n* water 219  
 त्वयस् *m* companion, friend 394  
 त्वित् *m* the sun 120  
 त्वित्रि *f* mother 379  
 त्विध *a* near 866  
 त्वयसाधिन् *m* epithet of Arjuna 746  
 तहकार *m* mango tree 286  
 तहचर *m* friend 394  
 तहचरी *f* wife 374  
 तहचारिणी *f* female friend 395  
 तहज *m* brother 386  
 तहज *m* nature 528  
 तहछपत्र *n* lotus 256  
 तहस्रवदन *m* N of Śiva 288  
 तहस्रांशु *m* the sun 124  
 तहस्राक्ष *m* epithet of Indra 78  
 सहित *a* accompanied 880  
 सहोदर *m* brother 386  
 सांन्यासिक *m* hermit 665  
 सांवरसर *m* astrologer 645  
 सागर *m* sea, ocean 223  
 सागराम्बरा *f* the earth 212  
 साटिका *f* petty coat 477  
 साटी *f* petty coat 477  
 सादिन् *m* horse man 710  
 साधु *m* ascetic 600  
 साधु *a* virtuous 805  
 साधु *a* good 856  
 साधुवाद *m* cry of approbation 613  
 साध्वत् *n* fear, apprehension 540  
 साध्वी *f* virtuous or chaste woman 389  
 सानुमत् *m* mountain 216  
 सान्धवन *n* conciliation 562  
 सान्द्र *a* thick, dense 871  
 सामयोनि *m* elephant 308  
 सामवेद *m* the Samaveda 648

- सायक *m.* arrow. 719  
 सार *m.* truth. 635  
 सारङ्ग *m.* the bird Cātaka. 179  
 सारङ्ग *m.* deer 300  
 सारथि *m.* charioteer. 710  
 सारमेय *m.* dog 326  
 नारसन *n.* girdle. 463  
 सारसन *n.* military girdle. 712  
 सारि *m.* die. 791  
 सार्धवाह *m.* merchant. 750  
 सार्वभौम *m.* emperor. 679  
 साल *m.* the sāla-tree. 282  
 साहि *m.* king of foreigners. 738  
 सिंह *m.* lion. 302  
 सिंह *m.* lion. 916  
 सिंहादवा *f.* N. of Pārvatī. 56  
 सिंहासन *n.* royal throne. 683  
 मित्रय *m.* garment. 469  
 सिञ्जिनी *f.* bow-string. 716  
 सिञ्जिनी *f.* anklet 465  
 सित *a.* white. 823  
 सित *a.* bound, tied. 896  
 सितच्छद *m.* swan. 191  
 सित्त *f.* candied sugar 772  
 सिवि *a.* black. 826  
 सिताम्बुज *n.* white lotus. 259  
 सितोपला *f.* candied sugar. 772  
 सिद्ध *a.* accomplished. 881  
 सिद्धान्त *m.* established truth. 636.  
 सिद्धि *f.* final beatitude. 657  
 सिन्धु *m.* sea, ocean 223  
 सिन्धु *f.* river. 227  
 सिन्धुमेखला *f.* the earth. 214  
 सिन्धुर *m.* elephant. 308  
 सिन्धुसुत *m.* the moon. 137  
 सीता *f.* Sītā, wife of Rāma. 741  
 सीतापति *m.* N. of Rāma. 739  
 सीधु *m.* wine, liquor. 738  
 सीमन्त *m.* the parting line of the hair.  
 410  
 सीमन्तिनी *f.* woman. 365  
 सीमा *f.* boundary. 559  
 सीर *m.* plough. 774  
 सुकुमार *a.* tender. 852  
 सुहृत् *m.* pious deed. 623  
 सुकेती *f.* N. of an apsaras. 96  
 सुख *n.* happiness. 523  
 सुखस्पर्श *a.* tender. 852  
 सुखासन *n.* swing. 315  
 सुगत *m.* epithet of Buddha. 13  
 सुगन्धि *m.* fragrance, perfume. 483  
 सुत *m.* son. 381  
 सुता *f.* daughter. 381  
 सुत्रामन् *m.* epithet of Indra. 78  
 सुधर्मा *f.* hall of Indra. 90  
 सुधा *f.* nectar. 87  
 सुधाकर *m.* the moon. 133  
 सुधाभुज *m.* god. 71  
 सुधिति *f.* axe. 726  
 सुपी *m.* learned man. 588  
 सुनासीर *m.* epithet of Indra. 79  
 सुन्दर *a.* beautiful. 853  
 सुन्दरी *f.* beautiful woman. 365  
 सुपण *m.* N. of Garuda. 193  
 सुपर्वर *m.* god. 71  
 सुभट *m.* hero. 696  
 सुम *n.* flower: 270  
 सुमनस् *m.* god. 71  
 सुमनस् *f.* pl. flowers. 270  
 सुर *m.* god. 69  
 सुरग्येष्ट *m.* N. of Brahman. 18  
 सुरत *n.* sexual intercourse. 513  
 सुरधीरिका *f.* the Ganges. 231  
 सुरद्रिह *m.* demon. 113  
 सुरपति *m.* epithet of Indra. 82  
 सुरभि *f.* cow. 322  
 सुरभि *f.* fragrance. 483  
 सुरपंभ *m.* N. of Indra. 83  
 सुरलोक *m.* heaven. 75  
 सुरवर्षम् *n.* sky. 119  
 सुरा *m.* wine, liquor. 785  
 सुरा *m.* N. of an ocean. 911  
 सुराचार्य *m.* epithet of Bṛhaspati. 148  
 सुराजीविन् *m.* distiller. 784  
 सुरालय *m.* heaven. 76  
 सुवर्ण *n.* gold. 343  
 सुविहित *m.* wise man. 592  
 सुधूपा *f.* devotion. 604  
 सुप्रभा *f.* beauty, lustre. 494  
 सुपिर *n.* wind-instrument. 577

- स्मरध्वज *m.* N. of a musical instrument. 575  
 स्मरमन्दिर *n.* the female organ. 441  
 स्मरारि *m.* N. of Siva. 48  
 स्मित *n.* smile. 518  
 स्मृति *f.* recollection. 550  
 स्मैर *n.* a full-blown flower. 274  
 स्पन्दन *m.* chariot. 314  
 स्रग् *f.* garland. 466  
 स्रवन्ती *f.* river. 228  
 स्रष्टु *m.* epithet of Brahman. 15  
 स्रोतस् *n.* flow. 237  
 स्रोतस्त्रिनी *f.* river. 228  
 स्रोतोवहा *f.* river. 229  
 स्व *n.* wealth. 351  
 स्वधिति *f.* axe. 725  
 स्वद *m.* sound. 640  
 स्वभाव *m.* nature. 528  
 स्वभू *m.* N. of Viṣṇu 30  
 स्वयम् *m.* N. of Brahman 18  
 स्वर् *m.* heaven. 75  
 स्वरूप *n.* nature 907  
 स्वर्ग *n.* heaven. 75  
 स्वर्ण *n.* gold. 343  
 स्वर्णकार *m.* goldsmith. 776  
 स्वर्दी *f.* the heavenly ganges. 231  
 स्वर्मानु *m.* N. of Rāhu. 131  
 स्वास् *f.* sister. 387  
 स्वःश्रेयस् *n.* welfare. 659  
 स्वादु *a.* sweet. 819  
 स्वादु *m.* N. of an ocean. 911  
 स्वाध्याय *m.* study. 638  
 स्वान्त *n.* the mind 402  
 स्वाप *m.* sleep. 541  
 स्वापति *n.* wealth. 352  
 स्वामिन् *m.* N. of Kārttikeya 67  
 स्वामिन् *m.* lord. 680  
 स्वास्थ *n.* satisfaction. 522  
 स्वाहापति *m.* fire. 339  
 स्वेद *m.* sweat. 547  
 स्वैरिणी *f.* unchaste woman. 392
- हंस *m.* N. of Brahma's vāhana. 20  
 हंस *m.* the sun 126
- हंस *m.* swan. 191  
 हंस *m.* the individual soul. 401  
 हंसक *n.* anklet. 465  
 हंसयाना *f.* N. of Sarasvatī. 4  
 हट्ट *m.* market-place. 751  
 हट्ट *m.* pride. 534  
 हनुमत् *m.* Hanūmat, son of Wind. 206  
 हनुमत् *m.* Hanūmān. 748  
 हय *m.* horse. 311  
 हर *m.* N. of Siva. 39  
 हरतोत्रा *f.* N. of Ganges. 233  
 हरि *m.* N. of Viṣṇu. 22  
 हरि *m.* N. of Indra. 84  
 हरि *m.* the sun. 126  
 हरि *m.* Hon. 302  
 हरिचन्दन *m.* N. of a heavenly tree. 97  
 हरिचन्दन *n.* a kind of yellow sandal. 289  
 हरिण *m.* deer. 300  
 हरित् *m.* quarter. 168  
 हरित् *a.* green. 825  
 हरिदश *m.* the sun. 126  
 हरिद्राम *a.* yellow. 825  
 हरिप्रणी *f.* N. of Lakṣmī. 50  
 हरिवर्ष *n.* one of the nine divisions of the earth. 912  
 हरिहय *m.* Indra. 86  
 हर्ष्य *n.* house. 498  
 हर्ष्य *m.* lion. 302  
 हर्षे *m.* joy. 519  
 हल *m.* plough. 774  
 हय *m.* call. 619  
 हवन *n.* sacrifice. 671  
 हविष्यान् *n.* kind of sacted food. 765  
 हविस् *n.* clarified butter. 763  
 हृष्यवाह *m.* fire. 334  
 हसन् *n.* laughter. 518  
 हसित *n.* full-blown flower. 275  
 हसित *n.* laughter. 518  
 हस्त *m.* hand. 428  
 हरितन् *m.* elephant. 306  
 हस्तिपक *m.* elephant-driver. 709  
 हटक *n.* gold. 344  
 हायन *m.* year. 166

हार *m* necklace of pearls 457  
 हारि *a* pleasing, charming 855  
 हालाहक *m* poison 298  
 हाव *m* pleasure 520  
 हाम *m* laughter 514  
 हासिका *f* laughter 518  
 हास्य *n* laughter 518  
 हास्य *m* N of a sentiment 582  
 हादा *m* N of a Gandharva 88  
 हित *n* welfare 526  
 हिन्दोल *m* swing 870  
 हिम *a* cold 144  
 हिमपुति *m* the moon 136  
 हिमवत् *m* N of a mountain 914  
 हिमवत्सुता *f* N of Pārvatī 51  
 हिमयालुका *f* camphor 486  
 हिमाञ्जु *m* the moon 132  
 हिमालय *m* N of a mountain 217  
 हिरण्य *n* one of the nine divisions of  
 the earth 914  
 हिरण्य *n* gold 343  
 हिरण्यगर्भ *m* epithet of Brahman 16  
 हिरण्यरेतम् *m* fire 337  
 हुड *m* ram 329  
 हुतमुग् *m* fire 335  
 हुतवह *m* fire 334

हुताशन *m* fire 333  
 हुति *f* name 619  
 हुह *m* N of a Gandharva 88  
 हुज्य *m* god of love 63  
 हुद् *n* bosom, breast 433  
 हुदय *n* mind 402  
 हुदय *n* bosom, breast 433  
 हुय *a* pleasing, charming 856  
 हुलेखा *f* anxiety 549  
 हुपीक *n* organ of sense 399  
 हुपकेश *m* N of Viṣṇu 27  
 हति *f* flame 897  
 हति *m* *f* weapon 714  
 हेतु *m* cause 643  
 हेमन् *n* gold 343  
 हेरम्ब *m* epithet of Gaṇeśa 7  
 हरिक *m* spy 690  
 हलि *m* the sun 126  
 होत्र *n* sacrifice 671  
 होम *m* sacrifice 671  
 हुदिनी *f* river 228  
 हुस्व *a* short 844  
 हुदिनी *f* lightning 177  
 ही *f* bashfulness 517  
 ह्राद *m* joy 519

### Homonymous Words

गो *m* *f* quarter, 925, the eye, ray of  
 light, region of the sky, thunder-  
 bolt, speech, arrow, water, 926, the  
 earth, cattle 927  
 मारुत्त *m* lute, elephant, horse, lion  
 deer, god of love, coral, garment,  
 916, moon, cātaka bird large black  
 bee, cloud, bow, sword (?) thunder-  
 bolt, earth, 917, crane, cuckoo,  
 peacock, parrot, eagle? gold wind  
 the sun, darkness, 918, guṣṭā seed,  
 Bilva fruit, lotus, light, chalk, 919

हरि *m* lion, monkey, parrot, Harihara,  
 gold, N of Paraśurāma, 920, moon,  
 star, Sukra, king, horse, taking  
 away? पंश? yama, quick-silver, 921,  
 elephant, पर्ण? wind, fire, N of  
 Kārttikeya, Indra, snake, 922, the  
 sun, thunderbolt, N of Śiva, day,  
 sword, 923, the sun, monkey frog  
 Viṣṇu, Indra, wind, 924, horse  
 lion, moon, yama, 924